

આ પ્રન્ય-

શેઠ ચુનીલાલ ગોકલદાસના
સુપુત્ર સાંકલધંવ ચુનીલાલના
સ્મરણાર્થે છપાવ્યો છે.

મુદ્રક- જૈન પુસ્તકોદય પ્રેસના
માલિક- શા. ધીમનલાલ
ગોકલદાસ. ઠે- ઘીકાંટાપાટી
અમદાવાદ.

॥ ॐ ॥

॥ श्री परमगुरुभ्यो नमः ॥

॥ अथ श्री देवेन्द्रसूरिविरचिताः

॥ नव्याः पञ्चकर्मग्रन्थाः ॥

॥ कर्मविपाकनामा प्रथमः कर्मग्रन्थः ॥

मूलगाथा.

सिरिवीरजिणं वंदिय कम्मविवागं समासओ बुच्छं ।
कीरइ जिण्ण हेउहिं जेणं तो भण्णए कम्मं ॥ १ ॥
पयइठिइरसपएसा तं चउहा मोअगस्स दिठंता ।
मूलपगइछउत्तर पगइ अडवन्नसयभेअं ॥ २ ॥
इह नाणदंसणावरणवेयमोहाउनामगोयाणी ।
विग्घं च पणनवदुअछवोसचउतिसयदुपणविहं ॥ ३ ॥
मइसुअओहीमणकेवलाणि नाणाणि तत्थ मइनाणं ।
वंजणवग्गह चउहा मणनयणविणिंदियचउक्का ॥ ४ ॥

अत्युग्गहइहावा यधारणाकरणमाणसेहिं छहा ।
 इअ अठवीसभेअं-चउदसहा वीसहा व सुअं ॥ ५ ॥
 अक्खर सन्नी सम्मं साईअं खल्लु सपज्जवसिअं च ।
 गमिअं अंगपविठं सत्तवि एए सपडिवक्खा ॥ ६ ॥
 पज्जयअक्खरपयसंघाया पडिवत्ति तह य अणुअयोगो ।
 पाहुडपाहुडपाहुड वत्थपुब्बो य ससमासा ॥ ७ ॥
 अणुगामिवद्दमाणयपडिवाईयरविहा छहा ओही ।
 रिउमइविउलमई मणनाणं केवलमिगविहाणं ॥ ८ ॥
 एसिं जं आवरणं पडुव्व चक्खुस्स तं तयावरणं ।
 दंसण चउ पण निदा वित्तिसमं दंसणावरणं ॥ ९ ॥
 चक्खुदिठ्ठिअचक्खू सेसिंदियओहिकेवलेहिं च ।
 दंसणमिह सामन्नं तस्सावरणं तयं चउहा ॥ १० ॥
 सुहपडिवोहा निदा निदानिदा य दुक्खपडिवोहा ।
 पयला ठिओवविट्ठस्स पयलपयला उ चंकमअो ॥११॥
 दिणचित्तिरत्थकरणी थीणद्धी अद्धचक्किअद्धवला ।
 महुलित्तखग्गधारा लिहणं व दुहा उ वेअणिअं ॥ १२ ॥
 ओसन्नं सुरमणुए सायमसायं तु तिरिअनिरएसु ।

मज्जं व मोहणीयं दुविहं दंसणचरणमोहा ॥ १३ ॥
 दंसणमोहं तिविहं सम्मं मीसं तहेव मिच्छत्तं ।
 सुद्धं अद्धविमुद्धं अविमुद्धं तं हवइ कमसो ॥ १४ ॥
 जिअअजिअपुण्णपावासवसंवरबंधमुक्खनिज्जरणा ।
 जेणं सइहइ तयं संमं खइगाइवहुभेअं ॥ १५ ॥
 मीसा न रागदोसो जिणधम्मे अंतमुहु जहा अन्ने ।
 नालिअरदीवमणुणो मिच्छं जिणधम्मविवरीअं ॥ १६ ॥
 सोलस कसाय नव नोकसाय दुविहं चरित्तमोहणियं ।
 अण अण्णच्चक्खाणा पच्चक्खाणा य संजलणा ॥ १७ ॥
 जाजीववरिसंचउमासपक्खग्गा निरयतिरियनरअमरा ।
 सम्माणुसव्वविरइअहखायचरित्तघायकरा ॥ १८ ॥
 जलरेणुपुढविपव्वयराइसरिसो चउव्विहो कोहो ।
 तिणिसलयाकठऽहिअसेलत्थंभोवमो माणो ॥ १९ ॥
 मायावलेहिगोमुत्तिमिढसिंघणवंसिमूलसमा ।
 लोहो हलिद्वखंजणकइमकिमिरागसामाणो ॥ २० ॥
 जस्सुदया होइ जिण हासरइअरइसोगभयकुच्छा ।
 सन्निमित्तमन्नहा वा तं इह हासाइमोहणियं ॥ २१ ॥



पुरिसिस्थितदुभयं पद्मः अहिलासोऽजवसा हवइ सो उ।
 थीनरनपुंवेउदओः फुंफुमतणनगरदाहसमो ॥ २२ ॥
 सुरनरतिरिनिरयाऊ हडिसरिसं नामकम्म चित्तिससं ।
 बायालतिनवइविहं तिउत्तरसयं च सत्तघी ॥ २३ ॥
 गइजाइतणुउवंगा वंघणसंघायणाणि संघयणा ।
 संठाणवण्णगंधरसफासअणुपुठिविहगगई ॥ २४ ॥
 पिंडपयडित्ति चउदस परघाउस्तासआयवुज्जोयं ।
 अगुरुलहुतित्थनिमिणोवघायमिअ अछ पत्तेआ ॥ २५ ॥
 तसवायरपज्जत्तं पत्तेयथिरं सुभं च सुभगं च ।
 सुसराइज्ज जसं तसदसगं थावरदसं तु इमं ॥ २६ ॥
 थावरसुहुमअपज्जं साहारणअथिरअसुभदुभगाणि ।
 दुस्तरणाइज्जाजसमिअनामे सेअरा वीसं ॥ २७ ॥
 तसचउथिरछकं अथिरछकसुहुमतिगथावरचउकं ।
 सुभगतिगाइविभासा तथाइसंखाहि पयडीहिं ॥ २८ ॥
 गइआईण उ क्कमसो चउंपणपणत्तिपणपंचछकं ।
 पणदुगपणट्टचउदुग इय उत्तरभेअपणसघी ॥ २९ ॥
 अडवीसजुआ तिनवइ संते वा पनरवंधणे तिसयं ।

- बंधणसंघायगहो तणसु सामणवणषळ ॥ ३० ॥
 इअ सत्तही बंधोदए य न य सम्ममीसया बंधे ।
 बंधुदए सत्ताए वीसदुवीसऽठवणसयं ॥ ३१ ॥
 नरयतिरिनरसुरगई, इगविअतिथचउपणिदिजाईओ ।
 ओरालविउव्वाहारगतेअकम्मणपणसरीरा ॥ ३२ ॥
 वाहूरु पिट्ठि सिर उर, उयरंग उवंग अंगुलीपमुहा ।
 सेसा अंगोवंगा पढमतणुतिगस्सुवंगाणि ॥ ३३ ॥
 उरलाइपुग्गलाणं निवद्धवइइंतयाण संबंध ।
 जं कुणइ जउसमं तं उरलाईबंधणं नेयं ॥ ३४ ॥
 जं संघायइ उरलाइपुग्गले तणगणं व दंताली ।
 तं संघायं बंधणमिव तणुनामेण पंचविहं ॥ ३५ ॥
 ओरालविउव्वाहारयाण सगतेअकम्मजुत्ताणं ।
 नवबंधणाणि इअर दुसहिआणं तिद्धि तेसिं च ॥ ३६ ॥
 संघयणमट्ठिनिचओ, तं छद्धा वजरिसहनारायं ।
 तह य रिसहनारायं नारायं अद्धनारायं ॥ ३७ ॥
 कीलिअ ठेवडुं इह रिसहो पट्टो अ कीलिआ वज्जं ।
 उभओ मवकडबंधो नारायं इममुरालंगे ,। ३८ ॥

समचउरंसं निग्गोह साइखुजाइ वामणं हुंडं ।
 संठांणा वण्णा किण्ह नीललोहियहलिहसिआ ॥३९॥
 सुरहीदुरही रसा पण तित्तकडुकसायअविला महरा ।
 फासा गुरुलहुमिउखरसीउण्हसिणिद्धरुक्खट्टा ॥४०॥
 नीलकसिणं दुगंधं तित्त कडुअं गुरुं खरं रुक्खं ।
 सीअं च असुहनवगं, इक्कारसगं सुभं सेसं ॥४१॥
 चउहगइव्वणुपुठ्वी गइपुठ्विदुगं तिगं नियाउजुअं ।
 पुठ्वीउदओ वक्के सुहअसुहवसुट्टविहगगई ॥४२॥
 परघाउंदया पाणी परेसि बलिणं पि होइ दुद्धरिसो ।
 उससणलद्धिजुत्तो हवेइ जसासनामवसा ॥ ४३ ॥
 रविविंवे उ जियंगं तावजुअ आयवाउ न उ जलणे ।
 जमुसिणफासस्स तहिं लोहियवण्णस्स उदउत्ति ४४
 अणुसिणपयासरूवं जियंगमुज्जोयए इहुज्जोया ।
 जइ देवुत्तरविविक्कअजोइसखज्जोअमाइव्व ॥४५॥
 अंगं न गुरु न लहुअं जायइ जीवस्स अगुरुलहुउदया
 तिस्थेण तिहुअणस्स वि पुज्जो से उदओ केवलिणो४६
 अंगोवंगनिअमणं, निम्माणं कुणइ सुत्तहारसमं ।

उवघाया उवहम्मइ सतणुवयवलंविगाइहिं ॥४७॥
 वितिचउपणिदियतसा वायरओ वायरा जिया थूला ।
 निअनिअपज्जतिजुआ, पज्जत्ता लद्धिकरणेहिं ॥४८॥
 पत्तेअ तणु पत्तेउदएणं दंतअट्टिमाइ थिरं ।
 नाभुवरि सिराइ सुहं सुभगाओ सव्वजणइट्ठो ॥४९॥
 सुसरा महरसुहझुणी आइज्जा सव्वलोअगिइझवओ
 जसओ जसकितीओ थावरदसगं विवज्जत्थं ॥५०॥
 गोअं दुहुच्चनीअं कुलाल इव सुघडभुंभलाइअं ।
 विग्घं दाणे लाभे भोगुवभोगेसुवीरिए अ ॥५१॥
 सिरिहरिअसमं एअं जह पडिकूलेण तेण रायाइ ।
 न कुणइ दाणाइअं एवं विग्घेण जीवो वि ॥५२॥
 पडिणीअत्तणनिन्हवउवघायपओसअंतराएणं ।
 अच्चासायणयाए आवरणदुगं जिओ जयइ ॥५३॥
 गुरुभत्तिखंतिकरुणावयजोगकसायविजयदाणजुओ ।
 दढधम्माइ अज्जइ सायमसायं विवज्जयओ ॥५४॥
 उम्मग्गदेसणा मग्गनासणा देवदव्वहरणेहिं ।
 दंसणमोहं जिणमुणिचेइअसंघाइपडिणीओ ॥५५॥

दुविहंपि चरणमोहं कसायहासाइविसयवित्रसमणो ।
 बंधइ नरयाउ महारंभपरिग्गहरओ रूहो ॥ ५६ ॥
 तिरिआउ गूढहियओ, सढो ससल्लो तहा मणुस्साउ
 पयईइ तणुकसाओ, दाणरुई मइइमगुणो अ ॥ ५७ ॥
 अविरयमाइ सुराउं, बालतवोकामनिज्जरो जयइ ।
 सरलो अगारविल्लो, सुहनामं अन्नहा असुहं ॥ ५८ ॥
 गुणपेही भयरहिओ, अइज्जयणइझावणारुई निच्चं ।
 पकुणइ जिणाइभत्तो, उच्चं नीअं इअरहा उ ॥ ५९ ॥
 जिणपूआविग्घकरो, हिंसाइपरायणो जयइ विग्घं ।
 इय कम्मविवागोअं, लिहिओ देविंदसूरीहिं ॥ ६० ॥


 ॥ इति कर्मविपाकनामा प्रथमः कर्मग्रंथः ॥


॥ ॐ नमोऽर्हते ॥

॥ अथ कर्मस्तवनामा द्वितीयः कर्मग्रन्थः ॥

तह धुणिमो वीरजिणं, जह गुणठाणेषु सयलकम्माई ।
बंधुदयोदीरणयासत्तापत्ताणि खविआणि ॥ १ ॥
मिच्छे सासणमीसे, अविरयदेसे पमत्तअपमत्ते ।
निअट्टिअनिअट्टिसुहुमुवसमखीणसजोगिअजोगिगुणा २
अभिनवकम्मग्गहणं, बंधो ओहेण तत्थ वीससयं ।
तित्थयराहारगदुगवज्जे मिच्छेमि सत्तरसयं ॥ ३ ॥
नरयतिग जाइथावरचउ हुंडायवच्छिवट्टनपुमिच्छं ।
सोखंतो इगहिअसय, सासणि निरिथीणदुहगतिगं ॥४
अणमज्जागिइसंधयणचउ निज्जोअकुखगइत्थित्ति ।
पणवीसंतो मीसे, चउसयरि दुहाउयअबंधा ॥५॥
सम्मे सगसयरि जिणाउबंधि वड्ढरनरत्तिअविअकसाया
उरलदुगंतो देसे, सत्तट्ठी निय कसायंतो ॥ ६ ॥

तेवघ्नीपमत्ते सोग अरइ अधिरदुग अजसअस्तायं ।
 बुच्छिज्ज छच्च सत्त व, नेइसुराउं जया निठं ॥ ७ ॥
 गुणसठि अप्पमत्ते, सुराउ वंधं तु जइ इहागच्छे ।
 अन्नह अठावन्ना, जं आहारगदुगं वंधे ॥ ८ ॥
 अडवन्न अपुव्वाइमि, निद्वदुगंतो छपन्न पणभागे ।
 सुरदुगपणिंदिसुखगइतसनवउरलविणुत्तणुवंगा ॥९॥
 समचऊरनिमिणजिणवन्नअगुरूलहुचउ छलंसि तीसंतो
 चरमे छवीसबंधो, हासरइकुच्छभयभेओ ॥ १० ॥
 अनिअट्टिभागपणगे, इगेगहीणो दुवीसविहबंधो ।
 पुमसंजलणचउण्हं, कमेण ठेओ सतर सुहुमे ॥११॥
 चउदंसणुच्चजसनाणविग्घदसगं ति सोलसुच्छेओ ।
 तिसु सायबंध छेओ, सजोगिवंधंतुणंतो अ ॥ १२ ॥
 उदओ विवागवेअणमुदीरणमपत्ति इह दुवीससयं ।
 सतरसयं मिच्छे मीससम्मआहारजिणणुदया ॥ १३ ॥
 सुहुमतिगायवमिच्छं, मिच्छंतं सासणे इगारसयं ।
 निरयाणुपुव्विणुदया, अणथावरइगविगलअंतो ॥१४॥
 मीसे सयमणुपुव्वीणुदया मीसोदएण मीसंतो ।

चउसयमजष सम्माणुपुव्विखेवा विअकसाया ॥१५॥
 मणुतिरिणुपुव्वि विउवच्छदुहंगअण्णाइज्जदुगसतरठेओ ।
 सगसीइ देसि तिरिगइआउ निउज्जोअतिकसाया ॥१६॥
 अछच्छेओ इगसी, पमत्ति आहारजुअलपक्खेवा ।
 थीणतिगाहारगदुगठेओ छस्सयरि अपमत्ते ॥ १७ ॥
 सम्मत्तंतिमसंघयणतिअगच्छेओ विसत्तरि अपुव्वे ।
 हासाइछक्खंतो, छंसट्ठि अनिअट्ठि वेअतिगं ॥ १८ ॥
 संजलणतिगं छठेअओ, सणी सुहुमंमि तुरिअलोभंतो ।
 उवसंतगुणे गुणसट्ठि रिसहनारायदुगअंतो ॥ १९ ॥
 सगवन्न खीण दुच्चरमि, निइदुगंतो अ चरमि पणवज्जा ।
 नाणंतरायदंसणचउ ठेअओ सजोगि वायाला ॥ २० ॥
 तित्थुदया उरलाधिरखगइदुग परित्ततिग छसंठाणा ।
 अगुरुलहुवन्नचउ निमिणतेअकम्माइसंघयणं ॥ २१ ॥
 सूसर दूसर सायासाएगपरं च तीस बुच्छेओ ।
 वारस अजोगि सुभगाइज्जजसन्नयरवेअणिअं ॥२२॥
 तसतिग पणिदि मणुआउगइ जिणुच्चं ति चरमसमयंतो
 उदउव्वुदीरणया, परमपमत्ताइसगगुणेषु ॥ २३ ॥


तेवहीपमत्ते सोग अरइ अथिरदुग अजसअस्तायं ।
 बुच्छिज्ज छच्च सत्त व, नेइसुराउं जया निठं ॥ ७ ॥
 गुणसद्धि अप्पमत्ते, सुराउ बंधं तु जइ इहागच्छे ।
 अन्नह अठावन्ना, जं आहारंगदुगं बंधे ॥ ८ ॥
 अडवन्न अपुव्वाइमि, निदुदुगंतो छपन्न पणभागे ।
 सुरदुगपणिंदिसुखगइतसनवउरलविणुतणुवंगा ॥९॥
 समचऊरनिमिणजिणवन्नअगुरूलहुचउ छलंसि तीसंतो
 चरमे छवीसबंधो, हासरइकुच्छभयभेओ ॥ १० ॥
 अनिअट्टिभागपणगे, इगेगहीणो दुवीसविहबंधो ।
 पुमसंजलणचउण्हं, कमेण ठेओ सतर सुहुमे ॥११॥
 चउदंसणुच्चजसनाणविग्घदसगं ति सोलसुच्छेओ ।
 तिसु सायबंध छेओ, सजोगिवंधंतुणंतो अ ॥ १२ ॥
 उदओ विवागवेअणमुदीरणमपत्ति इह दुवीससयं ।
 सतरसयं मिच्छे मीससम्मआहारजिणणुदया ॥ १३ ॥
 सुहुमतिगायवमिच्छं, मिच्छंतं सासणे इगारसयं ।
 निरयाणुपुठिवणुदया, अणथावरइगविगलअंतो ॥१४॥
 मीसे सयमणुपुठ्वीणुदया मीसोदण्ण मीसंतो ।

चउंसयमजए सम्माणुपुव्विखेवा विअकसाया ॥१५॥
 मणुतिरिणुपुव्वि विउवच्चदुहगअण्णाइज्जदुगसतरठेओ ।
 सगसीइ देसि तिरिगइआउ निउज्जोअतिकसाया ॥१६॥
 अठच्चेओ इगसी, पमत्ति आहारजुअलपक्खेवा ।
 थीणतिगाहारगदुगठेओ छस्सयरि अपमत्ते ॥ १७ ॥
 सम्मत्तंतिमसंघयणतिअगच्छेओ विसत्तरि अपुव्वे ।
 हासाइछक्खंतो, छसट्ठि अनिअट्ठि वेअतिगं ॥ १८ ॥
 संजलणतिगं छठेअओ, सठी सुहुमंमि तुरिअलोभंतो ।
 उवसंतगुणे गुणसट्ठि रिसहनारायदुगअंतो ॥ १९ ॥
 सगवन्न खीण दुच्चरमि, निइदुगंतो अ घरमि पणवन्ना ।
 नाणंतरायदंसणचउ ठेअओ सजोगि वायाला ॥ २० ॥
 तिरधुदया उरलाधिरखगइदुग परित्ततिग छसंठाणा ।
 अगुरुलहुवन्नचउ निमिणतेअकम्माइसंघयणं ॥ २१ ॥
 सूसर दूसर सायासाएगपरं च तीस बुच्छेओ ।
 धारस अजोगि सुभगाइज्जजसन्नयरवेअणिअं ॥२२॥
 तसतिग पणिदि मणुआउगइ जिणुच्चं ति चरमसमयंतो
 उदउव्वुदीरणया, परमपमत्ताइसगगुणेषु ॥ २३ ॥

एसा पयडीतिगूणा, वेअणिआहारजुअलथीणतिगं ।
 मणुआउ पमत्तता, अजोगि अणुदीरगो भयवं ॥२४॥
 सत्ता कम्माण छिइ, वंधाइअलद्धअत्तलाभाणं ।
 संते अडयालसयं जा उवसमु विजिणु विअतइए ॥२५॥
 अणुवाइअचउक्के, अण तिरिनिरयाउविणु विआलसयं
 सम्माइचउसु सत्तगखयंमि इगचत्तसयमहवा ॥२६॥
 खवगं तु पप्प चउसु वि, पणयालं निरयतिरिसुराउ विणा
 सत्तग विणु अडतीसं, जा अनिअट्टि पढमभागो ॥२७॥
 थावरतिरिनिरयायवदुग थीणतिगेग त्रिगल साहारं ।
 सोलखओ दुविससयं, विअंसि विअतिअकसायंतो २८
 तइआइसु चउदसतेरवारछपणचउतिहिअसय कमसो ।
 नपुइत्थिहासल्लगपुंसतुरिअकोहोमयमायखओ ॥ २९ ॥
 सुहुमि दुसय लोहंतो, खीणदुचरिमेगसय दुनिइखओ ।
 नवनवइ चरमसमए, चउदंसणनाणविग्घंतो ॥ ३० ॥
 पणसीइ सजोगि अजोगि दुचरिमे देवखगइगंधदुगं ।
 फासठवण्णरसतणुबंधणसंघायपण निमिणं ॥३१॥
 संघयणअधिरसंठाणल्लक्क अगुरुलहुचउ अपज्जतं ।

सायं व असायं वा, परिसुवंगतिग सुत्तर निअं ॥३॥
 विसयरि खओ अ चरिमे, तेरस मणुअत्तसतिग
 जसाइज्जं

सुभगजिणुच्च पणिंदिअ, सायासाएगयरठेओ ॥३३॥
 नरअणुपुठ्वि विणा वा, वारस चरमसमयंमि जो खवि
 पत्तो सिद्धिं देविंदवंदिअं नमह तं वीरं ॥ ३४ ॥



अथ बंधस्वामित्वाख्यस्तृतीयः


कर्मग्रन्थः ॥

बंधविहाणविमुक्कं, वंदिअ सिरिवद्धमाणजिणचंदं ।
गइआईसु वुच्छं, समासओ बंधसामित्तं ॥ १ ॥
[गइ इंदीए थ काए, जोए वेए कसोय नाणे थ ।
संजम दंसण लेसा, भव सम्मे सन्नि आहारे ॥ २ ॥]
जिण सुरविउवाहारदु, देवाउ अ निरयसुहुमविगलतिगं
एगिंदि थावरायव, नपु मिच्छं हुंड ठेवठं ॥ ३ ॥
अण मझागिइसंघयण, कुखगनिअ इत्थि दुहगथीणतिगं
उज्जोअ तिरिदुगं तिरिनराउ नरउरलदुग रिसहं ॥४॥
सुरइगुणवीसवज्जं, इगसउ ओहेण बंधहिं निरया ।
तित्थविणा मिच्छि सयं, सासणि नपुचउ विणा छनुई
विणु अणछवीस मीसे, विसयरि सम्मंमि जिणनराउजुआ
इअ रयणाइसु भंगो, पंकाइसु तित्थयरहीणो ॥ ६ ॥
अजिणमणुआउ ओहे, सत्तमिए नरदुगुच्चविणु मिच्छे

इगनवई सासाणे, तिरिआउ नपुंसचउवज्जं ॥ ७ ॥
 अणचउवीसविरहिआ, सनरदुगुच्चा य सयरिमीसदुगे
 सतरसओ थोहि मिच्छे, पज्जतिरिआ विणु जिणाहारं
 वेणु निरयसोल सासणि, सुराउ अणएगतीस विणु भीसे
 ससुराउ सयरि सम्मे, धीअकसाए विणा देसे ॥ ९ ॥
 इअ चउगुणेषु वि नरा, परमजया सजिण ओहु देसाई
 जिणइक्कारसहीणं, नवसय थपज्जत्ततिरिअनरा ॥१०॥
 निरयव्व सुरा नवरं, ओहे मिच्छे इगिंदितिगंसहिआ ।
 कप्पदुगे वि अ एवं, जिणहीणो जोइभवणवणे ॥११॥
 रयणु व्व सणंकुमाराइ आणयाइ उज्जोअचउरहिआ ।
 थपज्जतिरिअ व्व नवसयमिगिंदिपुढविजलंतरुविंगले १२
 छनवइ सासणि विणु सुहुमतेर केइ पुण विंति चउनवइं
 तिरिअनराऊहिं विणा, तणुपज्जत्तिं न जंति जओ ॥१३॥
 ओहु पणिंदितसे गइतसे जिणिकारनरतियुच्चविणा ।
 मणवयज्जोगे ओहो, उरले नरभंगु तम्मिस्से ॥ १४ ॥
 थ्याहारलग विणोहे, चउदससउ मिच्छि जिणपणगहीणं
 सासणि चउनवइ विणा, तिरिअनराऊ सुहुमतेर ॥१५॥

अणचउवीसाइ विणा, जिणपणजुअ सम्मिजोगिणो सायं
 विणु तिरिनराउ कम्मे, वि एवमाहारदुगि ओहो ॥१६॥
 सुरओहो वेउव्वे, तिरिअनराउ रहिअ्यो अ तम्मिस्से ।
 वेअतिगाइमविअतिअकसाय नव दु चउं पंचगुणा ॥१७॥
 संजलणतिगे नव दस, लोहे चउ अजइ दुति अनाणतिगे
 वारस अचक्खुचक्खुसु, पढमा अहखाय चरमचउ ॥१८॥
 मणणाणि सग जयाई, समइअठेअ चउ दुद्धि परिहारे ।
 केवलदुगि दो चरमाजयाइ नव मइसुओहिदुगे ॥१९॥
 अड उवसमि चउ वेअगि, खइए इकार मिच्छतिगि देसे
 सुहुमि सघाणं तेरस, आहारगि निअनिअगुणोहो ॥२०॥
 परमुवसमि वट्टंता, आउ न वंधंति तेण अजयगुणे ।
 देवमणुआउहीणो, देसाइसु पुण सुराउविणा ॥२१॥
 ओहे अघारसयं, आहारदुगूणमाइलेसतिगे ।
 तं तित्थोणं मिच्छे, साणाइसु सव्वहिं ओहो ॥२२॥
 तेज नरयनवूणा, उज्जोअचउ नरयवार विणु सुक्का ।
 विणु नरयवार पम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे ॥२३॥
 सव्वगुणभव्वसन्निसु, ओहु अभव्वा असन्नि मिच्छसम

सासणि असन्नि सन्निव्व, कम्मणभंगो अणाहारे ॥२४॥
 तिसु दुसु सुक्काइगुणा, चउ सग तेरत्ति वंधसामित्तं ।
 देविंदसूरिलिहिअं नेयं कम्मत्थयं सोउं ॥२५॥




॥ अथ षडशीतिकाख्यश्चतुर्थः
 कर्मग्रन्थः ॥

नमिअ जिणं जिअमग्गणगुणठाणुवओगजोगलेसाओ ।
 वंछप्पवहूभावे, संखिजाई किमवि बुच्छं ॥ १ ॥
 [नमिअ जिणं वत्तवा, चउदसजिणठाणएसु गुणठाणा ।

अणचउवीसाइ विणा, जिणपणजुअ सम्मिजोगिणो सायं
 विणु तिरिनराउ कम्मे, वि एवमाहारदुगि ओहो ॥१६॥
 सुरओहो वेउव्वे, तिरिअनराउ रहिअो अ तम्मिस्से ।
 वेअतिगाइमविअतिअकसाय नव दु चउं पंचगुणा ॥१७॥
 संजलणतिगे नव दस, लोहे चउ अजइ दुति अनाणतिगे
 वारस अचक्खुचक्खुसु, पट्टमा अहखाय चरमचउ ॥१८॥
 मणणाणि सग जयाई, समइअठेअ चउ दुन्नि परिहारे ।
 केवलदुगि दो चरमाजयाइ नव मइसुओहिदुगे ॥१९॥
 अड उवसमि चउ वेश्रगि, खइए इकार मिच्छतिगि देसे
 सुहुमि सट्ठाणं तेरस, आहारगि निअनिअगुणोहो ॥२०॥
 परमुवसमि वट्टंता, आउ न वंधंति तेण अजयगुणे ।
 देवमणुआउहीणो, देसाइसु पुण सुराउविणा ॥२१॥
 ओहे अट्टारसयं, आहारदुगूणमाइलेसतिगे ।
 तं तित्थोणं मिच्छे, साणाइसु सव्वहिं ओहो ॥२२॥
 तेज नरयनवूणा, उज्जोअचउ नरयवार विणु सुक्का ।
 विणु नरयवार पम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे ॥२३॥
 सव्वगुणभव्वसन्निसु, ओहु अभव्वा असन्नि मिच्छसम

सासणि असन्नि सन्निव्व, कम्मणभंगो अणाहारे ॥२४॥
 तिसु दुसु सुक्काइगुणा, चउ सग तेरत्ति वंधसामित्तं ।
 देविंदसूरिलिहिअं नेयं कम्मत्थयं सोउं ॥२५॥



॥ अथ षडशीतिकाख्यश्चतुर्थः
 कर्मग्रन्थः ॥

नमिअ जिणं जिअमग्गणगुणठाणुवओगजोगलेसाओ ।
 वंद्धप्पवहूभावे, संखिज्जाई किमवि बुच्छं ॥ १ ॥
 [नमिअ जिणं वत्तव्वा, चउदसजिणठाणएसु गुणठाणा ।

जोगुवओगो लेसा, बंधोदओदीरणा सत्ता (पाठांतरं)
चउदस जिअठाणेसु, चउदस गुणठाणगाणि जोगा य ।
उवओगलेसबंधोदओदीरणासंत अट्टपए ॥ २ ॥
तह मूल चउदमग्गणठाणेसु वासठि उत्तरेसु च ।
जिअगुणजोगुवओगालेसप्पवहुं च ठठाणा ॥ पाठा०
चउदस मग्गणठाणेसु मूलपएसु विसठि इअरेसु ।
जिअगुणजोगुवओगालेसप्पवहुत्त छ ट्ठाणा ॥३॥
चउदस गुणेसु जिअजोगुवओगलेसा य बंधहेऊ य ।
बंधाइअ चउ अप्पावहुं च तो भाव संखाई ॥ पाठा०
चउदस गुणठाणेसु, जिअजोगुवओगलेस्सबंधा य ।
बंधुदयुदीरणाओ, संतप्पवहुं च दसठाणा ॥ ४ ॥
इह सुहुमवायरेगिंदिवितिचउअसन्निसन्निपंचिदि ।
अपजत्ता पज्जत्ता, कमेण चउदस जिअठाणा ॥ ५ ॥
वायरअसन्निविगले, अपज्ज पढमविअ सन्निअपजत्ते ।
अजयजु असन्निपजे, सव्वगुणा मिच्छ सेसेसु ॥ ६ ॥
अपजत्तछक्कि कम्मुरलमीसजोगा अपज्जसन्नीसु ।
ते सविउव्वमीस एसु, तणुपज्जेसु उरलमन्ने ॥७॥

सर्वे सन्निपज्जते, उरलं सुहुमे सभासु तं चउसु ।
 वायरि सविउद्विदुगं, पजसन्निसु वार उवओगा ॥ ८ ॥
 पजचउरिदिअसन्निसु, दुदंस दुअनाण-

दससु चरकुविणा ।

सन्निअपज्जे मणनाणचक्खुकेवलदुगविहूणा ॥ ९ ॥

सन्निदुगि उल्लेस अपज्जवायरे पढम चउ ति सेसेसु ।

सत्तठ धंधुदीरण, संतुदया अठ तेरससु ॥ १० ॥

सत्तठठेगवंधा, संतुदया सत्त अठ चत्तारि ।

सत्त ठ छ पंच दुगं, उदीरण सन्निपज्जते ॥ ११ ॥

गइ इंदिए य काए, जोए वेए कसायनाणेसु ॥

संजमदंसणलेसा, भवसम्मे सन्निआहारे ॥ १२ ॥

सुरनरतिरिनिरयगई, इगविअतिअचउपणिदि छक्काया

भूजलजलणाऽनिलवणतसा य मणवयणतणुजोगा ॥

वेअ नरित्थिनपुंसा, कसाय कोहमयमायलोभत्ति ।

मइसुयवहिमणकेवलविभंगमइसुअनाणसागारा ॥ १४ ॥


सामाइअ ठेअ परिहारसुहुम अहखाय देस जय अजया


चक्खु अचक्खु अही,केवलदंसण अणागारा ॥ १५ ॥


अणचउवीसाइ विणा, जिणपणजुअ सम्मिजोगिणो सायं
 विणु तिरिनराउ कम्मे, वि एवमाहारदुगि ओहो ॥१६॥
 सुरओहो वेउव्वे, तिरिअनराउ रहिअो अ तम्मिस्से ।
 वेअतिगाइमविअतिअकसाय नव दु चउं पंचगुणा ॥१७॥
 संजलणतिगे नव दस, लोहे चउ अजइ दुति अनाणतिगे
 वारस अचक्खुचक्खुसु, पढमा अहखाय चरमचऊ ॥१८॥
 मणनाणि सग जयाई, समइअठेअ चउः दुन्नि परिहारे ।
 केवलदुगि दो चरमाजयाइ नव मइसुओहिदुगे ॥१९॥
 अड उवसमि चउ वेअगि, खइए इकार मिच्छतिगि देसे
 सुहुमि सछाणं तेरस, आहारगि निअनिअगुणोहो ॥२०॥
 परमुवसमि वडंता, आउ न वंधंति तेण अजयगुणे ।
 देवमणुआउहीणो, देसाइसु पुण सुराउविणा ॥२१॥
 ओहे अछारसयं, आहारदुगूणमाइलेसतिगे ।
 तं तित्थोणं मिच्छे, साणाइसु सव्वहिं ओहो ॥२२॥
 तेऊ नरयनवूणा, उज्जोअचउ नरयवार विणु सुक्का ।
 विणु नरयवार पम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे ॥२३॥
 सव्वगुणभव्वसन्निसु, ओहु अभव्वा असन्नि मिच्छसम


सासणि असन्नि सन्निव्व, कम्मणभंगो अणाहारे ॥२४॥
 तिसु दुसु सुक्काइगुणा, चउ सग तेरत्ति वंधसामित्तं ।
 देविंदसूरिलिहिअं नेयं कम्मत्थयं सोउं ॥२५॥


— — — — —
































— — — — —

॥ इति बंधस्वामित्वाख्यस्तृतीयः कर्मग्रन्थः ॥

॥ अथ षडशीतिकाख्यश्चतुर्थः
 कर्मग्रन्थः ॥

नमिअ जिणं जिअमग्गणगुणठाणुवओगजोगलेसाओ ।
 वंद्धप्पवहूभावे, संखिजाई किमवि बुच्छं ॥ १ ॥
 [नमिअ जिणं वत्तव्वा, चउदसजिणठाणपसु गुणठाणा ।

जोगुवओगो लेसा, बंधोदओदीरणा सत्ता (पाठांतरं)
चउदस जिअठाणेसु, चउदस गुणठाणगाणि जोगा य ।
उवओगलेसबंधोदओदीरणासंत अट्टपण ॥ २ ॥
तह मूल चउदमग्गणठाणेसु वासठि उत्तरेसु च ।
जिअगुणजोगुवओगालेसप्पवहुं च ठाणा ॥ पाठा०
चउदस मग्गणठाणेसु मूलपणसु विसठि इअरेसु ।
जिअगुणजोगुवओगालेसप्पवहुत्त छ ट्ठाणा ॥३॥
चउदस गुणेसु जिअजोगुवओगलेसा य बंधहेऊ य ।
बंधाइअ चउ अप्पावहुं च तो भाव संखाई ॥ पाठा०
चउदस गुणठाणेसु, जिअजोगुवओगलेस्सबंधा य ।
बंधुदयुदीरणाओ, संतप्पवहुं च दसठाणा ॥ ४ ॥
इह सुहुमवायरेगिंदिवित्तिचउअसन्निसन्निपंचिदि ।
अपजत्ता पजत्ता, कमेण चउदस जिअठाणा ॥ ५ ॥
वायरअसन्निविगले, अपज्ज पढमविअ सन्निअपजत्ते ।
अजयजु असन्निपजे, सव्वगुणा मिच्छ सेसेसु ॥ ६ ॥
अपजत्तछक्कि कम्मुरलमीसजोगा अपज्जसत्रीसु ।
ते सविउव्वमीस एसु, तणुपज्जेसु उरलमन्ने ॥७॥

सर्वे सन्निपजते, उरलं सुहुमे सभासु तं चउसु ।
 वायरि सविउविदुगं, पजसन्निसु वार उवओगा ॥ ८ ॥
 पजचउरिदिअसन्निसु, दुदंस दुअनाण-

दससु चरकुविणा ।

सन्निअपज्जे मणनाणचक्खुकेवलदुगविहूणा ॥ ९ ॥

सन्निदुगि उल्लेस अपज्जवायरे पढम चउ ति सेसेसु ।

सत्तठ धंधुदीरण, संतुदया अठ तेरससु ॥ १० ॥

सत्तठठेगवंधा, संतुदया सत्त अठ चत्तारि ।

सत्त ठ छ पंच दुगं, उदीरण सन्निपज्जते ॥ ११ ॥

गइ इंदिए य काए, जोए वेए कसायनाणेसु ॥

संजमदंसणलेसा, भवसम्मै सन्निआहारे ॥ १२ ॥

सुरनरतिरिनिरयगई, इगविअतिअचउपणिदि छक्काया

भूजलजलणाऽनिलवणतसा य मणवयणतणुजोगा ॥

वेअ नरित्थिनपुंसा, कसाय कोहमयमायलोभत्ति ।

मइसुयवहिमणकेवलविभंगमइसुअनाणसागारा ॥ १४ ॥

सामाइअ ठेअ परिहारसुहुम अहखाय देस जय अजया

चक्खु अचक्खु ओही, केवलदंसण अणागारा ॥ १५ ॥

किण्हा नीलां काऊ, तेऊ पम्हा य सुक्क भविअरा ।
 वेअग खइयुवसम मिच्छ मीस सासाण सन्निअरे ॥१६॥
 आहारेअर भेआ, सुरनिरयविभंगमइसुअोहिदुगे ।
 सम्मत्ततिगे पम्हासुक्कासन्नीसु सन्निदुगं ॥ १७ ॥
 तमसन्निअपज्जजुअं, नरे सवायरअपज्ज तेउए ।
 थावर इगिंदि पढमा, चउ वार असन्नि दु दु विगळे १८
 दस चरम तसे अजयाहारगतिरित्णुकसायदुअनाणे ।
 पढमतिलेसाभविअरअचक्खुनपुमिच्छि सव्वेवि ॥१९॥
 पजसन्नी केवलदुगे, संजममणनाणदेसमणमीसे ।
 पण चरम पज्ज वयणे, तिय छ व पज्जिअर चरकुंमि २०
 थीनरपणिंदि चरभा, चउ अणहारे दु सन्नि छ अपज्जा
 ते सुहुमअपज्ज विणा, सासणि इत्तो गुणे वुच्छं ॥२१॥
 पण तिरि चउ सुरनरए, नरसन्निपणिंदि भव्वतसि सव्वे
 इगविगलभूदगवणे, दु दु एगं गइतसअभव्वे ॥२२॥
 वेअं तिकसाय नव दस, लोभे चउ अजय दु ति
 अनाणतिगे ।

वारस अचरकुचरकुसु, पढमा अहखाइ चरम चऊ २३

मणनाणि सग जयाई, समइअठेअ चउ दुन्नि परिहारे.
 कवलदुगि दो चरमाजयाइ नव मइसुओहिदुगे ॥२४॥

अड उवसमि चउ वेअगि, खइए इकार मिच्छतिगि देसे
 गृहुमे य सछाणं तेरस जोगे आहारसुक्काए ॥ २५ ॥

असन्नि सु पढमदुगं, पढमतिसेसासु छच्च दुसु सत्त.।

पढमतिमदुगअजया, अणहारे मग्गणासु गुणा ॥२६॥

सच्चेअर मीस असच्चमोस मण वइ विउविआहारा ।

उरलं मीसा कम्मण, इअ जोगा कम्ममणहारे ॥२७॥

नरगइ पणिदि तस तणु, अचक्कु नर नपु कसाय

सम्मदुगे ।

सन्नि छलेसाहारग, भव मइ सुअ ओहिदुगि सव्वे २८

तिरि इत्थि अजघ सासण,अनाण उवसम अभवमिच्छेसु

तेराहारदुगूणा, ते उरलदुगूण सुरनरण ॥ २९ ॥

कम्मुरलदुगं थावरि, ते सविउविदुग पंच इगि पवणे.।

छ असन्नि चरिमवइजुअ,ते विउविदुगूण चउ विगले ३०

कम्मुरलमीस विणु मण,वइ समइअ ठेअ चक्खु मणनाणे

उरलदुगकम्म पढमंतिमणवइ केवलदुगंमि ॥ ३१ ॥

मणवइउरला परिहारि सुहुमि नव ते उ मीसि सविउव्वा
 देसे सविउव्विदुगां, सकम्मुरलमीस अहखाए ॥३२॥
 तिअनाण नाण पणचउ, दंसण वार जिअलकखणुवञ्चोगा
 विणु मणनाण दुकेवल, नव सुरतिरिनिरयअजएसु ॥३३॥
 तस जोअ षेअ सुक्काहार नर पणिदि सन्नि भवि सव्वे
 नयणेअर पण लेसा, कसाय दस केवलदुगूणा ॥३४॥
 चउरिं.दे असंनि दुअनाणदंसण इग वि ति थावरि
 अचख्कु ।

ति अनाण दंसणदुगं, अनाणतिगि अभव्वमिच्छदुगे ३५
 केवलदुगे निअदुगं, नव ति अनाण विणु खइअअहखाए
 दंसणनाणतिगं देसि मीसि अन्नाणमिसं तं ॥ ३६ ॥
 मणनाणचक्खुवज्जा, अणहारि तिन्निदंसण चउनाणा
 चउनाणसंजमोवसमवेअगे ओहिदंसे अ ॥ ३७ ॥
 दो तेर तेर वारस, मणे कमा अठ दु चउ चउ वयणे
 चउ दु पण तिन्नि काए, जिअगुणजोगोवओगन्ने ३८
 छसु लेसासु सठाणं, एगिंदि असन्निभूदगवणेसु ।
 पढमा चउरो तिन्नि उ, नारयविगलग्गिपवणेसु ॥३९॥

अहखायसुहुमकेवलदुगि सुक्का छावि सेसठाणेसु ।
 नरनिरयदेवतिरिआ, थोवा दु असंखणंतगुणा ॥४०॥
 पण चउ ति दु एगिंदी, थोवा तिन्नि अहिया अणंतगुणा ।
 तस थोव असंखग्गी, भूजलानिलअहिअ वणणंत ॥४१॥
 मणवयणकायजोगी, थोवा असंखगुणा अणंतगुणा ।
 पुरिसा थोवा इत्थि, संखगुणाणंतगुण कीवा ॥४२॥
 माणी कोही माई, लोभी अहिअ मणनाणिणो थोवा ।
 ओहि असंखा मइसुअ, अहिअ सम असंख विभंग ॥४३॥
 केवलीणाणंतगुणा, मइसुअअन्नाणिणंतगुण तुल्ला ।
 सुहुमा थोवा परिहार संख अहखाय संखगुणा ॥४४॥
 वेअ समईअ संखा, देस असंखगुणाणंतगुण अजया ।
 थोव असंख दुणंता, ओहि नयण केवल अचक्खु ॥४५॥
 पच्छाणुपुवि देसा, थोवा दोसंखणंत दो अहिया ।
 अभविअर थोवणंता, सासण थोवोवसम संखा ॥४६॥
 मीसा संखा वेअग, असंखगुण खइअ मिच्छ दु अणंता ।
 सन्निअर थोवणंताणहार थोवेअर असंखा ॥४७॥
 सव्वजिअट्टाण मिच्छे सग सासणि पणअपज्जसन्निदुगं

सम्मे सन्नी दुविहो, सेसेसु सन्निपञ्जत्तो ॥ ४८ ॥
 मिच्छदुगि अजइ जोगाहारदुग्गणा अपुवपणगे उ ।
 मणवइउरलं सविउव्व, मीसि सविउव्वदुग देसे ॥४९॥
 साहारदुग पमत्ते, ते विउवाहारमास विणु इअरे ।
 कम्मुरलदुगंताइममणवपण सजोगि न अजोगि ॥५०॥
 तिअनाण दुदंसाइमदुगे अजइ देसि नाणदंसतिगं ।
 ते मीसि मीसा समणा, जयाइ केवलदुगंतदुगे ॥५१॥
 सासणभावे नाणं विउव्वगाहारगे उरलमिस्सं ।
 नेगिंदिसु सासाणो, नेहाहिगयं सुअमयंपि ॥५२॥
 छसु सवा तेउतिगं, इगि छसु सुक्का अजोगि अल्लेसा
 वंधस्स मिच्छ अविरइ, कसाय जोग ति चउ हेऊ ॥५३॥

पणपन्नं पन्ना तिअच्छहिअचत्त गुणचत्त छचउदुगवीसा ।
 सोलस दस नव नव सत्त हेउणो न उ अजोगिमि ५७॥
 पणपन्न मिच्छि हारगदुगूण सासाणि पन्न मिच्छ विणा
 मीसदुगकम्मअण विणु.तिचत्त मीसे अह छचत्ता ॥५८
 सदुमीसकम्म अजए अविरइकम्मुरलमीसविकसाए ।
 मुत्तु गुणचत्त देसे, छवीस साहारदु पमत्ते ॥५९॥
 अविरइ इगार तिकसायवज्जं अपमत्ति मीसदुगरहिआ
 चउवीस अणुवे पुण, दुवीस अविउविआहारा ॥६०॥
 अछहास सोल वायरि, सुहुमे दस वेअसंजलणति विणा
 खीणुवसंति अलोभा,सजोगि पुवुत्त सग जोगा ॥६१॥
 अपमत्तता सत्तठ मीसअणुववायरा सत्त ।
 वंधइ छस्सुहुमो एगमुवरिमाऽबंधगा जोगी ॥६२॥
 आसुहुमं संतुदए, अठ वि मोह विणु सत्त खीणमि ।
 चउ चरिमिदुगे अठ उ, संते उवसंति सत्तुदए ॥६३॥
 उइरंति पमत्तता, सग ठ मीस ठ वेअआउ विणा ।
 छग अपमत्ताइ तओ, छ पंच सुहुमो पणुवसंतो ॥६४॥
 पण दो खीण दु जोगी, एदीरगजोगि थोव उवसंता

संखगुण खीण सुहुमानिअट्टिअपुव्व सम अहिआ ॥६५
 जोगि अपमत्त इयरे, संखगुणा देससासणामीसा ।
 अविरेइ अजोगिमिच्छा, असंखचउरो दुवे णंता ॥६६॥
 उवसमखयमीसोदयपरिणामा दु नव ञार इगवीसा ।
 तिअभेअ सन्निवाइअ, सम्मं चरणं पढमभावे ॥६७॥
 वीए केवलजुअलं, सम्मं दाणाइलद्धि पण चरणं ।
 तइए सेसुवओगा, पणलद्धी सम्मविरइदुगं ॥६८॥
 अन्नाणमसिद्धत्तासंजमलेसाकसायगइवेअ ।
 मिच्छं तुरिए भव्वाभवत्तजिअत्तपरिणामे । ६९ ।
 चउ चउगईसु मीसगपरिणामुदएहिं चउ सखइएहिं ।
 उवसमजुएहिं वा चउ, केवलि परिणामुदयखइए ॥७०॥
 खयपरिणामे सिद्धा, नराण पण जोगुवत्तमसेढीए ।
 इअ पनर सन्निवाइअभेआ वीसं असंभविणो ॥७१॥
 मोहे व समो मीसो, चउघाइसु अठकम्मसु य सेसा
 धम्माइ पारिणामिअभावे खंधा उदइए वि ॥७२॥
 सम्माइचउसु तिग चउ, भावा चउपणुवसामगुवसंते ।
 चउ खीणापुव्वे तिन्नि सेसगुणठाणगेग जिए ॥७३॥

संखिज्जेगमसंखं, परित्तजुत्तनिअपयजुअं।तिविहं ।
 एवमणंतं पि तिहा, जहन्नमज्जुक्कसा सव्वे ॥७४॥
 लहु संखिज्जं दुच्चिअ,अओ परं मज्झिमं तु जा गुरुअ
 जंबूद्वीवपमाणय, चउपल्लपरुवणाइ इमं ॥७५॥
 पट्ठाण वट्ठिअ सलागपडिसलागमहासलागक्खा ।
 जोयण सहसोगाढा, सवेइअंता ससिहभरिआ ॥७६॥
 ता दीवुदहिसु इक्किक्कसरिसवं खिअनिठिए पढमे
 पढमं व तदंतं चिअ, पुण भरिए तम्मि तह खीणे७७
 खिअपड सलागपल्लेगुसरिसवो इय सलागखवणेणं ।
 पुण्णो वीओ अ तओ, पुवं पि व तम्मि उद्धरिए७८
 खीणे सलाग तइए, एवं पढमेहिं वीअयं भरसु ।
 तेहिं तइअं तेहि अ, तुरिअं जा किर फुडां चउरो७९॥
 पढमतिपल्लुद्धरिआ, दीवुदही पल्लचउसरिसवा य ।
 सवो वि एस रासी, रुवूणो परमसंखिज्जं ॥ ८० ॥
 रुवजुअं तु परित्तासंखं लहु अस्स रासि अढभासे ॥
 जुत्तासंखिज्जं लहु, आवलिआसमयपरिमाणं ॥८१॥
 वितिचउपंचमगुणणे, कमा सगासंग्रपढमचउसत्ता ।

णंता ते रूवजुञ्चा, मज्जा रूवूण गुरु पच्छा ॥ ८२ ॥
 इय.सुत्तुत्तं अन्ने, वग्गिञ्चमिक्कसि चउत्थयमसंखं ।
 होइ असंखासंखं, लहु रूवजुअं तु तं मज्जं ॥८३॥
 रूवूणमाइमं गुरु, तिवग्गिउं तत्थिमे दस खेवे ।
 लोगांगासपएसा, धम्माधम्मेगजिअदेसा ॥८४॥
 ठिइबंधज्झवसाया, अणुभागा जोग ठेश्च पलिभागा ।
 दुण्ह य समाण समया, पत्तेअनिगोअए खिवसु ।
 पुणरवि तंमि तिवग्गिय, परित्तणंत लहु तस्स रासीणं ।
 अञ्भासे लहु जुत्ताणंतं अभवजिअमाणं ॥८६॥
 तवग्गे पुण जायइ, णंताणंत लहु तं च तिक्खुत्तो ।
 वग्गसु तहवि न तं होइ णंतखेवे खिवसु छ इमे ॥८७॥
 सिद्धा निगोअजीवा, वणस्सइ काल पुग्गला चेव ।
 सवमलोगनहं पुण, तिवग्गिउं केवलदुगंमि ॥८८॥
 खित्ते णंताणंतं, हवेइ जिष्ठं तु ववहरइमज्जं ।
 इय सुहुमत्थविचारो, लिहिञ्चो देविंदसूरीहिं ॥८९॥
 ॥ इति पडशीतिकाख्यश्चतुर्थकर्मग्रन्थः ॥

॥ ॐ परमगुरुभ्यो नमः ॥

॥ अथ शतकनामा पञ्चमः

कर्मग्रन्थः ॥

नमिष्य जिणं ध्रुवबंधोदयसत्ताघाड्पुण्णपरिअत्ता ।
सेअर चउहविवागा, बुच्छं बंधविह सामी य ॥ १ ॥
वण्णचउत्तेअकम्मोगुरुलहुनिमिणोवघायभयकुच्छा ।
मिच्छकसायावरणा, विग्घ ध्रुवबंधिसगचत्ता ॥२॥
तणुवंगागिइसंधयणजाइगइखगइपुन्विजिणुसासं ।
उज्जोयायवपरघातसवीसागोअवेयणियं ॥ ३ ॥
हासाइजुथलदुगवेअआउ तेवुत्तरी अधुवबंधो ।
भंगा अणाइसाइ, अणंतसंतुत्तरा चउरो ॥ ४ ॥
पढमविआ ध्रुवउदइसु, ध्रुवबंधिसु तइअवज्जभंगतिगं ।
मिच्छम्मि तिन्निभंगा, दुहावि अधुवा तुरिअभंगा ॥५॥
निमिण थिरअथिर अगुरुअ, सुहअसुहं तेह कम्म चउवत्ता
नाणंतराय दंसण, मिच्छं ध्रुवउदय सगवीसा ॥ ६ ॥

धिरसुभिअर विणु अधुवबंधी मिच्छ विणु मोहधुवबंधी ।
 निहोवघायमीसं, सम्मं पणनवइ अधुवुदया ॥७॥
 तसवण्णवीससगतेअकम्म धुवबंधि सेस वेयतिगं ।
 आगिइतिग वेअणिअं, दुजुअल सग उरल सासचऊढ
 खगइतिरिदुग नीअं, धुवसंता सम्ममीसमणुअदुगं ।
 विउव्विक्कारजिणाळ, हारसगुच्चा अधुवसंता ॥ ९ ॥
 पढमतिगुणेषु मिच्छं, निअमा अजयाइअठगे भज्जं ।
 सासाणे खलु सम्मं, संतं मिच्छाइ दसगे वा ॥१०॥
 सासणमीसेसु धुवं, मीसं मिच्छाइनवसु भयणाए ।
 आइदुगे अण नियमा, भइआ मीसाइ नवगम्मि ॥११
 आहारगसत्तगं वा, सब्वगुणे वितिगुणे विणा तित्थं ।
 नोभयसते मिच्छो, अंतमुहुत्तं भवे तित्थे ॥ १२ ॥
 केवलजुअलावरणा, पण निहा वारसाइमकसाया ।
 मिच्छंति सब्वघाई, चउनाणतिदंसणावरणा ॥१३॥
 संजलण नोकसाया, विग्घं इअ देसघाइय अघाई ॥
 पत्तेअतणुछाऊ, तसवीसा गोअदुग वण्णा ॥ १४ ॥
 सुरनरतिगुच्च सायं, तसदस तणुवंग वइरचउरसं ।

परघासगतिरिआउ, वण्ण चउ पर्णिदि सुभखगइ ॥१५॥
 वायाल पुण्णपगई, अपढमसंठाणखगइसंघयणा ।
 तिरिदुग असाय नीओवघाय इग विगल निरयतिगं१६॥
 थावरदस वण्णचउक धाइपणयालसहिअ वासोई ॥
 पावपयडि ति दोसु वि, वण्णाइगहा सुहा असुहा ॥१७॥
 नामधुवबंधिनवंगं, दंसण पणनाण विग्ग परघायं ।
 भयकुच्छ मिच्छ सासं, जिणगुण तीसा अपरियत्ता ॥१८॥
 तण्णअठ वेअ दुजुअल, कसाय उज्झोअगोयदुगनिहा ।
 तसवीसाउ परित्ता, - खित्तविवागाऽणुपुवीओ ॥१९॥
 घणघाइ दुगोअ जिणा, तसिअरतिगसुभगदुभगचउसासं
 जाइतिग जिअविवागा, आऊ चउरो भवविवागा ॥२०॥
 नामधुवोदय चउतणुवघायसाहारणियर जोअतिगं ।
 पुग्गलविवागि अंधो, पयइठिइरसपएसत्ति ॥२१॥
 मूलपयडीण अडसत्तरेगबंधेसु तिन्रि भूगारा ।
 अप्पत्तरा तिअ चउरो, अवठिआ न हु अवत्तव्वो ॥२२॥
 एगादहिगे भूओ, एगाइ उणगम्मि अप्पत्तरो ।
 तम्मत्तोअवठियओ, पढमे समये अवत्तव्वो ॥२३॥

नव छ चउदंसे दुदु, ति दु मोहे दु इगवीस सत्तरस ।
 तेरस नव पण चउ ति दु, इक्को नव अठ दस दुन्नि ॥२४
 तिपणछअठनवहिया, वीसा तीसेगतीस इग नामे ।
 छस्सगअठति वंधा, सेसेसु य ठाणमिक्किं ॥२५॥
 वीसयरकोडिकोडी, नामे गोए य सत्तरी मोहे ।
 तीसयर चउसु उदही, निरयसुराउंमि तित्तीसा ॥२६॥
 मुत्तुं अकसाय ठिइं, वार मुहुत्ता जहन्न वेयणिए ।
 अट्ट ठ नामगोए सु सेसएसुं मुहुत्ततो ॥ २७ ॥
 विग्घावरणअसाए, तीसं अठार सुहुमविगलतिगे ।
 पढमागिइसंघयणे, इस दुसुवरिमेसु दुगवुद्धी ॥२८॥
 चालीस कसाएसु, मिउलहुनिद्धणहसुरहिसियमहुरे ।
 दस दोसहसमहिया, ते हालिइं विलाईणं ॥२९॥
 दस सुहविहगइउच्चे, सुरदुग थिरछक्क पुरिसरइहासे ।
 मिच्छे सत्तरि मणुदुग, इच्छीसाएसु पण्णरस ॥३०॥
 भयकुच्छअरइसोए, विउवित्तिरिउरलनिरयदुगनीए ।
 तेअपण अधिरछक्के, तसचउ थावर इग पणिदिं ॥३१॥
 नपु कुखगइ सासचउ, गुरुकक्खडरुक्खसीयदुग्गंधे ।

वीसं कोडांकोडी, एवइआवाह वाससया ॥३२॥
 गुरु कोडिकोडि अंतो, तित्थाहाराण भिन्नमुहु वाहा ।
 लहुठिइ संखगुण्णा, नरतिरियाणाउ पल्लतिगं ॥३३॥
 इगविगल पुव्वकोडिं, पलियासंखंस आउचउ अमणा।
 निरुवकमाण छमासा, अवाह सेसाण भवतंसो ॥३४॥
 लहुठिइवंधो संजलणलोहपणविग्घनाणदंसेसु ।
 भिन्नमुहुत्तं ते अट्टु, जसुच्चे वारस य साए ॥ ३५ ॥
 दो इगमासो पखखो, संजलणतिगे पुमट्टवरिसाणि ।
 सेसाणुक्कोसाओ, मिच्छत्तठिईइ जं लद्धं ॥ ३६ ॥
 अयमुक्कोसो गिंदिसु, पलियाऽसंखंसहीणलहुवंधो ।
 कमसो पणवीसाए, पन्ना सय सहस्स संगुणिओ ३७॥
 विगलि असन्निसु जिट्ठो, कणिट्ठओ पल्लसंखभागूणो ।
 सुरनरयाउ समादससहस्स सेसाउ खुड्ड भवं ॥३८॥
 सद्याण वि लहुवंधे, भिन्नमुहु अवाह आउजिट्ठे वि ।
 केइ सुराउसमं जिणमंतमुहू विति आहारं ॥३९॥
 सत्तरस समहिआ किर,इगाणुपाणुमि हुंति खुड्डभवा ।
 सगतीससयतिहुत्तर, पाणू पुण इगमुहुत्तंमि ॥ ४० ॥

पणसठिसहस्सपणसय, छत्तीसा इगमुहुत्त खुड्ढभवा ।
 आवलियाणं दोसय, ठप्पन्ना एग खुड्ढभवे ॥४१॥
 अविरयसम्मो तित्थं, आहारदुगामराउ य पमत्तो ।
 मिच्छद्विष्ठी वधइ, जिट्ठिइं सेसपयडीणं ॥४२॥
 विगलसुहुमाउगतिगं, तिरिमणुया सुरविउविनिरयदुगं ।
 एगिंदिधावरायव, आईसाणा सुरूक्कोसं ॥४३॥
 तिरिउरलदुगुज्जोअं, छिवट्टु सुरनिरय सेस चउगइआ ।
 आहारजिणमपुवो, नियट्ठि संजलणपुरिसल्लहं ॥४४॥
 सायजसुच्चावरणाविग्घं सुहुमो विउविच्छ अस्सन्नि ।
 सन्तीवि आउ वायरपज्जेगिंदी उ सेसाणं ॥४५॥
 उक्कोसजहण्णीयर, भंगा साई अणाइ धुव अधुवा ।
 चउहा सग अजहन्नो, सेसतिगे आउचउसु दुहा ॥४६॥
 चळभेओ अजहन्नो, संजलणावरणनवगविग्घाणं ।
 सेसतिगि साइअधुवो, तह चउहा सेस पयडीणं ॥४७॥
 साणाइअपुव्वंते, अयरंतो कोडिकोडिओ नहिगो ।
 वंधो नहु हीणो न य, मिच्छे भद्वियरसन्निमि ॥४८॥
 जइ लहुवंधो वायर, पज्ज असंखगुण सुहुमपज्जहिगो ।

एसिं अप्पजाण लहू, सुहुमेअर अपज्जपज्जगुरु ॥४९॥
 लहु विअ पज्जअपज्जे, अपज्जेयरविअ गुरुहिगो एवं ।
 ति चउ असन्निसु नवरं, संखगुणो विअअमणपज्जत्ते ५० ।
 तो जइ जिष्ठो वंधो, संखगुणो देसविरय हस्सिअरो ।
 सम्मचउ सन्नचउरो, ठिइवंधाणुकमसंखगुणा ॥५१॥
 सव्वाण वि जिष्ठठिइ, असुहा जं साइसंकिलेसेणं ।
 इअरा विसोहिओ पुण, मुत्तं नरअमरतिरिआउं ॥५२॥
 सुहुमनिगोआइखणप्पजोग वायरयविगलअमणमणा ।
 अपज्ज लहु पढमदु गुरु, पजहस्सिअरो असंखगुणो ॥५३॥
 असमत्ततमुक्कोसो, पज्जजहन्नियरु एव ठिइठाणा ।
 अपजेयरसंखगुणा, परमपज्जविए असंखगुणा ॥५४॥
 पइखणमसंखगुणविरिय अपज्ज पइठिइमसंखलोगसमा ।
 अज्झवसाया अहिया, सत्तसु आउसु असंखगुणा ॥५५॥
 तिरिनिरयतिजोयाणं, नरभवजुअ सचउपछ तैसठं ।
 थावरचउइगविगलायवेसु, पणसीइसयमयरा ॥५६॥
 अयपढमसंघयणागिइखगइअणमिच्छदुभगथीणतिगं ।
 निअ नपुइत्थि दुतीसं, पणिदिसु अवंधठिइपरमा ॥५७॥

विजयाइसु गेविज्जे, तमाइ वहिसय दुतीस तेसछं ।
 पणसीइ सययबंधो, पल्लतिंगं सुरविउव्विदुगे ॥५८॥
 समयादसंखकालं, तिरिदुग नीएसु आउ अंतमुहु ।
 उरलि असंखपरट्टा, सायठिई, पुव्वकोडुणा ॥५९॥
 जलहिसयं पणसीयं, परघुस्तासे पणिंदित्तसचउगे ।
 वत्तीसं सुहविहगइपुमसुभगतिगुच्चचउरंसे ॥६०॥
 असुहखगइजाइआगिइसंघयणाहारनिरयुजोयदुगं ।
 धिरसुभजसथावरदसनपुइत्थीदुजुअलमसायं ॥६१॥
 समयादंतमुहुत्तं, मणुदुगजिणवइरउरलुवंगेसु ।
 तिच्चीसयरा परमो, अंतमुहु लहु वि आउजिणे ॥६२॥
 तिवो असुहसुहाणं, संकेसविसोहिओ विवज्जयत्थो ।
 मंदरसो गिरिमहिरयजलरेहासरिसकसाएहिं ॥६३॥
 चउठाणाई असुहा सुहन्नहा विग्घदेस(घाइ)आवरणा ।
 पुमसंजलणिगदुत्तिचउष्ठाणरसा सेस दुगमाई ॥६४॥
 निवुच्चुरसो सहजो, दुत्तिचउभागकट्ठिइक्कभागंतो ।
 इगठाणाई असुहो, असुहाण सुहो सुहाणं तु ॥६५॥
 तिवमिगथावरायव, सुरमिच्छा विगलसुहुमनिरय तिगं ।

तिरिमणुआउ तिरिनरा, तिरिदुगठेवठ सुरनिरयां ॥६६॥
 विउञ्चिसुराहारगदुगं, सुखगइवन्नचउतेयजिणसायं ।
 समचउपरघातसदस, पणिंदिसासुच्च खवगाउ ॥६७॥
 तमतमगा उज्जोयं, सम्मसुरा मणुपउरलदुगवइरं ।
 अपमत्तो अमराउं, चउगइ मिच्छा उ सेसाणं ॥६८॥
 धीणतिगं अणमिच्छं, मंदरसं संजमुम्मुहो मिच्छो ।
 वियतियकसाय अवरिय, देस पमत्तो अरइसोए ॥६९॥
 अपमाइ हारगदुगं, दुनिइअसुवन्नहासरइकुच्छा ।
 भयमुवघायमपुब्बो, अनियट्टी पुरिससंजलणे ॥७०॥
 विग्धावरणे सुहुमो मणुतिरिआ सहमविगलतिगआउ ।
 वेउविच्छकममरा, निरया उज्जोयउरलदुगं ॥ ७१ ॥
 तिरिदुगनियं तमतमा, जिणमवरिय निरयविणिगथावरयं
 आसुहमायव सम्मोव सायधिरसुहजसासियरा ॥७२॥
 तसवन्नतेअचउमणुखगइदुगपणिंदिसासपरघुच्च ।
 संघयणागिइ नपुथ्थीसुभगियरति मिच्छ चउगइआ७३
 चउतेअवन्न वेअणिअनामणुक्कोस सेसधुवबंधी ।
 घाईणं अजहन्नो गोए दुविहो इमो चउहा ॥ ७४ ॥

सेसंमि दुहा इगदुगणुगाइजाअभवणंतगुणिआणू ।
 खंधा उरलोचियवग्गणा उ तह अगहणंतरिया ॥७५॥
 एमेव विउवाहारतेअभासाणुपाणमणकम्मे ।
 सुद्धमा कमावगाहोः ऊणूणंगुलअसंखसो ॥ ७६ ॥
 इक्किहिया सिद्धाणंतसा अंतरेसु अगहणा ।
 सबत्थ जहन्नुचिया, नियणंतसाहिआ जिष्ठा ॥ ७७ ॥
 अंतिमचउफास दुगंधपंचवन्नरसकम्मखंधदलं ।
 सबजियणंतगुणरसमणुजुत्तमणंतयपएसं ॥७८॥
 एगपएसोगाढं, निअसवपएसओ गहेइ जिओ ।
 थोवो आउ तदंसो, नामे गाए समो अहिओ ॥७९॥
 विग्घावरणे मोहे, सबोवरि वेअणीय जेणप्पे ।
 तस्स फुडत्तं न हवइ, ठिईविसेसेण सेसाणं ॥ ८० ॥
 निअजाइलद्धदलिआणंतसो होइ सबवघाईणं ।
 वइअंतीण विभज्जइ, सेसं सेसाण पइसमयं ॥८१॥
 सम्मदरसव्वविरई अणविसंजोअदंसखवगे अ ।
 मोहसमसंतखवगे, खीणसजोगीअर गुणसेढी ॥८२॥
 गुणसेढी दलरयणाणुसमयमुदयादसंखगुणणाए ।

एअगुणा पुण कमसो, असंखगुण निज्जरा जीवा ॥
 पलिआसंखसमुहु, सासणइअरगुण अंतरं हस्सं ।
 गुरु मिच्छि वे छसणी, इयरगुणे पुग्गलच्छंतो ॥८४॥
 उद्धारअद्धखित्तं, पलिय तिहा समयवाससय समए ।
 केसवहारो दीवोदहिआउतसाइपरिमाणं ॥८५॥
 दब्बे खित्ते काले, भावे चउह दुह वायरो सुहुमो ।
 होइ अणंतुस्सप्पिणिपरिमाणो पुग्गलपरट्ठो ॥८६॥
 उरलाइसत्तगेणं, एगजिओ मुअइ फुसिय सब्वअणू ।
 जत्तिअकालि स थूलो, दब्बे सुहुमो सगन्तयरा ॥८७॥
 लोगपएसोसप्पिणिसमया अणुभागवंधणाणाय ।
 जह तह कमरणेणं, पुष्ठा खित्ताइ थूलियरा ॥८८॥
 अप्पयरपयडिवंधी, उक्कडजोगी अ सन्नपज्जत्तो ।
 कुणइ पएसुक्कोसं, जहन्नयं तस्स वच्चासे ॥८९॥
 मिच्छि अजयचउ आऊ, वितिगुणविणु मोहि सत्त मिच्छाइ
 छण्हं सतरस सुहुमो, अजया देसा वित्तीकसाए ॥९०॥
 पण अनिअट्ठी सुखगइ, नराउसुरसुभगतिगविउविटुगं ।
 समचउरंसमसायं, वइरं मिच्छो व सम्मो वा ॥९१॥
 निदापयलादुजुअन्नभयकुच्छातित्थ संमगो सुजई ।

आहारदुगं सेसा, उक्कोसपएसगा मिच्छो ॥९२॥
 सुमुणी दुन्नि असन्नी, नरयतिगसुराउसुरविउव्विदुगं
 सम्मो जिणं जहन्नं, सुहुमनिगोआइखणि सेसा ॥९३॥
 दंसणछगभयकुच्छावितितुरिअकसायविग्घनाणाणं ।
 मूलछगे णुक्कोसो, चउह दुहा सेसि सव्वत्थ ॥९४॥
 सेढिअसंखिज्जंसे, जोगठाणाणि पघडिठिइभेआ ।
 ठिइवंधज्जवसायाणुभागठाणा असंखगुणा ॥ ९५ ॥
 तत्तो कम्मपएसो, अणंतगुणिया तथो रसच्छेया ।
 जोगा पयडिपएसं, ठिइअणुभागं कसायाओ ॥९६॥
 चउदसरज्जू लोगो, बुद्धिकओ होइ सत्तरज्जुघणो ।
 तदीहेगपएसो, सेढी पयो अ तव्वग्गो ॥ ९७ ॥
 अणदंसनपुंसित्थो, वेअल्लक्कं च पुरिसवेय्यं च ।
 दोदो एंगतरिण, सरिसे सरिसं उवसमेइ ॥ ९८ ॥
 अणमिच्छमीससम्मं, तिआउइगविगलथीणतिगुज्जोअ
 तिरिनरयथावरदुग, साहारायवअडनपुत्थी ॥९९॥
 छगपुंसंजलणा दोनिइविग्घवरणक्खण नाणी ।
 देविंदसूरीलिहिअं, सयगमिणं आयसरणठा ॥१००॥

॥ इति शतकनामा पञ्चमकर्मग्रन्थः ॥

॥ अहम ॥

॥ अथ प्राचीनाः कर्मग्रन्थाः
प्रारभ्यन्ते ॥

श्वेताम्बराग्रण्यश्रीमद्गर्गमहर्षिविरचितः

॥ कर्माविपाकाख्यः प्रथमः
कर्मग्रन्थः ॥

ववगयकम्मकलंकं, वीरं नमिउण कम्मगइकुसलं ।
वोच्छं कम्मत्रिवागं, गुरुवइद्वं समासेणं ॥ १ ॥
कीरइ जओ जिणं, मिच्छत्ताईहिं चउगइगणं ।
तेणिह भणणइ कम्मं, अणाइयं तं पवाहेणं ॥ २ ॥
तस्स उ चउरो भेया, पगईमाईउ हुंति नायव्वा ।
सोयगदिठंतेणं' पगईभेओ इमो होइ ॥ ३ ॥

मूलपयडीउ अट्ट उ, उत्तरपयडीण अठवन्नसयं ।
 तासिं सभावभेया, हुंति हु भेया इमे सुणह ॥ ४ ॥
 पढमं नाणावरणं, वीयं पुण दंसणस्स आवरणं ।
 तइयं च वेयणीयं, तथा चउत्थं च मोहणियं ॥ ५ ॥
 आउ नामं गोयं, अट्टमयं अंतराइयं होइ ।
 मूलपयडीउ एया, उत्तरपयडीउ कित्तेमि ॥ ६ ॥
 पंचविहनाणवरणं, नव भेया दंसणस्स दो वेण ।
 अठावीसं मोहे, चत्तारि य आउए हुंति ॥ ७ ॥
 नामे तिउत्तरसयं, दो गोए अंतराइए पंच ।
 एएसिं भेयाणं, होइ विवागो इमो सुणह ॥ ८ ॥
 पडपडिहारसिमज्जाहडिचित्तकुलालभंडगारिणं ।
 जह एएसिं भावा, कम्माणवि जाण तह चेव ॥ ९ ॥
 सरउग्गयससिनिम्मलयरस्स जीवस्स छायाणं जमिह ।
 नाणावरणं कम्मं, पडोवमं होइ एवं तु ॥ १० ॥
 जह निम्मलावि चक्खू, पडेण केणावि छाइया संती
 मंदं मंदतरागं, पिच्छइ सा निम्मला जइवि ॥ ११ ॥
 तह मइसुयणाणाणं, ओहीमणकेवलाण आवरणं ।

जीवं निम्मलरूवं, आवरेइ इमेहिं भेएहिं ॥ १२ ॥
 अट्टावीसइभेयं, मइनाणं इत्थ वणिणयं समए ।
 तं आवरेइ जं तं, मइआवरणं हवइ पढमं ॥ १३ ॥
 चोइसभेएसु गयं, सुयनाणं इत्थ वणिणयं समए ।
 तस्सावरणं जं पुण, सुयआवरणं हवइ वीयं ॥ १४ ॥
 अणुगामिवड्डमाणयभेयाइसु वणिणओ इहं ओही ।
 तं आवरेइ जं तं, अवहीआवरणयं जाण ॥ १५ ॥
 रिउमइविउलमईहिं, मणपज्जवनाणवण्णणं समए ।
 तं आवरियं जेणं, तं पि हु मणपज्जवावरणं ॥ १६ ॥
 लोयालोयगएसुं, भावेसुं जं गयं महाविमलं ।
 तं आवरियं जेणं, केवलआवरणयं तं पि ॥ १७ ॥
 एवं पंचविअप्पं, नाणावरणं समासओ भणियं ।
 वीयं दंसणवरणं, नत्रभेयं भण्णए सुणह ॥ १८ ॥
 दंसणसीले जीवे, दंसणघायं करेइ जं कम्मं ।
 तं पडिहारसमाणं, दंसणवरणं भवे वीयं ॥ १९ ॥
 जह रत्तो पडिहारो, अणभिप्ययस्स सो उ लोगस्स ।

जह राया तह जीवो, पडिहारसमं तु दंसणावरणं ।
 तेषिह विबंधणं, न पिच्छए सो घडाईयं ॥ २१ ॥
 निदापणगं तत्थ उ, चउभेया दंसणस्स आवरणे ।
 सुहपडिवोहा निदा, वीया पुण निदानिदा य ॥२२॥
 सा दुक्खवोहणीया, पयला पुण जा ठियस्स उच्चाइ।
 पयलापयल चउत्थी, तीए उदओ उ चंकमणे ॥२३॥
 थीणद्धी पुण दिणचिंतियस्स अत्थस्स साहणी पायं।
 सा संकिलिट्टकम्मस्स उदयओ होइ नियमेणं ॥२४॥
 निदापणगं एयं, चक्खू आवरइ चक्खुआवरणं ।
 सेसिंदियआवरणं, होइ अचक्खुस्स आवरणं ॥ २५ ॥
 सामन्नुवओगं जं, वरेइ तं ओहिदंसणावरणं ।
 केवलसामन्नं जं, वरेइ तं केवलस्स भवे ॥ २६ ॥
 भणियं दंसणवरणं, तइयं कम्मं तु होइ वेयणियं ।
 तं असिधारासरिसं, जह होइ तहो निसामेह ॥२७॥
 महुलित्तनिसियकरवालधारजीहाइ जारिसं लिहणं ।
 तारिसयं वेयणियं, सुहदुहउप्पायगं मुणह ॥ २८ ॥
 महुआसायणसरिसो, सायावेयस्स होइ हु विवागो ।

जं असिणा तहि छिज्जइ, सो उ विवागो असायस्स ॥
 एयं सुहदुक्खकरं, चउगइमावन्नयाण जीवाणं ।
 सामन्नेणं भणिमो, सुहदुक्खं दुसु दुसु गईसु ॥३०॥
 देवेसु य मणुएसु य, तत्थ विसिद्धेसु कामभोगेसु ।
 जं उवभुंजइ जीवो, सो उ विवागो उ सायस्स ॥३१
 नरएसु य तिरिएसु य, तेसु य दुक्खाइं णेरूवाइं ।
 जं उवभुंजइ जीवो, सो उ विवागो असायस्स ॥३२॥
 एयमिह वेयणीयं, चउत्थकम्मं तु होइ मोहणियं ।
 तं मज्जपाणसरिसं, जह होइ तहा निसामेह ॥३३॥
 जह मज्जपाणमूढो, लोए पुरिसो परवसो होइ ।
 तह मोहेणवि मूढो, जीवोवि परवसो होइ ॥ ३४ ॥
 मोहेइ मोहणीयं, तं पि समासेण भण्णए दुविहं ।
 दंसणमोहं पढमं, चरित्तमोह भवे वीयं ॥ ३५ ॥
 दंसणमोहं तिविहं, सम्मं मीसं च तह य मिच्छत्तं ।
 सुद्धं अद्धविसुद्धं, अविमुद्धं तं जहाकमसो ॥ ३६ ॥
 केवलनाणुवल्ले, जीवाइपयत्थ सइहे जेणं ।
 तं संमत्तं कम्मं, सिवसुहसंपत्तिपरिणामं ॥ ३७ ॥

रागं नवि जिणधम्ममे, नवि दोसं जाइ जस्स उदएणं ।
 सो मीसस्स विवागो, अंतमुहुत्तं भवे कालं ॥ ३८ ॥
 जिणधम्मंमि पओसं, वहइ य हियएण जस्स उदएणं
 तं मिच्छत्तं कम्मं, संकिट्ठो तस्स उ विवागो ॥ ३९ ॥
 जं पि य चरित्तमोहं, तं पि हु दुविहं समासओ होइ ।
 सोलस जाण कसाया, नव भेया नोकसायाणं ॥४०॥
 कोहो माणो माया, लोभो चउरोवि हुंति चउभेया ।
 अणअप्पच्चखाणा, पच्चखाणा य संजलणा ॥ ४१ ॥
 कोहो माणो माया, लोभो पढमा अणंतबंधी उ ।
 एयाणुदए जीवो, इह संमत्तं न पावेइ ॥ ४२ ॥
 जं परिणामो किट्ठो, मिच्छाओ जाव सासणो ताव ।
 संमामिच्छाईसु, एसिं उदओ अओ नत्थि ॥४३॥
 कोहो माणो माया, लोभो बीया अपच्चखाणा उ ।
 एयाणुदए जीवो, विरयाविरइं न पावेइ ॥ ४४ ॥
 एसिं जाण विवागो; मिच्छाओ जाव अविरो ताव
 परओ देसजयाइसु, नत्थि विवागो चउणहंपि ॥४५॥
 कोहो माणो माया, लोभो तइआ उ पच्चखाणा उ ।

एयाणुदए जीवो पावेइ न सव्वविरइं तु ॥ ४६ ॥
 एसिं जाण विवागो, मिच्छाओ जाव विरयविरओ उ ।
 परओ पमत्तमाइसु, नत्थि विवागो चउण्हंपि ॥४७॥
 कोहो माणो माघा, लोभो चरिमा उ हुंति संजलणा
 एयाणुदए जीवो, न लहइ अहखायचारित्तं ॥ ४८ ॥
 एसिं जाण विवागो, मिच्छाओ जाव वायरो तिण्हं ।
 लोभस्स जाव सुहुमो, होइ विवागो न परओ उ ॥४९॥
 नवः नोकसाय भणिमो, वेया तिम्नैव हासछकं च ।
 इत्थीपुरिसनपुंसग, तेसि सरूवं इमं होइ ॥ ५० ॥
 पुरिस पइ अहिलासो, उदएणं होइ जस्स कम्मस्सा
 सो फुफुमदाहसमो, इत्थीवेयस्स उ विवागो ॥ ५१ ॥
 इत्थीए पुण उवरिं, जस्सिह उदएण रागमुप्पज्जे ।
 सो तणदाहसमाणो, होइ विवागो पुरिसवेए ॥ ५२ ॥
 इत्थीपुरिसाणुवरिं, जस्सिह उदएण रागमुप्पज्जे ।
 नगरमहादाहसमो, सो उ विवागो अपुमवेए ॥ ५३ ॥
 तिण्हवि होइ विवागो, मिच्छाओ जाव वायरो ताव ।
 हासरइअरइभयं, सोगदुगुंच्छा उ अह भणिमो ॥५४॥

सनिमित्तऽनिमित्तं वा, अं हासं होइ इत्थ जीवस्स ।
 सो हासमोहणीयस्स होइ कम्मस्स उ विवागो ॥५५॥
 सच्चिन्ताचित्तेसु य, वाहिरदब्बेसु जस्स उदएण ।
 होइ रई रइमोहे सो उ विवागो वियाणाइ ॥ ५६ ॥
 सच्चिन्ताचित्तेसु य, वाहिरदब्बेसु जस्स उदएणं ।
 अरई होइ हु जीवे, सो उ विवागो अरइमोहे ॥५७॥
 भयवज्जियंमि जीवे, जस्सिह उदएणं हुंति कम्मस्स ।
 सत्तवि भयठाणाइं, भयमोहे सो विवागो उ ॥५८॥
 सोगरहियंमि जीवे, जस्सिह उदएण होइ कम्मस्स ।
 अक्कंदणाइसोगो, त जाणह सोगमोहणियं ॥५९॥
 दुग्गंधमलिणगेषु य, अट्ठिभतरवाहिरेसु दब्बेसु ।
 जेण विलीयं जीवे, उप्पज्जइ सा दुगुंठा उ ॥ ६० ॥
 छणहवि होइ विवागो, मिच्छाअओ जा अपुव्वकरणस्स ।
 धरमसमउ त्ति परअओ, नत्थि विवागो उ ठणहंपि ॥६१॥
 भणिअओ मोहविवागो, आउयकम्मं तु पंचमं भणिमो
 तं होइ चउपयारं नरतिरिय मणुदेवभेएहिं ॥ ६२ ॥
 दुक्खं न देइ आउं, नेय सुहं देइ चउसुवि गईसु ।

दुक्खसुहाणाहारं, धरेइ देहद्वियं जीवं ॥ ६३ ॥
 जं नेरइयं नारयभवम्मि तहिं धरइ उवियंतं पि ।
 जाणसु तं निरयाउं, हडिसरिसो तस्स उ विवागो ॥
 एवं तिरियं मणुयं, देवं तिरियाइएसु भावेसु ।
 जं धरइ तवभवगयं, तं तेसिं आउयं भणियं ॥ ६५ ॥
 भणियं आउयकम्मं, छट्ठं कम्मं तु भणणए नामं ।
 तं चित्तगरसमाणं, जह होइ तहा निसामेह ॥ ६६ ॥
 जह चित्तयो निउणो, अणेगरूवाइं कुणइ रूवाइं ।
 सोहणमसोहणाइं, चुक्खाचुक्खेहिं वण्णेहिं ॥ ६७ ॥
 तह नामं पि य कम्मं, अणेगरूवाइं कुणइ जीवस्स ।
 सोहणमसोहणाइं, इट्ठाणिट्ठाइं लोयस्स ॥ ६८ ॥
 गइयाइएसु जीवं, नामइ भेएसु जं तओ नामं ।
 तस्स उ वायालीसं, भेया अहवावि सत्तट्ठी ॥ ६९ ॥
 अहवावि हु तेणउई, भेया पघडीण हुंति नामस्स ।
 अहवा तिउत्तरसयं, सव्वेवि जहकम्मं भणिमो ॥ ७० ॥
 पढमा वायालीसा, गइ जाइ सरीर अगुवंगे य ।
 वंधण संघायण संघयण संठाणनामं च ॥ ७१ ॥

तह वण्णगंधरसफासनाम अगुरुलहुयं च बोधव्वं ।
 उवघायपराघायाण्णुपुवि उस्सासनामं च ॥ ७२ ॥
 आयावुज्जोय विहायगई तसथावराभिहाणं च ।
 वायर सुहुमं पज्जत्तापज्जत्तं च नायव्वं ॥ ७३ ॥
 पत्तेयं साहारण, थिरमथिरसुभांसुभं च नायव्वं ।
 सूभगदूभगनामं, सूसर तह दूसरं चैव ॥ ७४ ॥
 आइज्जमणाइज्जं, जसकित्तीनाममजसकित्ती य ।
 निम्माणं तित्थपरं, भेयाण वि हुंतिमे भेया ॥ ७५ ॥
 गइ होइ चउव्वभेया, जाईवि य पंचहा मुण्येयव्वा ।
 पंच य हुंति सरीरा, अंगोवंग्गाइँ तिन्नेव ॥ ७६ ॥
 छस्संघयणा जाणसु, संघाणावि य हवंति छच्चेव ।
 वण्णाईण चउक्कं, अगुरुलहुवघायपरघायं ॥ ७७ ॥
 अणुपुवी चउभेया, उस्सासं आयव्वं च उज्जोयं ।
 सुहअसुहविहायगई, तसाइवीसं च निम्माणं ॥७८॥
 तित्थयरेण य सहिया, सत्तट्ठी एव हुंति पयडीओ ।
 सम्मा मीसेहि विणा, तेवन्ना सेसकम्माणं ॥७९॥
 एवं विसुत्तरसयं वंधे पयडीण होइ नायव्वं ।

बंधणसंघायावि य, सरीरगहणेण इह गहिया ॥८०॥
 बंधणभेया पंच उ, संघायावि य हवंति पंचेव ।
 पण वण्णा दो गंधा, पंच रसा अट्ट फासा य ॥८१॥
 दस सोलस छवीसा, एया मेलेहि सत्तसट्ठीए ।
 तेणउई होइ तओ, बंधणभेया उ पणरस ॥ ८२ ॥
 सव्वेहिं वि इडेहिं, तिगअहियसयं तु होइ नामस्त ।
 एएसिं तु विवांगं, बुच्छामि अहाणुपुव्वीए ॥ ८३ ॥
 नारयतिरियनरामरगइभेया चउविहा गई होइ ।
 एसा खल्लु ओदइए, होइ हु भावे जओ आह ॥८४॥
 जीए उदएण जीवो, नेरइओ होइ नरयपुडवीए ।
 सा भणिया नरयगई, सेसगईओवि एमेव ॥ ८५ ॥
 इगदुगतिगचउरिंदियजाई पंचिंदियाण पंचमिया ।
 खयउवल्लमिए भावे, हुंति हु एया जओ आह ॥८६॥
 एगिंदिएसु जीवो, जस्सिह उदएण होइ कम्मस्त ।
 सा एगिंदियजाई, जाईओ एव सेसा उ ॥ ८७ ॥
 ओरालियवेउव्वियआहारयतेयकम्मए चेव ।
 एवं पंच सरीरा, तेसि विवांगो इमो होइ ॥ ८८ ॥

ओरालियं सरीरं, उदणं होइ जस्त कम्मस्त ।
 तं ओरालियनामं, सेससरीरा वि एमेव ॥ ८९ ॥
 अंगोवंगविभागो, उदणं होइ जस्त कम्मस्त ।
 तं अंगुवंगनामं, तस्त विवागो इमो होइ ॥ ९० ॥
 सीसमुरोयरपिड्डी, दो वाहू उरुया य अट्टंगा ।
 अंगुलिमाइउवंगा, अंगोवंगाइं सेसाइं ॥ ९१ ॥
 आइल्लाणं तिणहं, हुंति सरीराण अंगुवंगाइं ।
 नो तेयगकम्माणं, वंधणनामं इमं होइ ॥ ९२ ॥
 ओरालियओरालिय, ओरालियतेयबंधणं वीयं ।
 ओरालकम्मबंधण, तिणहवि जोगे चउत्थं तु ॥९३॥
 ओरालपुग्गला इह, वद्धा जीवेण जे उरालत्ते ।
 अन्ने उ वज्झमाणा, ओरालियपुग्गला जे य ॥ ९४॥
 तेसिं जं संबंधं, अवरोप्पर पुग्गलाणमिह कुणइ ।
 तं जउसरिसं जाणसु, ओरालियबंधणं पढमं ॥९५॥
 एवोरालियतेयग, ओरालियकम्मबंधणं तह य ।
 ओरालतेयकम्मगबंधणनामं पि एमेव ॥ ९६ ॥
 वेउव्वियवेउव्विय, वेउव्वियतेयबंधणं वीयं ।

वेदविक्रमबंधण, तिणहवि जोए चउत्थं तु ॥९७॥
 वेदविविपुग्गला इह, वद्धा जीवेण जे विउव्वित्ते ।
 अन्ने य वज्झमाणा, वेदवियपुग्गला जे उ ॥ ९८ ॥
 तेसिं जं संबंधं, अवरोप्पर पुग्गलाणमिह कुणइ ।
 तं जउसरिसं जाणसु, वेदवियबंधणं पढमं ॥९९॥
 एवं विउव्वित्तेयग, वेदवियकम्मबंधणं तहं य ।
 वेदवित्तेयकम्मगबंधणनामं पि एमेव ॥ १०० ॥
 आहारगआहारग, आहारगतेयबंधणं वायं ।
 आहारकम्मबंधण, तिणहवि जोए चउत्थं तु ॥१०१॥
 आहारपुग्गला इह, आहारत्तेण जे निवद्धा उं ।
 अन्ने य वज्झमाणा, आहारगपुग्गला जे उ ॥१०२॥
 तेसिं जं संबंधं, अवरोप्पर पुग्गलाणमिह कुणइ ।
 तं जउसरिसं जाणसु, आहारगबंधणं पढमं ॥१०३॥
 एवाहारगतेयग, आहारगकम्मबंधणं तहं य ।
 आहारतेयकम्मगबंधणनामं पि एमेव ॥ १०४ ॥
 एवं तेयगतेयग, तेयगकम्मे यं बंधणं तहं य ।
 कम्मइगं कम्मइगं, वधणनामं पि पनरंसमं ॥१०५॥

संघायनाममहुणा, संघायइ जेण तेण संघायं ।
 ओरालियसंघायं, वेउव्विय जाव कम्मइगं ॥ १०६ ॥
 ओरालाई जे देहपुग्गला होंति जंमि ठाणंमि ।
 ते ठंति तंमि ठाणे, संघायणकम्मणो उदए ॥१०७॥
 वज्जरिसहनारायं, रिसहं नारायमळनारायं ।
 कीलिय तह ठेवट्ट, तेसि सरूवं इमं होइ ॥ १०८ ॥
 रिसहो य होइ पट्टो, वज्जं पुण कीलिया मुण्येव्वा ।
 उभओ मक्खडबंधं, नाराय तं वियाणाहि ॥ १०९ ॥
 जस्सुदएणं जीवे, संघयणं होइ वज्जरिसहं तु ।
 त वज्जरिसहनामं, सेसावि हु एव संघयणा ॥११०॥
 समचउरंसे नग्गोहमंडल साइवामणे खुज्जे ।
 हुंडेवि य संठाणे, तेसि सरूवं इमं होइ ॥ १११ ॥
 तुब्लं वित्थडवहुलं, उस्सेहवहुं च मडहकोठं च ।
 हिठिल्लकायमडहं, सव्वत्थासंठियं हुंडं ॥ ११२ ॥
 जस्सुदएणं जीवे, चउरंसं नाम होइ संठाणं ।
 तं चउरंसं नामं, सेसावि हु एव संठाणा ॥ ११३ ॥
 किण्हा नीला लोहिय, हालिदा तह य हुंति सुक्किलया

एवं तिरिमणुदेवे, तेसु वि वक्केण गच्छमाणस्स ।
 तेसिमणुपुवियाणं, तहिं उदथो अन्नहिं नत्थि ॥१२३॥
 जस्सुदएणं जीवे, निप्फत्ती होइ आणपाणूणं ।
 तं उसासं नामं, तस्स विवागो सरीरम्मि ॥ १२४ ॥
 जस्सुदएणं जीवे होइ सरीरं तु ताविलं इत्थ ।
 सो आयवे विवागो, जह रविक्खिंवे तहा जाण ॥ १२५ ॥
 न भवइ तेयसरीरे, जेण उ नेयस्स उसिणफासस्स ।
 होइ हु उदथो नियमा, तह लोहियवण्णनामस्स ॥१२६॥
 जस्सुदएणं जीवो अणुसिणदेहेण कुणइ उज्जोयं ।
 तं ऊज्जोय नामं, जाणसु खज्जोयमाइणं ॥ १२७ ॥
 जस्सुदएणं जीवो, वरवसभगईए गच्छइ गईए ।
 सा सुहया विहगगई, हंसाईए भवे सा उ ॥ १२८ ॥
 जस्सुदएणं जीवो, अमणिछाए उ गच्छइ गईए ।
 सा असुहा विहगगई, उट्टाईए भवे सा उ ॥ १२९ ॥
 तसवायरपज्जत्तं, पत्तेयथिरं सुभ च सुभगं च ।
 सूत्तर आइज्जजसं, तसाइदसगं इमं होइ ॥ १३० ॥
 आइम्मि तसचउक्कं, थिराइछक्कं तु उवरिमं होइ ।


थावरदसगं अहुणा, थावर सुहुमं अपजत्तं ॥ १३१ ॥
 होइ तहा साहारं, अथिरं असुभं च द्भगं चैव ।
 दसरणाइजेहिं अ, अजसेहिं य वीयदसगं तु ॥१३२॥
 आइम्मि थावरचऊ, सुहुमतिगं उवरिसं भवे इत्थ ।
 अथिराइछकमुवरिं, विवागभेत्थं अओ भणिमो ॥१३३
 तसनामुदए जीवो, वेइदियमाइ जाइ जीवेषु ।
 थावरनामुदए पुण, पुढवीमाइसु सो जाइ ॥ १३४॥
 वायरनामुदएणं, वायरकाओ उ होइ सो नियमा ।
 सुहुमेण सुहुमकाओ, अंतमुहुत्ताओ होइ ॥ १३५॥
 आहारसरीरिंदियपज्जत्तीआणपाणभासमणे ।
 चत्तारि पंच छप्पि य, एगिंदियविगलसत्तीणं ॥१३६॥
 एयासिं निप्फत्ती, उदएणं जस्स होइ कम्मस्स ।
 तं पज्जत्तं नामं, इयरुदए नत्थि निप्फत्ती ॥ १३७ ॥
 इक्किक्कयंमि जीवे, इक्किक्कं जस्स होइ उदएणं ।
 ओरालाइ सरीरं, तं नामं होइ पत्तेयं ॥ १३८ ॥
 जीवाणमणंताणं, इक्कं ओरालियं इह सरीरं ।
 हवइ हु जस्सुदएणं, तं साहारं हवइ नामं ॥१३९॥

दंतद्वाइधिराणं, अंगावयवाण जस्स उदएणं ।
 निप्फत्ती उ सरीरे, जायइ तं होइ धिरनामं ॥१४०॥
 जीहाभमुहाईणं, अंगावयवाण जस्स उदएणं ।
 निप्फत्ती उ सरीरे, जायइ तं अधिरनामं तु ॥१४१॥
 सिरमाईण सुहाणं, अंगावयवाण जस्स उदएणं ।
 निप्फत्ती उ सरीरे, जायइ तं होइ सुभनामं ॥१४२॥
 पायाई असुहाणं, अंगावयवाण जस्स उदएणं ।
 निप्फत्ती उ सरीरे, जायइ तं असुभनामं तु ॥१४३॥
 सूभगकम्मुदएणं, हवइ हु जीवो उ सबजणइट्ठो ।
 दूहगकम्मुदए पुण, दुहओ सो सयललोयस्स ॥१४४॥
 सूसरकम्मुदएणं, सूसरसदो य होइ इह जीवो ।
 दूसर उदए विसरो, जंपतो होइ जणवेसो ॥१४५॥
 आएज्जकम्मउदए, चिट्ठा जीवाण भासणं जं च ।
 तं बहु मन्नइ लोअो, अवहुमयं इयर उदएणं ॥१४६॥
 जस्सुदएणं जीवो, लहइ हु कित्तिं जसं च लोगम्मा ।
 तं जसनामं कम्मं; अजस्सुदए लहइ विवरीयं ॥१४७॥
 देहंगावयवाणं, लिंगागिइ जाइ नियमणं जं च ।

तहिं सुत्तहारसरिसो, निम्माणे होइ हु विवागो ॥१४८
 उदए जस्स सुरासुरनरवइनिवहेहिं पूईओ होइ ।
 तं तित्थयरं नामं, तस्स विवागो उ केवल्लिणो ॥१४९॥
 भणियं नामं कम्मं, अहुणा गोयं तु सत्तमं भणिमो ।
 तंपि कुलालसमाणं, दुविहं जह होइ तह भणिमो ॥
 जह इत्थ कुंभकारो, पुढवीए कुणइ एरिसं रूवं ।
 जं लोयाओ पूयं, पावइ इह पुण्णकलसाई ॥ १५१॥
 भुंभुलमाई अन्नं, सो च्चिय पुढवीए कुणइ रूवं तु ।
 जं लोयाओ निंदं, पावइ अकएवि मज्जंमि ॥१५२॥
 एव कुलालसमाणं, गोयं कम्मं तु होइ जीवस्स ।
 उच्चानीयविवागो, जह होइ तहा निसामेह ॥१५३॥
 अधणी बुद्धिविउत्तो, रूवविहूणोवि जस्स उदएणं ।
 लोयंमि लहइ पूयं, उच्चागोयं तयं होइ ॥ १५४॥
 संधणो रूवेण जुओ, बुद्धीनिउणो वि जस्स उदएणं ।
 लोयंमि लहइ निंदं, एयं पुणं होइ नीय तु ॥ १५५ ॥
 गोयं भणियं अहुणा, अट्ठमयं अंतराययं होइ ।
 तं भंडारियसरिसं, जह होइ तहा निसामेह ॥ १५६॥

जह राया इह भंडारिण विणिण कुणइ दाणाई ।
 तेण उ पडिक्कूलेणं, न कुणइ सो दाणमाईणि ॥१५७॥
 जह राया तह जीवो, भंडारी जह तहंतरायं च ।
 तेण उ विघन्धणं, न कुणइ सो दाणमाईणि ॥१५८॥
 तं दाणलाभभोगोवभोगविरियंतराय पंचमयं ।
 एएसिं तु विवाग, वोच्छामि अहाणुपुवीए ॥१५९॥
 सइ फासुयंमि दाणे, दाणफलं तहय बुज्झई अउलं ।
 वंभच्चेराइजुयं, पत्तपि य विज्जए तत्थ ॥ १६० ॥
 दाउं नवरि न सक्कइ, दाणविघायस्स कम्मणो उदए ।
 दाणंतरायमेय, लाभे वि य भणणए विग्घं ॥ १६१ ॥
 जइ वि पसिद्धो दाया, जायणनिउणो वि जायगो जइ वि
 न लहइ जस्सुदएणं षयं पुण लाभविग्घं तु ॥१६२॥
 मणुयत्ते वि य पत्ते, लद्धे वि हु भोगसाहणे विभवे ।
 भुत्तुं नवरि न सक्कइ, विरइविहूणो वि जस्सुदए ॥१६३॥
 भोगस्स विग्घमंयं, उवभोगे थावि विग्घमेवेव ।
 भोगुवभोगाणेसिं, नवरि विसेसो इमा होइ ॥१६४॥
 सइ भुज्झइ त्ति भोगो, सो पुण आहारपुष्कमाईथ्यो ।

उवभोगो य पुणो पुण, उवभुज्जइ भवणविलियाई ॥
 वलवं रोगविउत्तो, वयसयणो वि जस्स उदएणं ।
 विरिएण होइ हीणो, वीरियविग्घं तु पंचमयं ॥१६६॥
 एवं पंचवियप्पं, अट्टमयं अतराइयं होइ ।
 भणियो कम्मविवागो समासओ गग्गरिसिणा उ ॥
 एय गाहाण सय, अहिय छावट्टिए उ पढिउणं ।
 जो गुरु पुच्छइ नाही, कम्मविवागं च सो अइरा ॥१६८



॥ अर्हम् ॥

॥ कर्मस्तवाख्यः द्वितीयः

कर्मग्रन्थः ॥

नमिऊण जिणवरिंदे, तिहुयणवरणाणदंसणपईवे ।
बंधुदयसंतजुत्तं, वोच्छामि थयं निसामेह ॥ १ ॥
मिच्छदिष्ठी सासायणे य तह सम्ममिच्छदिष्ठी य ।
अविरयसम्मदिष्ठी, विरयाविरए पमत्ते य ॥ २ ॥
तत्तो य अप्पमत्ते नियट्टि अनियट्टिवायरे सुहुमे ।
उवसंत खीणमोहे, होइ सजोगी अजोगी य ॥ ३ ॥
मिच्छे सोलस पणुवीस सासणे अविरए य दस पयडी
चउच्छक्कमेग देसे, विरए य कमेण वोच्छिन्ना ॥ ४ ॥
दुग तीस चउर पुब्बे, पंच नियट्टिमि बंधवोच्छेओ ।
सोलस सुहुमसरागे, साय सजोगी जिणवरिंदे ॥ ५ ॥
पण नव इग सत्तरसं, अड पंच य चउर ठक्क छ च्चेय
इग दुग सोलस तीसं, वारस उदए अजोगता ॥ ६ ॥

पण नव इग सत्तरसं, अष्टस्र य चउर ठक छ च्चेव ।
 इग दुग सोल गुयालं, उदीरणा होइ जोगंता ॥ ७ ॥
 अणमिच्छमीससम्मं, अविश्यसम्माइअप्पमत्तंता ।
 सुरनरयतिरियआउं, निययभवे सब्बजीवाणं ॥ ८ ॥
 सोलस अठ्ठेक्केकं, छक्केक्केक्केक्के खीणमनियट्ठी ।
 एगं सुहुमसरागे, खीणकसाए य सोलसगं ॥ ९ ॥
 वावत्तरिं दुचरिमे, तेरस चरिमे अजोगिणो खीणे ।
 अडयालं पयडिसयं, खविय जिणं निब्बुयं वंदे ॥ १० ॥
 नाणस्स दसणस्स य, आवरणं वेयणीयमोहणियं ।
 आउय नामं गोयं, तहंतरायं च पयडीओ ॥ ११ ॥
 पंच नव दोन्नि अट्ठावीसा चउरो त्हेव वायाला ।
 दोषिण य पंच य भणिया, पयडीओ उत्तरा च्चेव ॥ १२ ॥
 मिच्छ नपुंसगवेयं नरयाउं तह य च्चेव नरयदुगं ।
 इगविगल्लिंदियजाई, हुंडमसंपत्तमायावं ॥ १३ ॥
 थावर सुहुमं च तहा, साहारणयं तहा अपजत्तं ।
 एया सोलस पयडी, मिच्छंमि य वंधवोच्चेओ ॥ १४ ॥
 थोणत्तिगं इरधी वि य, अण तिरियाउं त्हेव तिरियदुगं ।

मज्झिम चउ संठाणं, मज्झिम चउ चेव संघयणं ॥१५॥
 उज्जोयमप्पसत्था, विहायगइ दूभगं अणाएज्जं ।
 दूसर नीयागोयं, सासणसम्ममि वोच्छिन्ना ॥ १६ ॥
 वायकसायचउक्कं मणुयाउं मणुयदुग य अोरालं ।
 तस्स य अंगोवंगं, संघयणाइं अविरयंमि ॥ १७ ॥
 तइयकसायचउक्कं, विरयाविरयंमि बंधवोच्छेओ ।
 अस्सायमरइ सोय, तइ चेव य अथिरमसुभ च ॥१८॥
 अज्जसकिन्ती य तहा, पमत्तविरयंमि बंधवोच्छेओ ।
 देवाजयं च एगं, नायव्वं अप्पमत्तंमि ॥ १९ ॥
 निहापयला य तहा, अपुव्वपढमंमि बंधवोच्छेओ ।
 देवदुग पंचिंदिय उरालवज्जं चउसररीरं ॥ २० ॥
 समचउरं वेउव्वियआहारय अंगुवंगनामं च ।
 वणणचउक्कं च तहा, अगुरुयलहुयं च चत्तारि ॥ २१ ॥
 तस चउ पसत्थमेव य, विहायगइ थिर सुभं च नायव्वं
 सुहयं सुस्सरमेव य, आएज्जं चेव निमिणं च ॥२२॥
 तित्थयरमेव तीसं, अपुव्वच्छव्वभाग बंधवोच्छेओ ।
 हासरइभयदुगुंछा, अपुव्वचरमंमि वोच्छिन्ना ॥ २३ ॥

पुरिसं चउ संजलणं, पंच य पयंडीओ पंच भागंमि ।
 अनियट्टीअद्धाप, जहक्कमं वंधवोच्छेओ ॥ २४ ॥
 नाणंतरायदसगं, दसण चत्तारि उच्च जसकित्ती ।
 एया सोलस पयडी, सुहुमकसायंमि वोच्छिन्ना ॥ २५ ॥
 उवसत खीणमोहे, जोगिंमि उ सायबंधवोच्छेओ ।
 नायव्वो पयडीणं, वधस्सतो अणंतो य २६।बंधो सम्मत्तो
 मिच्छत्तं आयावं, सुहुम अपजत्तया य तह चेव ।
 साहारणं च पंच य, मिच्छमि य उदयवोच्छेओ ॥ २७ ॥
 अण एगिंदियजाई, विगळिंदियजाइमेव थावरयं ।
 एया नव पयडीओ सासणसम्मंमि वोच्छिन्ना ॥ २८ ॥
 सम्मामिच्छत्तंगं, सम्मामिच्छंमि उदयवोच्छेओ ।
 वीयकसायचउक्कं तह चेव य नरयदेवाजं ॥ २९ ॥
 मणुयतिरियाणुपुव्वी, वेउव्वियत्तक्क दूहयं चेव ।
 अणएज्जं चेव तहा, अजसकित्ती अविरयंमि ॥ ३० ॥
 तइयकसायचउक्कं, तिरियाज तह य चेव तिरियगई ।
 उज्जोय नीयगोयं, विरयाविरयंमि वोच्छिन्ना ॥ ३१ ॥
 थीणत्तिगं चेव तहा, आहारदुगं पमत्तविरयंमि ।

सम्मत्तं संघयणं, श्रंतिमंतिगमप्पमत्तंमि ॥ ३२ ॥
तह नोकसायच्छकं, अपुव्वकरणंमि उदयवोच्चेओ ।
वेयत्तिग कोहमाणामायासंजलणमनियट्ठी ॥ ३३ ॥
संजलणलोभमेगं, सुहुमकसायंमि उदयवोच्चेओ ।
तह रिसहंनारायं, नारायं चैव उवसंते ॥ ३४ ॥
निहा पयला य तहा, खीणदुचरिमंमि उदयवोच्चेओ ।
नाणंतरायदसगं, दंसण चत्तारि चरिमंमि ॥ ३५ ॥
अन्नयरवेयणीयं, ओरालियतेयकम्मनामं च ।
छ च्चैव य संठाणा, ओरालिय अंगुवंगं च ॥ ३६ ॥
आइमसंघयणं खल्लु, वणणच्चउक्कं च दो विहायगती ।
अगुरुयलहुयच्चउक्कं, पत्तेय थिराथिरं चैव ॥ ३७ ॥
सुभसुस्सरजुयला वि य, निमिणं च तहा हवति नायव्वा
एया तीसं पयडी, सजोगिचरिमंमि वोच्छिन्ना ॥३८॥
अन्नयरवेयणीयं, मणुयाऊ मणुयगइ य वोद्धवा ।
पंचिंदियजाई वि य, तस सुभगाएज्ज पज्जत्तं ॥३९॥
वायर जसकित्ती वि य, तित्थयरं उच्चगोययं चैव ।
एया वारस पयडी, अजोगिचरिमंमि वोच्छिन्ना॥४०॥
उदओ सम्मत्तो ॥

मायं चिय अनियद्भीभागं गंतूण संतवोच्छेओ ।
 लोहं चिय संजलणं, सुहुमकसायंमि वोच्छिन्ना ॥४९॥
 खीणकसाय दुचरिमे, निहं पयलं च हणइ छउमत्थो ।
 नाणंतरायदसगं, दंसण चत्तारि चरिममि ॥ ५० ॥
 देवदुग पणसररीरं, पंचसररीरस्स वंधणं चेव ।
 पंचेव य संघाया, संठाणा तह य छक्कं च ॥ ५१ ॥
 तिमि य अंगोवंगा, संघयणं तह य होइ छक्कं च ।
 पंचेव य वण्णरसा, दो गंधा अट्ट फासा य ॥५२॥
 अगुरुयलहुयचउक्कं, विहायगइदुग थिराथिरं चेव ।
 सुहसुस्सरजुयला वि य, पत्तेय दूभगं अजसं ॥५३॥
 अणएज्जं निमिणं चिय, अपजत्तं तह य नीयगोयं च
 अन्नयरवेयणियं, अजोगिदुचरमंमि वोच्छिण्णा ॥५४॥
 अन्नयरवेयणीयं, मणुयाऊ मणुयदुवय वोद्धव्वा ।
 पंचिदियजाई वि य, तस सुभगाएज्ज पज्जत्तं ॥५५॥
 वायर जसकित्ती वि य, तित्थयरं उच्चगोययं चेव ।
 एया तेरस पयडी, अजोगिचरिमंमि वोच्छिन्ना ॥५६॥
 सत्ता सम्मत्ता ॥

सो मे तिहुयणमहिओ, सिद्धो बुद्धो निरंजणो निच्चो ।
दिसउ वरणाणलंभं, दंसणसुद्धिं समाहिं च ॥५७॥

॥ इति कर्मस्तवाख्यो द्वितीयः
कर्मग्रन्थः समाप्तः ॥

॥ अहंम् ॥

॥ बन्धस्वामित्वाख्यस्तृतीयः
कर्मग्रन्थः ॥

नमिऊण वद्धमाणं, गइयाईठाणदेसयं सिद्धं ।
गइयाइएसु वोच्छं, बंधस्सामित्तमोघेणं ॥ १ ॥

गइ इंदिए थ काए , जोए वेए कसायनाणे थ ।
 संजम दंसण लेसा , भव सम्मे सण्णि आहारे ॥२॥
 गुणठाणा सुरनिए, चउ पण तिरिएसु चउदस नरेसु ।
 जीवट्टाणा तिरिए, चउदस सेसेसु दुग दुगं जाण ॥३॥
 निरयतिगं मिच्छत्तं, नपुंस इगविगलजाइ आयावं ।
 ठेवट्ट थावरचऊ, हुंडं चिय मिच्छदिट्ठिम्मि ॥४॥
 थाणतिगित्थी अण तिरितिग कुविहगई थ नीयमुज्जोयं
 दूभगतिग पणुवीसा, मज्झिमसंठाणसंघयणा ॥५॥
 थावरचउ जाई चउ, विउवाहारदुग सुरनिरतिगाणि ।
 आयवजुयाऽऽहिं ऊणं, एगहियसयं नरयबंधे ॥६॥
 तित्थोणं सय मिच्छा, साणा नपुहुंडठेयमिच्छोणं ।
 मीसा नराउपणुवीसोणं सम्मा नराउतित्थजुयं ॥७॥
 पंकाइसु तित्थोणं, नराउहीणं सयं तु सत्तमिए ।
 मणुदुगउच्चेहिं विणा, मिच्छा वंधंति ठणणउइं ॥८॥
 हुंडाईचउरहियं, साणा तिरियाउणा थ इगनउइं ।
 इगुणपणुवीसरहिया, सनरदुगुच्चा सयरि मीसे ॥९॥
 तित्थाहारदुगूणा, तिरिया वंधंति सबपयडीओ ।

पञ्जत्ता तह मिच्छा, साणा उण सोलसविहीणा ॥१०॥
 नरतिंगसुराउउसभं, उरलदुगं मोत्तु पण्णवीसं च ।
 अणुहत्तरिं तु मीसा, सुराउणा सत्तरी सम्मा ॥ ११ ॥
 वीयंकसायूणा देस अपञ्जत्ता सयं नवग्गं तु ।
 मोत्तुणमोवन्धां, निरसुरआउं विउविच्छं च ॥ १२ ॥
 तिरिया व नरा पयडी वंधंती मिच्छमाइया पंच ।
 अजयाइ पंच तित्थं, अपमत्तनियट्टि आहारं ॥१३॥
 कम्मत्थयबंधंसमो, पमत्तमाइण होइ वन्धो उ ।
 अप्पञ्जत्ता मणुया, तिरिया व सयं नवग्गं तु ॥ १४ ॥
 वेउवाहारदुगं, नारयसुरसुहुमविगलजाइतिंगं ।
 मोत्तु चउरग्गसयं, देवा वंधति ओहेणं ॥ १५ ॥
 तित्थोणं तं मिच्छा, साणा ठेवट्टुंडनपुमिच्छं ।
 एगिंदियावरायवपयडी मोत्तुण छन्नउइं ॥ १६ ॥
 ओधुत्तं पण्णवीसं, नराउजुत्तं विवज्जितं मीसा ।
 वंधंति सयरिमजया, तित्थनराजहिं विगंसयरी ॥१७॥
 मिच्छाइयविरयंता, देवोघ तित्थहीण वंधंति ।
 भवणवणजोइदेवा देवीथो चेव संवाओ ॥ १८ ॥


सामन्नदेवभंगो, सोहम्मोसाण मिच्छमाईणं ।
 सहसारंता इगिथावरायवोणं सणंकुमाराई ॥ १९ ॥
 रयणानारयसरिसा, सहसारंता सणंकुमाराई ।
 इगिथावरायवतिरितिगुज्जोऊण तु आणयाईया ॥ २० ॥
 तित्थं नपुचउ तिरितियउज्जोऊण पणवीस सनराउं ।
 मोत्तूण मिच्छमाई, नराउतित्थेहि अजया उ ॥ २१ ॥
 तित्थाहारं निरयसुराउ मोत्तुं विउविच्छक्कं च ।
 इगविगलिंदी बंधहि, नवुत्तरं ओघ मिच्छा य ॥ २२ ॥
 साणा बंधहिं सोलस निरतिगहीणा य मोत्तू छन्नउईं ।
 ओघेणं वीसुत्तरसयं च पचिदिया बंधे ॥ २३ ॥
 इगिविगलिंदी साणा तणुपउज्जतिं न जंति जंतेण ।
 निरतिरियाउभवधा, मयंतरेणं तु चउणउईं ॥ २४ ॥
 भूदगवणकाया एगिंदिसमा मिच्छसाणदिठीओ ।
 मणुपतिगुच्चं मोत्तू, सुहुमतसां ओघ थूलतसा ॥ २५ ॥
 मणवइजोगचउक्के, ओघो उरले वि ओघनरभंगो ।
 निरतिगसुराउआहारगं, तु हिच्चा उ तं मीसे ॥ २६ ॥
 सुरदुगविउवियदुगं, तित्थं हिच्चा सयं नवग्गं तु ।

वंधंति उरलमिस्से, मिच्छा उ सजोगिणो सायं ॥२७॥
 निरतिगहीणा सोलस, तिरिनरञ्चाउं पि मोत्तु साणा वि
 तिरियाउविहीणं पणवीसमुज्झत्तु अविरए वंधे ॥२८॥
 तित्थ वेउव्विदुगं, सुरदुगसहियं उरलमिस्से ।
 सामन्नदेवनारयबंधो नेञ्चो विउव्विजोगे वि ॥ २९ ॥
 वेउव्वियमीसम्मि वि, तिरियनराउहिं वज्जिया सेसा ।
 तित्थोणा तां मिच्छा, वंधहिं साणा उ चउणउइं ॥३०॥
 एगिंदिथावरायवसंठाइचउक्कवज्जिया सेसा ।
 तिरियाऊणं पणवीस मोत्तू अजया सतित्था उ ॥३१॥
 तेवढ्ढाहारदुगे, जहा पमत्तस्स कम्मणे वंधो ।
 आउतिगं निरयतिगं, आहारय वज्जिउं ओघो ॥३२॥
 सुरदुगतित्थविउव्वियदुगाणि मोत्तुण वंधहिं मिच्छा ।
 निरतिगहीणा सोलस, वज्जित्ता सासणा कम्मे ॥३३॥
 तिरियाऊणं पणवीस मोत्तु सुरदुगविउव्विदुगंजुत्तं ।
 अजया तित्थेण समं, सजोगि सायं समुग्घाए ॥३४॥
 वेयतिएवोघेणं, वंधो जा वायरो हवइ ताव ।
 कोहाइसु चउसोघो, मिच्छाओ जाव अनियट्ठिं ॥३५॥

अण्णाणति एवोघो, मिच्छासाणेषु नवसु नाणति ए ।
 मणपज्जवे वि सत्तसु, ओघं दुसु केवलिस्सावि ॥३६॥
 सामाइयठेएसुं, पमत्तमाईसु चउसु ओघो त्ति ।
 परिहारस्त पमत्ते, अपमत्ते सुहुम सट्ठाणे ॥ ३७ ॥
 उवसंताइसु अहखाय देसविरयस्त होइ सट्ठाणे ।
 मिच्छाईसु चउसुं, ओघो अस्संजयस्सावि ॥३८॥
 चक्खुअचक्खू ओघो, मिच्छाई खीणमोह ओहिस्त
 अजयाइनवसु केवलदंसण केवलिदुगे चव ॥ ३९ ॥
 उच्चउसु तिणिण तीसुं, छण्हं सुक्का अजोगि अल्लेसा
 आहारूणा आइतिलेसी वंधंति सब्बपयडोओ ॥४०॥
 मिच्छा तित्थोणा ता, साणा उण सोलसविहूणा ।
 सुरनरआऊ पणवीस मोत्तु वंधंति मीसा उ ॥४१॥
 सुरनरआउयसहिया, अविरयसम्मा उ ह्वंति नायवा ।
 तित्थयरेण जुया तह, तेऊत्तेसे परं वोच्छं ॥४२॥
 विगलतिगं निरयतिगं सुहुमतिगूणं सयं तु एकारं ।
 तित्थाहारूणा मिच्छ साण इगितिगन पुचऊणा ॥४३॥
 मीसाईपंचगुणा, ओघं वंधंति पम्हलेसावि ।

विगलतिगं निरयतिगं, सुहुमतिगेगिदिथावरायात्रं ॥४४
 हिच्चाः सयमद्वहियं, तित्थाहारदुगहीण मिच्छाओ ।
 संढाइचउक्कोणं, साणा मीसाइ पणगओघं तु ॥४५॥
 वंधंति सुक्कलेसा, नारयतिरिसुहुमविगलजाइतिग ।
 इगिथावरायवुज्जोय वज्जिय सयं तु चउरहियं ॥४६॥
 तित्थाहारदुगूणं, एगहियसयं तु वंधही मिच्छा ।
 संढाइ चउक्कोणं, साणा वधति सगनउइ ॥ ४७ ॥
 तिरितियउज्जोऊयं, पणुवीसं मोत्तु सुरनराउजुयं ।
 चउहत्तरिं तु मीसा, वंधहिं कम्माण पपडोओ ॥४८
 तित्थयरसुरनराउयसहिया अजयम्मि होइ सगसयरी।
 देसाइनवसु ओघो, भव्वेसु विंसो अब्व मिच्छसमा
 ओघो वेयगसम्मे, अजयाइचउक्क खाइगेवोघो ।
 अजयादजोगि जाव उ, ओघो उवंसामिण होइ ॥५०
 उवसम्मे वट्टंतां, चउण्हंमिक्कंपि आउयं नेय ।
 वंधंति तेण अजया, सुरनरआऊहिं ऊणं तु ॥ ५१ ॥
 ओघो देसजयाइसु, सुराउहीणा उ जाव उवसंतो ।
 ओघो सण्णिसु नेओ, मिच्छाभंगो असण्णीसु ॥५२॥

साणे वि असणिणस्सा, भंगा सणणुव्भवा मुणेयवा ।
 आहारगेसु ओघो, इयरेसु य कम्मणो भंगो ॥५३॥
 इय पुव्वसूरिकयपगरणेसु जडवुद्धिणा मए रइयं ।
 वंधस्सामित्तमिणं, नेयं कम्मत्थयं सोउं ॥ ५४ ॥



॥ समाप्तश्चायं बन्धस्वामित्वाख्यस्तृतीयः
 कर्मग्रन्थः ॥

॥ अहंम ॥

॥ श्रीमञ्जिनवल्लभगणिप्रणीतः ॥

॥ षडशीतिनामा चतुर्थः
 कर्मग्रन्थः ॥

निच्छिन्नमोहपासं, पसरियविमलोरुकेवलपयासं ।

पणयजणपूरियासं, पयओ पणमित्तु जिणपासं ॥ १ ॥
 वोच्चासि जीवमग्गणगुणठाणुवओगजोगलेसाई ।
 किंचि सुगुरूवएसा, सन्नाणसुझाणहेउ त्ति ॥ २ ॥
 इह सुहुमवायरेगिंदिवित्तिचउअसन्निसन्निपंचिदी ।
 अपजत्ता पजत्ता, कमेण चउदस जियट्ठाणा ॥ ३ ॥
 सव्वभणियव्वमूलेसु तेसु गुणठाणगाइ ता भणिमो ।
 पढमगुणा दो वायरवित्तिचउरअसन्नि अपजत्ते ॥ ४ ॥
 सन्नि अपजत्ते मिच्छदिट्ठिसासाणअविरया तिन्नि ।
 सव्वे सन्नि पजत्ते, मिच्छं सेसेसु सत्तसु वि ॥ ५ ॥
 जोगा छसु अप्पज्जत्तएसु कम्मइगउरलमिस्सा दो ।
 वेउव्वियमीसजुया, सन्नि अपजत्तए तिन्नि ॥ ६ ॥
 वित्ति अपज्जत्ताणवि, तणुपज्जत्ताण केइ ओराळं ।
 वायरपज्जत्ते तिन्नि उरळ वेउव्वियदुगं च ॥ ७ ॥
 उरळं सुहुमे चउसु य, भासजुयं पनरसावि सन्निम्मि ।
 उवओगा दससु तओ, अचक्खुदंसणमनाणदुगं ॥ ८ ॥
 चक्खुजुया चउरिंदियअसन्नि पज्जत्तएसु ते चउरो ।
 मणनाणचक्खुकेवलदुगरहिया सन्नि अपजत्ते ॥ ९ ॥

सव्वे सन्निसु एत्तो, लेसाओ छावि दुविह सन्निसि ।
 घउरो पढमा घायर, अपजत्ते तिन्नि सेसेसु ॥१०॥
 सत्तट्ट१अट्ट२सत्तट्ट३अट्ट४ वंधु१दयुर२दीरणा३संता ४ ।
 तेरससु जीवठाणेषु सन्नपज्जत्तए ओघो ॥ ११ ॥
 एत्तो गइइंदियकायजोयवेए कसायनाणेषु ।
 संजमदंसणलेसाभवसम्मो सन्नआहारे ॥ १२ ॥
 सुरनरतिरिनरयगई, इगवितिचउरिंदिया य पंचिंदी ।
 पुढवीआऊतेऊवाऊवणसइतसा काया ॥ १३ ॥
 मणवइकाया जोगा, इत्थी पुरिसो नपुंसगो वेया ।
 कोहो माणो माया, लोभो चउरो कसाय त्ति ॥१४॥
 मइसुयओहीमणकेवलाणि मइसुयअनाणविट्ठभंगा ।
 सामइयठेयपरिहारसुहुमअहखायदेसजयअजया ॥१५॥
 अच्चक्खुचक्खुओही, केवलदंसणमओ य छल्लेसा ।
 किण्हा नीला काऊ, तेऊ पम्हा य सुक्का य ॥ १६ ॥
 भव्वअभवा, खउवसमखइयउवसमियमीससासाणं ।
 मिच्छो य सन्नसन्नी, आहारणहार इय भेया ॥ १७ ॥
 सुरनिरए सन्नदुगं, नरेसु तइओ असन्नअपजसो ।

तिरियगईए चउदस, एगिंदिसु आइमा चउरो ॥१८॥
 वितिचउरिंदिसु दो दो, अंतिम चउरो पणिंदिसु भवंति
 थावरपणगे पढमा, चउरो चरमा दस तसेसु ॥१९॥
 विगलतिअसन्निसन्नी, पज्जत्ता पंच होंति वइजोगे ।
 मणजोगे सन्निक्को, पुमित्थिचेए चरम चउरो ॥२०॥
 काओगिनपुंसकसायमइसुयअनाणअविरयअचक्खू ।
 आइतिलेसा भवियरमिच्छ आहारगे सव्वे ॥२१॥
 मइसुयओहीदुगविभंगपन्हसुक्कासु तिसु य सम्मेषु ।
 सन्निम्मि य दो ठाणा, सन्निअपज्जत्तपज्जत्ता ॥२२॥
 मणपज्जवकेवलदुगसंजयदेसजयमीसदिट्ठीसु ।
 सन्नीपज्जो चक्खुंमि तिन्नि छ व पज्जियर चरमा ॥२३॥
 सत्त उ सासाणे वायराइ छ अपज्ज सन्निपज्जो य ।
 तेउल्लेसे वायरअपज्जत्तो दुविह सन्नी य ॥२४॥
 थ्यस्सन्नि आइ वारस, अणहारे अठ सत्त अपज्जत्ता ।
 सन्नी पज्जत्तो तह, इय गइयाइसु जियठाणा ॥२५॥
 मिच्छे सासणमीसे, अविरयदेसे पमत्तअपमत्ते ।
 नियहि अनियट्ठिसुहुमुवसम खीणसजोगिअजोगि गुणा

चत्तारि देवनरएसु पंच तिरिएसु चउदस नरेसु ।
 इगिचिगलेसुं दो दो, पंचिदिसु चउदस त्रि ॥ २७ ॥
 भूदगतरुसु दो दो, इगमगणिवाउसु चउदस तसेसु ।
 जोए तेरस वेए तिकसाए नव दस य लोभे ॥२८ ॥
 मइसुयओहिदुगे नव, अजयाइ जयाइ सत्त मणनाणे ।
 केवलदुगंमि दो तिन्नि दो व पढमा अनाणतिगे ॥२९॥
 सामाइयठेएसु, चउरो परिहार दो पमत्ताई ।
 देससुहुमे सगं पढमचरमचउ अजयअहखाए ॥३०॥
 वारस अचक्खुचक्खुसु, पढमा लेसास तिसु छ दुस सत्त
 सुक्काए तेरस गुणा, सव्वे भव्वे अभव्वेगं ॥ ३१ ॥
 वेयगखइगउवसमे, चउरो एकारसठ तुरियाइं ।
 सेसतिगे सछाणं, सन्निसु चउदस असन्निसु दो ॥३२
 आहारगेसु पढमा, तेरसऽणाहारगेसु पंच इमे ।
 पढमंतिमदुगश्चविरय, गइयाइसु इय गुणटाणा ॥३३॥
 सच्चं मोसं मीसं, असच्चमोसं मणं तह वई य ।
 उरखविउंवाहारा; मीसा कम्मइगमिय जांगा ॥३४॥
 एकारस सुरनारयगईसु आहारउरलदुगरहिया ।

जोगा तिरियगईए, तेरस आहारगदुग्णा ॥ ३५ ॥
नरगइपणिंदितसतणु नर अपुम कसायमइसुओहिदुगो
अचक्खुछल्लेसा भवसम्मदुगसत्तिसु य सव्वे ॥३६॥
एगिंदिएसु पंच उ, कम्मइगविउव्विउरलजुयलाणि ।
कम्मुरलदुगं अंतिमभासा विगलेसु चउरोत्ति ॥ ३७ ॥
कम्मुरलदुगं थावरकाए वाए विउव्विजुयलजुयं ।
पढमंतिममणवइदुगकम्मुरलदु केवलदुगंमि ॥३८॥
थीवेअन्नाणोवसमअजयसासणअभव्वमिच्छेसु ।
तेरस मणवइमणनाणठेयसामइयचक्खुसु य ॥३९॥
परिहारसुहुम्मे नव, उरलवइमणा ते सकम्मुरलमिस्सा ।
अहखाए सविउवा,मीसे देसे सविउविदुगा ॥४०॥
कम्मुरलविउव्विदुगाणि चरमभासा य छ उ असत्तिमि
जोगा अकम्मगाहारगेसु कम्मणमणाहारे ॥ ४१ ॥
नाणं पंचविहं तह, अन्नाणतिगं ति अछ सागारा ।
चउदंसणमणगारा, चारस जियलक्खणुवओगा ॥४२॥
मणुयगईए वारस, मणकेवलदुरहिया नवन्नासु ।
थावरइगिवितिइंदिसु, अचक्खुदंसणमनाणदुगं ॥४३॥

चक्खुजुयं चउरिंदिसु, तं चिय वारसंपणिंदितसकाए ।
 जोए वेए सुक्काए भवसन्नीसु आहारे ॥४४॥
 केवलदुगहीणा दस, कसायपणलेसुचक्खुचक्खूसु ।
 केवलदुगे नियदुगं, खइगे नव नो अनाणतिगं ॥४५॥
 पढमचउनाणसंजमवेयगउवसमियओहिदंसेसु ।
 नाणचउदंसणतिगं, केवलदुजुयं अहक्खाए ॥४६॥
 नाणतिगदंसणतिगं, देसे मीसे अनाणमीसं तं ।
 केवलदुगमणपजववजा अस्संजयंमि नव ॥४७॥
 अन्नाणतिगअभव्वे, सासणमिच्छे य पंच उवओगां ।
 दो दंसण तियनाणा, ते अविभंगा असन्निम्मि ॥४८॥
 मणनाणचक्खुरहिया, दस उ अणाहारगेषु उंवओगां ।
 इय गइयाइसु नयमयनाणत्तमिणं तु जोगेषु ॥४९॥
 तणुवइमणेषु कमसो, दुचउतिपंचा दुअच्छउचउरो ।
 तेरसदुवारतेरस, गुणजीवुवओगजोग ति ॥ ५० ॥
 लेसा उ तिन्नि पढमा, नारगविगलग्गिवाउकाएसु ।
 एगिंदिभूतरूदगअसन्निंसुं पढमिया चउरो ॥५१॥
 केवलजुयलअहक्खायत्तहुमरागेषु सुक्खलेसेव ।

लेसासु ठसु संठाणं, गइयाइसु छावि सेसेसु ॥५२॥
 गइयाइसु अप्पवहुं, भणामि सामन्नओ सठाणे वि ।
 नरनिरयदेवतिरिया, थोवा दुअसंखणंतगुणा ॥५३॥
 पणचउतिदुएगिंदी, थोवा तिन्नि अहिया अणंतगुणा ।
 तसतेउपुढविजलवाउहरियकाया पुण कमेणं ॥५४॥
 थोवा असंखगुणिया, तिन्नि विसेसाहिया अणंतगुणा ।
 मणवयणकायजोगी' थोवा संखगुणि अणंतगुणा ॥५५॥
 पुरिसेहिंतो इत्थी, संखेज्जगुणा नपुंसणंतगुणा ।
 माणी कोही मायी, लोभी कमसो विसेसहिया ॥५६॥
 मणपज्जविणो थोवा, ओहीनाणी तओ असंखगुणा ।
 मइसुयनाणी तत्तो, विसेसअहिया समा दो वि ॥५७॥
 विव्भंगिणो असंखा, केवलनाणी तओ अणंतगुणा ।
 तत्तोऽणंतगुणा दो, मइसुयअन्नाणिणो तुल्ला ॥५८॥
 सुहुमपरिहारअहखायठेयसामइयदेसजइअजया ।
 थोवा संखेज्जगुणा, चउरो अस्संखणंतगुणा ॥५९॥
 इय ओहिचक्खुकेवलअचक्खुदंसी कमेण विन्नेया !
 थोवा अस्संखगुणा, अणंतगुणिया अणंतगुणा ॥६०॥

सुक्का पम्हा तेऊ, काऊ नीला य किण्हलेसा य ।
 थोवा दोऽसंखगुणाऽणंतगुणा दो विसेसहिया ॥६१॥
 थोवा जहन्नजुत्ताणंतयतुल्ल ति इह अभव्वजिया ।
 तेहिंतोऽणंतगुणा, भव्वा निघाणमणरिहा ॥६२॥
 सासणउवसमियमिस्सवेयगक्खइयमिच्छदिट्ठीओ ।
 थोवा दो संखगुणा, असंखगुणिया अणंता दो ॥६३॥
 सन्नी थोवा तत्तो अणंतगुणिया असन्निणो होंति ।
 थोवाणाहारजिया, तदसंखगुणा सआहारा ॥६४॥
 मिच्छे सव्वे छ अपज्ज सन्निपज्जत्तगो य सासाणे ।
 सम्मे दुविहो सन्नी, सेसेसुं सन्निपज्जत्तो ॥६५॥
 इय जिणटाणा गुणठाणएसु जोगाइ वोच्छमेत्ताहे ।
 जोगाहारदुगूणा, मिच्छे सासण अविरए य ॥६६॥
 उरलविउव्वइमणा, दस मीसे ते विउव्विमीसजुया ।
 वेसजए एक्कारस, साहारदुगा पमत्ते ते ॥६७॥
 एक्कारस अपमत्ते, मणवइआहारउरलवेउव्वा ।
 अप्पुवाइसु पंचसु, नव ओरावो मणवई य ॥६८॥
 चरमाइममणवइदुगकम्मुरलदुगं ति जोगिणो सत्त ।

गयजोगो य अजोगी, वोच्छमओ वारसुवञ्चोगे ॥६९॥
 अचक्खुचक्खुदंसणमन्नाणतिगं च मिच्छसासाणे ।
 अविरयसम्मे देसे, तिनाणदंसणतिगं तिठ उ ॥७०॥
 मीसे ते च्चिय मीसा, सत्त पमत्ताइसुं समणनाणा ।
 केवलियनाणदंसणउवओगा जोगजोगीसु ॥७१॥
 सासणभावे नाणं, विउव्विगाहारगे उरलमिस्सं ।
 नेगिंदिसु सासाणो, नेहाहिगयं सुयमयंपि ॥७२॥
 लेसा तिन्नि पमत्तं, तेउपम्हा उ अप्पमत्तंता ।
 सुक्का जाव सजोगी, निरुद्धलेसो अजोगि त्ति ॥७३॥
 वंधस्स मिच्छअविरइकसायजोग त्ति हेयवो चउरो ।
 पंच दुवालस पणुवीस पनरस कमेण भेषा सिं ।
 आभिग्गहियं अणभिग्गहं च तह अभिनिवेसियं चैव ।
 संसइयमणाभोगं, मिच्छत्तं पंचहा एवं ॥७५॥
 वारसविहा अविरई, मणइंदियअनिपमो छकायवहो ।
 सोलस नव य कसाया, पणुवीसं पन्नरस जोगा ॥७६॥
 पणपन्नपन्नतियछहिय, चत्तउणचत्तछचउदुगवीसा ।
 सोलसदसंनवनवसत्त हेउणो न उ अजोगिम्मि ॥७७॥

तो नाणदंसणावरणवेयणीयाणि, मोहणिज्जं च ।
 आउयनामं गोयंतरायमिइ अठ कम्माणि ॥७८॥
 सत्तट्ठेगबंधा संतुदया अठसत्त चत्तारि ।
 सत्तछपंचदुगं, उदीरणाठाणसंखेयं ॥७९॥
 अपमत्तंता सत्तट्ठ मीसअप्पुव्वायरा सत्त ।
 वंधंति छ सुहुमो एग मुवरिमाबंधगोऽजोगी ॥८०॥
 जा सुहुमो ता अट्ठ वि, उदए संते य हेअंति पयडीओ
 सत्तट्ठुवसंते खीणि सत्त चत्तारि सेसेसु ॥८१॥
 सत्तट्ठ पमत्तंता, कम्मे उइरिति अठ मीसो उ ।
 वेयणिओउ विणा छ उ, अपमत्तअप्पुव्वअनियट्ठी ॥८२॥
 सुहुमो छ पंच उइरेइ पंच उवसंतु पंच दो खीणो ।
 जोगी उ नामगोए, अजोगि अणुदीरगो भयवं ॥८३॥
 उवसंतजिणा थोवा संणेज्जगुणा उ खीणमोहजिणा ।
 सुहुमनियदिनियट्ठी, तिद्धि वि तुद्धा विसेसहिया ॥८४॥
 जोगिअपमत्तइयरे, संखगुणा देससासणा मिस्सा ।
 अविरयअजोगिमिच्छा, असंख चउरो दुवेऽणंता ॥८५॥

जिणवल्लहोवणीयं, जिणवयणा मयसमुद्धविदुमिमं ।
 हियकंखिणो बुहजणा निसुणंतु गुणंतु जाणंतु ॥८६॥

॥ समाप्तोऽयं जिणवल्लभगणिप्रणीतः
 पदशीतिनामा चतुर्थः कर्मग्रन्थः ॥

॥ अहंम ॥

श्रीमच्छिवशर्मसूरीश्वरसन्तुधः

॥ श्रीबन्धशतकर्नामा पञ्चमः
 कर्मग्रन्थः ॥

अरहन्ते भगवन्ते अणुत्तरपरक्कमे पणमिऊणं ।
 यन्धसंयगे निवद्धं संगहमिणमो पवक्खामिं ॥ १ ॥

सुणह इह जीवगुणसन्निपसु ठाणेषु सारजुत्ताओ ।
 वोच्छं कइवइयाओ गाहाओ दिट्ठिवायाओ ॥ २ ॥
 उवओगाजोगविही, जेसु अ ठाणेषु जत्तिया अत्थिं ।
 जप्पच्चइओ वन्धो, होइ जहा जेसु ठाणेषु ॥३॥
 वन्धं उदयमुदीरणविहिं च तिन्हं पि तेसि संजोगं ।
 वन्धविहाणे य तथा किंचि समासं पवक्खामि ॥४॥
 तिरियगतीए चोइस हवंति सेसासु जाण दो दो उ ।
 संग्गणठाणेषेवं, नेयाणि समासठाणाणि ॥५॥
 एक्कारसेसु तिय तिय दोसु चउक्कं च वारसेक्कम्मि ।
 जीवसमासेसेवं उवओगविही मुणेयवो ॥६॥
 नवसु चउक्के एक्के जोगा एगो य दोन्नि पन्नरस ।
 तवभवगएसु एए भवन्तरगएसु काओगा ॥७॥
 उवओगा जोगविही जीवसमासेसु वन्निया एवं ।
 एत्तो गुणेहि सह परिगयाणि ठाणाणि मे सुणसु ॥८॥
 मिच्छदिट्ठीसासणमिस्से अजए य देसविरए य ।
 नव संजएसु एवं चोइस गुणनामठाणाणि ॥९॥
 सुरनारएसु चत्तारि होन्ति तिरिएसु जाण पंचेव ।

मणुयगईए उ तहा चोइस गुणनामठाणाणि ॥१०॥
 दोषहं पञ्च उ छच्चेव दोसु एगम्मि हेति वामिस्सा ।
 सत्तुवओगा सत्तसु दो चेव य दोसु ठाणेसु ॥ ११॥
 तिसु तेरस एगे दस नव जोगा हुंति सत्तसु गुणेसु ।
 एक्कारस य पमत्ते सत्त सजोगे अजोगेक्कं ॥१२ ॥
 तेरस चउसु दसेगे पंचसु नव दोसु हेति एक्कारा ।
 एक्कमि सत्त जोगा अजोगि ठाणं हवइ एक्कं ॥१३॥
 चउ पच्चइओ वंधो पढमे उवरिमतिगे तिपच्चइओ ।
 मीमगवीओ उवरिमदुगं च देसिक्कदेसम्मि ॥१४॥
 उवरिछपंचगे पुण दुपच्चओ जोगपच्चओ तिण्हं ।
 सामन्नपच्चया खलु अछण्हं हेति कम्माणं ॥१५॥
 पढणीयत्थंतराइय उववाए तप्पथोसनिहवणे ।
 आवरणदुगं भूओ वंधइ अच्चासणाए य ॥१६॥
 भूयाणुकंपवयजोगउज्जथो खंतिदाणगुरुभत्तो ।
 वंधइ भूओ सायं विवरीए वंधए इयरं ॥१७॥
 अरहंत सिद्ध चेइय तव सुयगुरुसाहुसंघपडणीओ ।
 वंधइ दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेणं ॥१८॥

तिब्बकसाओ बहुमोहपरिणओ रागदोससंजुत्तो ।
 वंधइ चरित्तमोहं दुविहंपि चरित्तगुणघाइं ॥१९॥
 मिच्छदिट्ठी महारंभपरिग्गहो तिब्बलोहनिस्सीलो ।
 निरयाउयं निबंधइ पावमई रुइपरिणामो ॥१०॥
 उम्मग्गदेसओ मग्गनासओ गूढंहिययमाइल्लो ।
 सढंसीलो-य ससल्लो तिरियाउं वंधए जीवो ॥२१॥
 पयईइ तणुकसाओ दाणरओ सीलसंजमविहूणो ।
 मज्झिमगुणेहि जुत्तो मणुयाउं वंधए जीवो ॥२२॥
 अणुवयमहवएहि य वालतवाकामनिज्जराए य ।
 देवाउयं निबंधइ सम्मदिट्ठी उ जो जीवो ॥२३॥
 मणवयणकायवंको माइल्लो गारवेहि पडिवद्धो ।
 असुहं वंधइ नामं तप्पडिवक्खेहि सुहनामं ॥२४॥
 अरहंताइसु भत्तो सुत्तरुई पयणुमाण गुणपेही ।
 वंधइ उच्चागोयं विवरीए वंधइ अ इयरं ॥२५॥
 पाणिवहाईसु रथो जिणपूयामोक्खमग्गविग्घकरो ।
 अज्जेइ थंतरायं न लहइ जेणिच्छियं लाभं ॥२६॥
 छसु ठाणगेसु सत्तठविहं वंधंति तिसु य सत्त विहं ।

छविहमेगो तिन्नेगबंधगाऽबंधगो एगो ॥२७॥
 सत्तच्छविहठ (विह)बंधगा वि वेयंति अठगं नियमा ।
 एगविहबंधगा पुण चत्तारि व सत्त वेयंति ॥ २८॥
 मिच्छादिष्ठिप्पभिई अठ उईरंति जा पमत्तो ति ।
 अद्धावलियासेसे तहेव सत्तेवुदीरिंति ॥ २९॥
 वेयणियाउयवज्जे छक्कम्म उदीरयंति चत्तारि ।
 अद्धावलियासेसे सुहुमो उइरेइ पंचेव ॥३०॥
 वेयणियाउयमोहे वज्ज उईरेति दोन्नि पंचेव ।
 अद्धावलियासेसे नामं गोयं च अकसाई ॥३१॥
 उइरेइ नामगोए ठक्कम्मविज्जिया सयोगी उ ।
 वटंतो उ अजोगी न किंचि कम्मं उईरेइ ॥३२॥
 अणुदीरंत अयोगी अणुहवइ चउविहं गुणविसालो ।
 इरियावहं न बंधइ आसन्नपुरक्खडो रंतो ॥३३॥
 इरियावहमाउत्ता चत्तारि व सत्त चेव वेयंति ।
 उइरिंति दोन्नि पंच व संसारगयम्मि भयणिज्जो ॥३४॥
 छप्पंच उईरंतो बंधइ सो छविहं तणुकसाओ ।
 अट्टविहमणुहवंतो सुक्कज्जाणे डहइ कम्मं ॥३५॥

अष्ठविहं वेयंता छव्विहमुइरंति सत्त वधंति ।
 अनियट्ठी य नियट्ठी अपमत्तजई य ते तिन्नि ॥३६॥
 अवसेसट्ठविहकरा वेयंति उदीरया वि अट्ठण्हं ।
 सत्तविहगा वि वेइंति अठ्ठगमुईरणे भज्जा ॥३७॥
 नाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेधणीयमोहणियं ।
 आउयनामं गोयं तहंतरायं च पयडीओ ॥३८॥
 पंच नव दोन्नि अट्ठावीसा चउरो तहेव वायाला ।
 दोन्नि य पंच य भणिया पयडीओ उत्तरा चेव ॥३९॥
 साइअणाईधुवअद्धुवो य वंधो उ कम्मछक्कस्स ।
 तइए साइगसेसो, अणाइधुवसेसओ आज ॥४०॥
 उत्तरपगईसु तहा धुवियाणं वन्धचउविगप्पोय ।
 साई अद्धुवियाओ सेसा परियत्तमाणीओ ॥४१॥
 चत्तारि पगइठाणाणि तिद्धि भूगारअप्पतरगाणि ।
 मूलपगडीसु एवं अवट्ठिओ चउसु नायव्वो ॥४२॥
 तिद्धि दस अट्ठठाणाणि दंसणावरणमोहनामाणं ।
 एत्थ य भूओगारो सेसेसेगं हवइ ठाणं ॥४३॥
 सव्वासिं पयडीणं मिच्छद्विट्ठीउ वंधगोभणिओ ।

तित्थयराहारदुगं मोत्तूणं सेसपयडीणं ॥४४॥
 सम्मत्तगुणनिमित्तं तित्थयरं संजमेण आहारं ।
 वंधंति सेसियाओ मिच्छत्ताई हि हेज्जहिं ॥४५॥
 सोलसमिच्छत्तंता पणुवीसं हुंति सासर्णताओ ।
 तित्थयराउदुसेसा अविरइयंता उ मीसस्स ॥४६॥
 अविरइयन्ताओ दस विरयाविरयंतिया उ चत्तारि ।
 छच्चेव पमत्तंता एगा पुण अप्पमत्तंता ॥४७॥
 दोतीसं चत्तारि य भागे भागेषु संखसण्णाए ।
 चरिमे य जहासंख अपुव्वकरणंतिया हेंति ॥४८॥
 संखेज्जइमे सेसे आदत्ता घायरस्स चरिमंते ।
 पंचसु एक्केक्कंतो सुहुमंता सोलस हवंति ॥ ४९ ॥
 सायंतो जोगंतो एत्तो परओ उ नत्थि वंधो त्ति ।
 नायव्वो पयडीणं वन्धस्संतो अणंतो य ॥ ५० ॥
 गइयाइएसु एवं तप्पओगाण मोहसिद्धाणं ।
 सामित्तं नेयव्वं पयडीणं ठाणमासज्ज ॥ ५१ ॥
 सत्तरि कोडाकोडी अयराणं होइ मोहणीयस्स ।
 तीसं आइतिगंतो वीसंनामे य गोए य ॥ ५२ ॥

अछविहं वेयंता छविहमुइरंति सत्त वधंति ।
 अन्नियट्टी य नियट्टी अपमत्तजई य ते तिन्नि ॥३६॥
 अवसेसट्टविहकरा वेयंति उदीरया वि अट्टण्हं ।
 सत्तविहगा वि वेइंति अछगमुईरणे भज्जा ॥३७॥
 नाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं ।
 आउयनामं गोयं तहंतरायं च पयडीओ ॥३८॥
 पंच नव दोन्नि अट्टावीसा चउरो तहेव वायाला ।
 दोन्नि य पंच य भणिया पयडीओ उत्तरा चेव ॥३९॥
 साइअणाइंधुवअद्धुवो य वंधो उ कम्मलक्कस्स ।
 तइए साइगसेसो, अणाइंधुवसेसओ आऊ ॥४०॥
 उत्तरपगईसु तहा धुवियाणं वन्धचउविगप्पोय ।
 साई अद्धुवियाओ सेसा परियत्तमाणीओ ॥४१॥
 चत्तारि पगइठाणाणि तिन्नि भूगारअप्पतरगाणि ।
 मूलपगडीसु एवं अवच्छिओ चउसु नायव्वो ॥४२॥
 तिन्नि दस अट्टाणाणि दंसणावरणमोहनामाणं ।
 एत्थ य भूओगारो सेसेसेगं हवइ ठप्पं ॥४३॥
 सव्वासिं पयडीणं मिच्छदिट्टीउ धंधगोभणिओ ।

छण्हं सुरनेरइयां ईसाणता सुरा तिण्हं ॥ ६१ ॥
 सेसाणं चउगइयां ठिइमुक्कोसं करेति पयडीणं ।
 उक्कोससंकिलेसेण ईसिअहमज्झिमेणावि ॥ ६२ ॥
 आंहारगतिथयरं नियट्ठि अनियट्ठि पुरिससंजलणं ।
 वन्धइ सुहुमसरांगो सायंजसुच्चावरणविग्घं ॥ ६३ ॥
 छण्हमसण्णी कुणइ जहन्नठिइमाउगाणमन्नंयरो ।
 सेसाणं पञ्जत्तो वायर एगिंदियविसुद्धो ॥ ६४ ॥
 यांतीणं अजहन्नोणुक्कोसो वेयणीयनामाणं ॥ ।
 अजहन्नमणुक्कोसो गोणं अणुभागवन्धंमि ॥ ६५ ॥
 साई अणाई धुवअद्धुवो य वन्धो उ मूलपयडीणं ।
 सेसम्मि उ दुविगप्पो आउचउक्के वि दुविगप्पो ॥ ६६ ॥
 अछण्हमणुक्कोसो तेयालाणमजहन्नगो वन्धो ।
 नेओ हि चउविगप्पो सेसतिगे होइ दुविगप्पो ॥ ६७ ॥
 उक्कोसमणुक्कोसो जहन्नमजहन्नगोवि अणुभागो ।
 साई अद्धुववन्धो पयडीणं होइ सेसाणं ॥ ६८ ॥
 सुभंपयडीणं विसोहीणं तिच्चमसुभाण संकिलेसेणं ।
 विवरीणं उ जहन्नो अणुभागो सवपयडीणं ॥ ६९ ॥

तेत्तीसुदही आउंमि केवला होइ एवमुक्कोसा ।
 मूल पयडीण इत्तो ठिई जहन्ना निसामेह ॥ ५३ ॥
 मूलठिईण जहण्णो सत्तण्हं साइयाइओ वन्धो ।
 सेसतिगे दुविगप्पो आउचउक्केवि दुविगप्पो ॥ ५४ ॥
 अट्टारस पयडीणं अजहन्नो वन्ध चउविगप्पो उ ।
 साइ अ अधुववन्धो सेसतिगे होइ बोधव्वो ॥ ५५ ॥
 उक्कोसाणुक्कोसो जहन्नमजहन्नगो य ठिइवन्धो ।
 साईयअधुववन्धो सेसाणं होइ पयडीणं ॥ ५६ ॥
 सव्वासिंपि ठिईओ सुभासुभाणं पि हेअंति असुभाओ
 माणुसतिरिक्खदेवाउयं च मोत्तूण सेसाणं ॥ ५७ ॥
 सव्वच्छिइणमुक्कोसगो उ उक्कोससंकिलेसेगं ।
 विवरीए उ जहन्नो आउगतिगवज्जसेसाणं ॥ ५८ ॥
 सव्वुक्कोसठिईणं मिच्छद्विट्ठी उ वन्धगो भणिओ ।
 आहारगतित्थयरं देवाउं वावि मोत्तूणं ॥ ५९ ॥
 देवाउयं पमत्तो आहारगमप्पमत्तविरओ उ ।
 तित्थयरं च मणूसो अविरयसम्मो समज्जेइ ॥ ६० ॥
 पत्तरसण्हं ठिइमुक्कोसं वन्धंति मणुयतेरिच्छा ।

छण्हं सुरनेरइयां ईसाणता सुरा तिण्हं ॥ ६१ ॥
 सेसाणं चउंगइया ठिइमुक्कोसं करंति पयडीणं ।
 उक्कोसंसंकिलेसेणं ईसिअहमज्झमेणावि ॥ ६२ ॥
 आहारगंतित्थंवरं नियट्ठि अनियट्ठि पुरिससंजलणं ।
 वन्धइं सुहुंसं सरागो सायंजसुच्चावरणविग्घं ॥ ६३ ॥
 छण्हमसण्णी कुणइं जहन्नठिइमाउगाणमच्चर्यरो ।
 सेसाणं पञ्जंतो वायर एगिंदियविसुद्धो ॥ ६४ ॥
 घांतीणं अजहन्नोणुक्कोसो वेयणीयनामाणं ॥ ।
 अजहन्नमणुक्कोसो गोए अणुभागवन्धमि ॥ ६५ ॥
 साई अणाई धुवअद्धुवो यं वन्धो उ मूलपयडीणं ।
 सेसम्मि उ दुविगप्पो आउचउक्के वि दुविगप्पो ॥ ६६ ॥
 अछण्हमणुक्कोसो तेयालाणमजहन्नगो वन्धो ।
 नेओ हिं चउविगप्पो सेसतिगे होइ दुविगप्पो ॥ ६७ ॥
 उक्कोसमणुक्कोसो जहन्नमजहन्नगोवि अणुभागो ।
 साई अद्धुववन्धो पयडीणं होइ सेसाणं ॥ ६८ ॥
 सुभपयडीणं विसोहीए तिवमसुभाण संकिलेसेणं ।
 विवरीए उ जहन्नो अणुभागो सबपयडीणं ॥ ६९ ॥

तेत्तीसुदही आउंमि केवला होइ एवमुक्कोसा ।
 मूल पयडीण इत्तो ठिई जहन्ना निसामेह ॥ ५३ ॥
 मूलठिईण जहण्णो सत्तण्हं साइयाइओ वन्धो ।
 सेसतिगे दुविगप्पो आउचउक्केवि दुविगप्पो ॥ ५४ ॥
 अट्टारस पयडीणं अजहन्नो वन्ध चउविगप्पो उ ।
 साइ अ अधुववन्धो सेसतिगे होइ बोधव्वो ॥ ५५ ॥
 उक्कोसाणुक्कोसो जहन्नमजहन्नगो य ठिइवन्धो ।
 साईयअधुववन्धो सेसाणं होइ पयडीणं ॥ ५६ ॥
 सव्वासिंपि ठिईओ सुभासुभाणं पि हेअंति असुभाओ
 माणुसतिरिक्खदेवाउयं च मोत्तूण सेसाणं ॥ ५७ ॥
 सव्वठिइणमुक्कोसगो उ उक्कोससंकिळेसेगं ।
 विवरीए उ जहन्नो आउगतिगवज्जसेसाणं ॥ ५८ ॥
 सव्वुक्कोसठिईणं मिच्छदिट्ठी उ वन्धगो भणिओ ।
 आहारगतित्थयरं देवाउं वावि मोत्तूणं ॥ ५९ ॥
 देवाउयं पमत्तो आहारगमप्पमत्तविरओ उ ।
 तित्थयरं च मणूसो अविरयसम्मो समज्जेइ ॥ ६० ॥
 पत्तरसण्हं ठिइमुक्कोसं वन्धंति मणुयतेरिच्छा ।

छणहं सुरनेरइयां ईसाणंता सुरा तिणहं ॥ ६१ ॥
 सेसाणं चउंगइया ठिइमुक्कोसं करेति पयडीणं ।
 उक्कोससंकिलेसेण ईसिअहमज्झिमेणावि ॥ ६२ ॥
 आंहारगंतिथयरं नियट्ठि अनियट्ठि पुरिससंजलणं ।
 वन्धइ सुहुमंसरांगो सायजसुञ्चावरणविग्घं ॥ ६३ ॥
 छणहमसण्णी कुणइ जहन्नठिइमाउगाणमन्नंयरो ।
 सेसाणं पज्जंतो वायर एगिंदियविसुद्धो ॥ ६४ ॥
 घांतीणं अजहन्नोणुक्कोसो वेयणीयनामाणं ॥ ।
 अजहन्नमणुक्कोसो गोए अणुभागवन्धंमि ॥ ६५ ॥
 साई अणाई धुवअंहुवो य वन्धो उ मूलपयडीणं ।
 सेसम्मि उ दुविगप्पो आउचउक्के वि दुविगप्पो ॥ ६६ ॥
 अंछणहमणुक्कोसो तेयालाणमजहन्नगो वन्धो ।
 नेओ हि चउविगप्पो सेसतिगे होइ दुविगप्पो ॥ ६७ ॥
 उक्कोसमणुक्कोसो जहन्नमजहन्नगोवि अणुभागो ।
 साई अंहुववन्धो पयडीणं होइ सेसाणं ॥ ६८ ॥
 सुभपयडीणं विसोहीए तिवमसुभाण संकिलेसेणं ।
 विवरीए उ जहन्नो अणुभागो सवपयडीणं ॥ ६९ ॥

वायालं पि पसत्था विसोहिगुणउक्कडस्स तिब्बाओ ।
 वासीइमप्पसत्था मिच्छुब्बुडसंकिलिट्ठस्स ॥ ७० ॥
 आयव नामुज्जोयं माणुसतिरियाउयं पसत्थासु ।
 मिच्छस्स हुंति तिब्बा सम्मदिट्ठिस्स सेसाओ ॥ ७१ ॥
 देवाउमप्पमंतो तिब्बं खवगा करेन्ति वत्तीसं ।
 वन्धंति तिरियमणुया एक्कारसमिच्छभावेण ॥ ७२ ॥
 पंच सुरसम्मदिठी सुरमिच्छा तिन्नि जयइ पयडीओ ।
 उज्जोयं तमतमगा सुरनेरइया भवे तिण्हं ॥ ७३ ॥
 सेसाणं चउगइया तिबणुभागं करेन्ति पयडीणं ।
 मिच्छदिठी नियमा तिबकता उक्कडा जीवा ॥ ७४ ॥
 चोदससरागचरिमे पंचमनियट्ठि नियट्ठिक्कारं ।
 सोलसमं दुणुभागा संजमगुणपत्थिओ जयइ ॥ ७५ ॥
 आहारमप्पमत्तो पमत्तसुद्धो उ अरइसोगाणं ।
 सोलस माणुसतिरिया सुरनारगतमतमा तिन्नि ॥ ७६ ॥
 एगिंदियथावरयं मंदणुभागं करेति ति गइया ।
 परियत्तमाणमाज्झमपरिणामा नेरइयवजा ॥ ७७ ॥
 आसोहम्मायावं अवरियमणुओ थ जयइ तित्थयरं ।

चउंगइ उक्कड मिच्छा पन्नरसदुवे विसोहीए ॥७८॥
 सम्मदिही मिच्छोव अठ परियत्तमज्झिमो जयइ ।
 परियत्तमाणमज्झिममिच्छदिही उ तेवीसं ॥ ७९ ॥
 केवलनाणावरणं दंसणल्लकं च मोहवारसगं ।
 ता सव्वघाइसन्ना हवंति मिच्छत्तवीसइमं ॥ ८० ॥
 नाणावरणचउक्कं दंसणतिगमंतराइए पंच ।
 पणुवीसदेसघाई संजलणा नोकसाया य ॥ ८१ ॥
 अवसेया पयडीओ अघाइया घाइयाहि पलिभागा ।
 ता एव पुन्नपावा सेसा पावा मुण्येयवा ॥ ८२ ॥
 आवरणदेसघायंतरायसंजलणपुरिससत्तरस ।
 चउविहभावपरिणया तिविह परिणया भवे सेसा ॥८३॥
 चउपच्च एग मिच्छत्त सोलस दुपच्चया य पणतीसं ।
 सेसा तिपच्चया खलु तिस्थयराहारवजाओ ॥ ८४ ॥
 पंचग छत्तिय छप्पंच दुन्नि पंचय त्वंति अट्टेव ।
 सरिराई फासंता, पयडीओ आणुपुवीए ॥ ८५ ॥
 अगुरुलहुपराघायोवघायउज्जोवआयवनिमेणं ।
 पत्तेयथिरसुभेयरनामाणि य पोग्गलविवागा ॥ ८६ ॥

आऊणि भवविवागा खित्तविवागा य आणुपुव्वीओ ।
 अक्खसेसा पयडीओ जीवविवागा मुणेयवा ॥ ८७ ॥
 एगपएसोगाढं सब्बपएसेहि कम्मणो जोग्गं ।
 वन्धइ जहुत्तहेडं साइयमणाइयं वावि ॥ ८८ ॥
 पंचरसपंचवन्नेहि संजुयं दुविहगंधचउफासं ।
 दवियमणंतपएसं सिद्धेहि अणंतगुणहीणं ॥ ८९ ॥
 आउयभागो थोवो नामे गोए समो तओ अहिओ ।
 आवरणमंतराए तुल्लो अहिओ य मोहं वि ॥ ९० ॥
 सब्बुवरि वेयणीए भागो अहिगो य कारणं किन्तु ।
 सुहदुक्खकारणत्ता ठिईविसेसेण सेसाणं ॥ ९१ ॥
 छणहंपि अणुक्कोसो पएसवन्धे चउव्विहो वन्धो ।
 सेसतिगे दुविगप्पो मोहाउय सब्बहिं चैव ॥ ९२ ॥
 तीसणहमणुक्कोसो उत्तरपयडीसु चउविहो वन्धो ।
 सेसतिगे दुविगप्पो सेसासुं चउविगप्पो वि ॥ ९३ ॥
 आउक्कस्स पएसस्स पंच मोहस्स सत्त ठाणाणि ।
 सेसाणि तणुक्कसाओ वन्धइ उक्कोसए जोगे ॥ ९४ ॥
 सुहुमनिगोयापज्जत्तगस्स पढमे जहन्नए जोगे ।

सत्तण्हं तु जहन्ना आउगवन्धे वि आउस्स ॥९५॥
 सत्तर सुहुमसरागो पंचगमनियट्टि संमगो नवगं ।
 अजई वीयकसाए देसजई तइयए जयइ ॥ ९६ ॥
 तेरस बहुप्पएसा सम्मो मिच्छो व कुणइ पयडीओ ।
 आहारमप्पमत्तो सेसपएसुक्कडं मिच्छो ॥ ९७ ॥
 सन्नी उक्कडजोगी पज्जत्तो पयडिवन्धमप्पयरो ।
 कुणइ पएसुक्कोसं जहन्नयं जाण विवरीयं ॥ ९८ ॥
 घोलणजोगि असन्नी वन्धइ चउ दुन्नि अप्पमत्तो य ।
 पंचासंजयसम्मो भवाइसुहुमो भवे सेसा ॥ ९९ ॥
 जोगा पयडिपएसं ठिइअणुभागं कसायओ कुणइ ।
 कालभवखित्तवेक्खो उदअओ सविवाग अविवागो ॥१००॥
 सेडिअसंखेज्जइमे जोगठाणाणि हुंति सब्वाइं ।
 तेसिमसंखेज्जगुणो पयडीणं संगहो सब्बो ॥ १०१ ॥
 तासिमसंखेज्जगुणा ठिइविसेसा हवंति नायब्बा ।
 ठिइबंधज्झवसाणाणि असंखगुणाणि एत्ताओ ॥१०२॥
 तेसिमसंखेज्जगुणा अणुभागे हुंति बंधठाणाणि ।
 एत्तो अणंतगुणिआ कम्मपएसा मुणेयव्या ॥१०३॥

अविभागपलिच्छेआ अणंतगुणिआ हवंति इत्तो य ।
 सुयपवरदिष्ठिवाए विसिष्ठमइत्थो परिकहंति ॥ १०४ ॥
 एसो बन्धसमासो पिंदुक्खेवेण वन्निओ कोवि ।
 कम्मप्पवायसुयसागरस्स निस्संदमेत्तो य ॥ १०५ ॥
 बन्धविहाणसमासो रइओ अप्पसुयमन्दमइणा उ ।
 संवन्धमोक्खनिउणा पूरेऊणं परिकहिंतु ॥१०६॥
 इयकम्मपयडिपगयं संखेबुद्धिट्टनिच्छियमहरथं ।
 जो उवजुंजइ बहुसो सो नाही वंधमोक्खरथं ॥१०७॥

॥ इति श्रीशतकनामा पञ्चमः
 कर्मग्रन्थः ॥

॥ अष्टम ॥

॥ श्रीचंद्रमहत्तराचार्यप्रणीतः

॥ सप्ततिकानामा षष्ठः

कर्मग्रन्थः ॥

सिद्धपण्णि महत्थं, वंधोदयसंतपयडिठाणाणं ।
 बुच्छं सुण संखेवं, नीसंदं दिट्ठिवायस्स ॥ १ ॥
 कइ वन्धंतो वेअइ, कइ कइ वा पयडिसंतठाणाणि ।
 मूळुत्तरपगईणं, भंगविगप्पा मुणोअव्व ॥ २ ॥
 अट्टविहसत्तछव्वन्धणसु अठेव उदयसंताइं ।
 एगविहे तिविगप्पो, एगविगप्पो अवन्धंमि ॥ ३ ॥
 सत्तट्टवन्धअट्टुदयसंत तेरससु जीवठाणेसु ।
 एगंमि पंच भंगा, दो भंगा हुंति केवल्लिणो ॥ ४ ॥
 थ्यछसु एगविगप्पो, छस्सु वि गुणसन्निणसु दु विगप्पा
 पत्तेयं पत्तेयं, वन्धोदयसंतकम्माणं ॥ ५ ॥
 पंच नव दुण्णिथ्यहावीसा चउरो तहेव वायाला ।

दुष्णि य पंच य भणिया, पयडीओ आणुपुव्वीए ॥६॥
 वंधोदयसंतंसा, नाणावरणंतराइए पंच ।
 वंधोवरमे वि तथा उदसंता हुंति पंचेव ॥ ७ ॥
 वंधस्स य संतस्स य, पगइट्टाणाइ तिन्नि तुल्लाइं ॥
 उदयट्टाणाइं दुवे, चउ पणगं दंसणावरणे ॥८॥
 वीयावरणे नवबंधएसु चउ पंच उदय नव संता ।
 छच्चउ वंधे चेंव, चउ वंधुदए छलंसा य ॥ ९ ॥
 उवरयबंधे चउपण, नवंस चउरुदय छच्च चऊसंता ।
 वेयणियाउअगोए, विभज्ज मोहं परं वुच्छं ॥१०॥
 (गोअम्मि सत्त भंगा, अछय भंगा हवंति वेयणिए ।
 पण नव नव पण भंगा,आउचउक्कवि कमसो उ ॥११॥
 वावीस इक्कवीसा, सत्तरसा तेरसेव नव पंच ।
 चउ तिग दुगं च इक्कं, वंधट्टाणाणि मोहस्स ॥ १२ ॥
 एक्कं च दो व चउरो, एत्तो एगाहिआ दसुक्कोसा ।
 ओहेण मोहणिज्जे, उदए ठाणाणि नव हुंति ॥१३॥
 अछगसत्तगच्छच्चउतिगदुगएगाहिआ भवे वीसा ।
 तेरस वारिक्कारस, एत्तो-पंचाइएकूणा ॥१४॥

संतस्स पयडिठाणाणि ताणि मोहस्स हुंति पन्नरस ।
 वन्धोदयसंते पुण, भंगविगप्पा बहू जाण ॥ १५ ॥
 छ्वावीसे चउ इगवीसे सत्तरस तेरसे दोदो ।
 नवबंधगे वि दुत्तिउ, एक्केक्कमओ परं भंगा ॥१६॥
 दस वावीसे नव इगवीसे सत्ताइ उदयठाणाइं ।
 छाई नव सत्तरसे, तेरे पंचाइ अठेव ॥ १७ ॥
 चत्तारिमाइ नवबंधएसु उक्कोस सत्तमुदयसा ।
 पंचविहवन्धगे पुण, उदओ दोणहं मुणेअव्वो ॥१८॥
 एत्तो चउ वन्धाइ, एक्केक्ककुदया हवंति सव्वे वि ।
 वन्धोवरमे वि तहा, उदयाभावे वि वा होजा ॥१९॥
 एकगळक्केकारस, दस सत्त चउक्क एकगं चेव ।
 एए चउवीस गया, चउवीस दुगेक्कमेक्कारा ॥२०॥
 नवतेसीइसएहिं, उदयविगप्पेहिं मोहिआ जीवा ।
 अउणुत्तरिसीआला, पयविंदसएहिं विन्नेआ ॥२१॥
 नवपंचाणउइसए, उदयविगप्पेहिं मोहिआ जीवा ।
 थउणत्तरिएगुत्तरि, पयविंदसएहिं विन्नेआ ॥ २२ ॥
 तिन्नेव उ वावीसे, इगवीसे थट्टवीस सत्तरसे ।

छचेव तेर नव वन्धएसु पंचेव ठाणाणि ॥ २३ ॥
 पंचविह चउव्विहेसु, छ छक्क सेसेणु जाण पंचेव ।
 पत्तेअं पत्तेअं, चत्तारि उ वंध वोच्छेओ ॥२४॥
 दसनवपन्नरसाइं, वंधोदयसंतपयडिठाणाइं ।
 भणिआणि मोहणिज्जे, इत्तो नामं परं वोच्छं ॥२५॥
 तेवीसपन्नवीसा, छवीसा अट्टवीस गुणतीसा ।
 तीसेगतीसमेक्कं, वंधठाणाणि नामस्स ॥ २६ ॥
 चउ पणवीसा सोलस, नव वाणउईसया य अडयाला
 षयालुत्तर छायालसया य एक्केक्कबंधविही ॥ २७ ॥
 वीसिगवीसा चउवोसिगाइ एगाहिआ उ. इगतीसा ।
 उदयठाणाणि भवे, नव अछ य हुंति नामस्स ॥२८॥
 एगवियालेक्कारस, तित्तीसा छस्सयाणि तित्तीसा ।
 चारससत्तरससयाणहिगाण विपंचसीईहिं ॥ २९ ॥
 अउणत्ती सेक्कारससयाहिगा सतरसपंचसठीहिं ।
 एक्केक्कगं च वीसादट्टुदयंतेसु उदयविही ॥३०॥
 त्तिदुनउई गुणनउई, अट्टच्छलसी असीई गुणसीई ।
 अट्टयछप्पन्नत्तरि, नव अछय नाम संताणि ॥३१॥

अठ य वारस वारस, बंधोदयसंतपयडिठाणाणि ।
 श्रोहेणाएसेण य, जत्थ जहासंभवं विभजे ॥३२॥
 नव पंचोदयसंता, तेवीसे पणवीस छवीसे ।
 अठ चउरठवीसे, नवसत्तिगुणतीस तीसम्मि ॥३३॥
 एगेगमेगतीसे, एगे एगुदय अट्ट संतंमि । -
 उवरयबंधे दस दस, वेयगसंतंमि ठाणाणि ॥ ३४ ॥
 तिविगप्पपगइट्टाणेहिं जीवगुणसन्निएसु ठाणेषु ।
 भंगा पउंजियवा, जत्थ जहा संभवो भवइ ॥ ३५ ॥
 तेरससु जीवसंखेवएसु नाणंतरायतिविगप्पो ।
 एगंमि तिविगप्पो, करणं पइ इत्थ श्रविगप्पो ॥३६॥
 तेरे नव चउ पणगं, नव संतेगम्मि-भंगमेकारो ॥
 वेअणियाउयगोए, विभज्ज मोहं परं वुच्छं ॥३७॥
 (पज्जत्तगसन्निअरे, अठ चउकं च वेगणिय भंगा ।
 सत्तग तिगं च गोए, जीवघाणेषु वत्तव्वा ॥३८॥
 पज्जत्तापज्जत्तग, समणे पज्जत्त अमण सेसेसु ।
 अट्टावीसं दसगं, नवगं पणगं च आउस्स ॥३९॥)
 अठसु पंचसु एगे, एग दुगं दस य मोह बंधगए ।

तिग चउ नव उदय गए, तिग तिग पन्नरस संतंमि ॥
 पण दुग पणगं पणचउ, पणगं पणगा हवंति तिण्णेव
 पणछप्पणगं छच्छप्पणगं अठ दसगं ति ॥४१॥

सत्तेव अपज्जत्ता, सामी तह सुहुम वायरा चेव ।
 विगलिदिआ य तिन्नि य, तह असन्नी य सन्नी य ॥४२॥
 नाणंतराय तिविहमवि, दससु दो हुंति दोसु ठाणेसु ।

मिच्छासाणे वीए, नव चउ पण नव य संतंसा ॥४३॥
 मिस्ताई नियट्ठी उ, छ चउ पण नव य संतकम्मंसा ।
 चउबंध तिगे चउ पण, नवंस दुसु जुअल छस्संता ॥४४॥
 उवसंते चउ पण नव, खीणे चउरुदय छच्च चउसंतं ।
 वेअणियाउयगोए, विभज्ज मोहं परं वुच्छं ॥ ४५ ॥

(चउ छस्सु दोन्नि सत्तसु, एगे चउगुणिसु वेअणिअभंगा
 गोए पण चउ दो तिसु, एगद्वसु दोन्नि एक्कंमि ॥४६॥
 अट्टच्छाहिगवीसा, सोलस वीसं च वारस छ दोसु ।
 दो चउंसु तीसु एक्कं, मिच्छाइसु आउए भंगा ॥४७॥
 गुणठाणगेषु अछसु, एक्किक्कं मोहबंधठाणेषु ।
 पंचानिअट्ठि ठाणे, बंधोवरमो परं तत्तो ॥ ४८ ॥

सत्ताइ दस उ मिच्छे, सासायणमीसए नबुक्कोसा ।
 छाई नव उ अविरए, देसे पंचाइ अछेव ॥ ४९ ॥
 विरए खओवसमिए, चउराई सत्त छच्च पुव्वंमि ।
 अनियद्विवायरे पुण, इक्कोव दुवे व उदयंसा ॥५०॥
 एगं सुहुमसरागो, वेएइ अवेअगा भवे सेत्ता ।
 भंगाणं च पमाणं, पुव्वुद्विट्ठेण नायव्वं ॥ ५१ ॥
 एक्के ठक्केक्कारे, सेव एक्कारसेव नव तिन्नि ।
 एए चउवीसगया, वार दुगे पंच इक्कंमि ॥ ५२ ॥
 वारसपणसट्टिसया, उदयविगप्पेहिं मोहिआ जीवा ।
 चुलसीई सत्तुत्तरि, पयविंदसएहिं विन्नेआ ॥ ५३ ॥
 (अछग चउ चउ चउरछगाय चउरो अ हुंति चउवीसा
 मिच्छाइ अणुव्वंता, वारस पणगं च अनिअट्टे ॥५४॥)
 जोगोवओगळेसाइएहिं गुणिआ हवंति कायव्वा ।
 जे जत्थ गुणहाणेसु; हेअंति ते तत्थ गुणकारा ॥५५॥
 अछट्ठी वत्तीसं, वत्तीसं सट्टिमेव वावन्ना ।
 चोअाल दोसु वीसा, मिच्छामाईसु सामन्नं ॥ ५६ ॥
 तिन्नेगे एगेगं, तिग मीसे पंच चउसु नियद्विए ॥

एक्कार वायरंमि उ, सुहुमे चउ तिन्नि उवसंते ॥५७
 छन्नव ठक्कं तिग सत्त, दुगं दुगतिग दुगं तिगट्ट चउ ।
 दुगछक्कचउ दुग पण चउ चउ, दुग चउ पणेग चउ ॥
 एगेगमठ एगेगमठ छउमत्थकेवल्लिणाणं ।

एगचऊएगचऊ, अट्टचउ दु छक्कमुदयंसा ॥ ५९ ॥
 (चउ पणवीसा सोलस, नव चत्तालासयाय वाणउइ ।
 वत्ती सुत्तर छायालसया मिच्छस्स वंधविही ॥६०॥

अठ सया चउसठी, वत्तीससयाय सासणे भेआ ।
 अठावीसाईसु, सव्वाणछाहिअ छन्नउइ ॥ ६१ ॥

एग चत्तिगार वत्तीस छसय इगतिसिगार नवनउइ
 सत्तरिगंसि गुत्तिस, चउद इगार चउसट्टि मिच्चुदया ॥
 वत्तीस दुत्तिअट्टय, वासीइ सया य पंच नव उदया ।
 वारहिआ तेवीसा, वावन्निहार ससयाय ॥ ६३ ॥)

दो छक्कठ चउक्कं, पण नव एक्कार छक्कगं उदया ।
 नेरइआईसु सत्ता, ति पंच एक्कारस चउक्कं ॥६४॥
 इगविगळिदिअ सगले, पण पंच य थट्ट वंधठाणाणि ।
 पण छक्केक्कारुदया, पण पण वारस य संताणि ॥६५

इय कम्मपगइछाणाइं सुट्ठु वन्धुदयसंतकम्माणं ।
 गइआइएहिं अठसु, चउप्पयारेण नेयाणि ॥ ६६ ॥
 (गइः इंदिए अ काए, जोए वेए कसाय नाणेश्च ।
 संजमदंसणलेसां, भव संमे सन्नि आहारे ॥ ६७ ॥
 संतपयपरूवणया, दव्वपमाणं च खित्तफुसणा य ।
 कालो य अंतरं भागभावे अप्पात्रहं चैव ॥ ६८ ॥)
 उदयस्सुदीरणाए, सामित्ताओ न विज्जइ विसेसो ।
 मोत्तूण य इगयालं, सेसाणं सव्वपयडीणं ॥ ६९ ॥
 नाणंतरायदसगं, दंसणनव वेयण्णिज्जमिच्छत्तं ।
 संमत्तं लोभवेश्चाउगाणि नव नाम उच्चं च ॥ ७० ॥
 मणुधगइ जाइ तस वायरं च पज्जत्त सुभगमाइज्जं ।
 जसकित्ती तित्थयरं, नामस्स हवंति नव एया ॥ ७१ ॥
 तित्थयराहारगविरहिआओ अज्झेइ सव्वपयडीओ ।
 मिच्छत्तवेश्चगो सासाणो गुणवीससेसाओ ॥ ७२ ॥
 छायालसेस मीसो, अविरयसम्मो तिआलपरिसेसा ।
 तेवन्नदेसविरओ, विरओ सगवन्नसेसाओ ॥ ७३ ॥
 इगुसहिमप्पमत्तो, वन्धइ देवाउअस्स इअरो वि ।

अष्टावणमपुव्वे, छप्पणं वा वि ठवीसा ॥ ७४ ॥
 वावीसा एगूणं, वन्धइ अठारसंतमनिअही ।
 सत्तरसुहुमसरागो, सायममोहो सजोगित्ति ॥७५॥
 एसो उ वन्धसामित्तओहो गइआइएसु वि तहेव ।
 ओहाओ साहिजा जत्थ जहा पयडिसव्भावो ॥७६॥
 तित्थयरदेवनिरआउगं च तिसु तिसु गईसु बोधव्वं ।
 अवसेसा पयडीओ, हव्वंति सव्वासु वि गईसु ॥७७॥
 पढमकसायचउक्कं, दंसणतिग सत्तगा वि उवसंता ।
 अविरयसम्मत्ताओ, जाव नियट्ठित्ति नायव्वा ॥७८॥
 (सत्त ८ नव य पनरस, सोलस अठारसेव इगवीसा ।
 एगाहि दु चउवीसा, पणवीसा वायरे जाण ॥७९॥
 सत्तावीसं सुहुमे, अठावीसं पि मोहपयडीओ ।
 उवसंतवीअरागे, उवसंता हुंति नायव्वा ॥८०॥)
 पढमकसायचउक्कं, इत्तो मिच्छत्तमीससम्मत्तं ।
 अविरयसम्मे देसे, पमत्ति अपमत्ति खीयंति ॥८१॥
 (अनिअट्ठिवायरे थीणगिट्ठित्तिगनिरयतिरिअनामाओ ।
 संखिज्जइमे सेसे, तप्पाओगाओ खीयंति ॥ ८२ ॥

एत्तो हणइ कसायडुगंपि पच्छा नपुंसगं इत्थी ।
 तो नोकसायच्छक्कं, तुहइ संजलणकोहम्मि ॥८३॥
 पुरिसं कोहे कोहं, माणे माणं च तुहइ सायाए ।
 मायं च तुहइ लोहे, लोहं सुहुमं पि तो हणइ ॥८४॥
 (खीणकसायदुचरिसे, निदा पयला च हणइ छउमत्थो ।
 आवरणमंतराए, छउमत्थो चरमसमयम्मि ॥८५॥)
 देवगइसहगयाओ, दुचरमसमयभवित्थंमि खीञ्चंति ।
 सक्किवागेअरनामा, नीआगोञ्चं पि तत्थेव ॥८६॥
 अन्नयरवेअणिज्जं, मणुआउअ उच्चगोय नवनामा ।
 वेएइ अजोगिज्जिणो, उक्कोसो जहन्न इक्कारं ॥८७॥
 मणुअगइ जाइ तस वायरं च पज्जत्तसुभगमाइज्जं ।
 जसक्किची तित्थयरं, नामस्स हवंति नव एआ ॥८८॥
 तच्चाणुपुविसहिआ, तेरस भवसिद्धिअस्स चरमंमि ।
 संतंसगमुक्कोसं, जहन्नयं वारस हवंति ॥८९॥
 मणुअगइसहगयाओ, भवखित्तविवागजिवविवागित्ति ॥
 वेअणियअन्नघरुच्चं, चरमभवियस्स खीयंति ॥९०॥
 अह सुइअसयलजगसिहरमरुवनिरुवमसहावसिद्धिसुहं

अनिहणमव्वावाहं, तिरयणसारं अणुहवंति ॥ ९१ ॥
 दुरहिगम निउण परमत्थ रुइर बहुभंग दिठ्ठिवायाओ
 अत्था अणुसरिअवा, बंधोदयसंतकम्माणं ॥ ९२ ॥
 जो जत्थ अपडिपुन्नो, अत्थो अप्पागमेण वद्धोवि ।
 तं खमिउण बहुसुआ, पूरेज्जणं परिकहंतु ॥ ९३ ॥
 (गाहग्गं सयरीए, चंदमहत्तर मयाणुसारीए ।
 टीगाइ नियमिआणं, एगूणा होइ नउईओ ॥ ९४ ॥)

॥ इति सप्ततिकानामा पठः
 कर्मग्रन्थः ॥

॥ अहं ॥

॥ अथ श्रीमच्छिवशर्मसूरीश्वर- प्रणीता कर्मप्रकृतिः ॥

॥ बन्धनकरणम् ॥

सिद्धं सिद्धत्थसुयं, वंदिय निद्धोयसव्वकम्ममलं ।
कम्मडुगस्स करणछमुदयसंताणि वोच्छामि ॥ १ ॥
बंधण१संकमणु २ वट्टणा य३अववट्टणा४उदीरणया५ ।
उवसामणा६निहत्ती७निकायणा ८ च च्चि करणाइं ॥२॥
विरियंतरायदेसक्खएण सव्वक्खएण वा लद्धी ।
अभिसंधिजमियरं वा, तत्तो विरियं सलेसस्स ॥३॥
परिणामालंघणगहणसाहणं तेण लद्धनामतिगं ।
कज्जव्भासन्नोन्नप्पवेसविसमीकयपएसं ॥ ४ ॥
अविभागवग्गफडुगअंतरठाणं अणंतरोवणिहा ।
जोगे परंपराबुद्धिसमयजीवप्पवहुगं च ॥ ५ ॥

पण्णायेयणच्छिन्ना, लोगासंखेज्जगप्पएससमा ।
 अविभागा एक्केक्के, हेतिं पएसे जहन्नेणं ॥६॥
 जेसिं पएसाण समा, अविभागा सब्वतो य थोवतमा
 ते वग्गणा जहन्ना, अविभागहिया परंपरठं ॥७॥
 सेढिअसंखिअमित्ता, फड्डगमेत्तो अणंतरा नरिथ ।
 जाव असंखा लोगा, तो वीयाई य पुव्वसमा ॥८॥
 सेढिथसंखिअमेत्ताइं, फड्डगाइं जहन्नयं ठाणं ।
 फड्डगपरिचुद्धिअओ, अंगुलभागो असंखतमो ॥ ९ ॥
 सेढिअसंखियभागं; गंतुं गंतुं हवंति दुगुणाइं ।
 पल्लासंखियभागो, नाणागुणहाणिठाणाणि ॥१०॥
 बुद्धीहाणिचउक्कं तम्हा कालोरथ अंतिमल्लीणं ।
 अंतोमुहुत्तमावलि असंखभागो य सेसाणं ॥ ११ ॥
 चउराई जावठगमित्तो जाव दुगं ति समयाणं ।
 पज्जत्तजहन्नाओ जावुक्कोसं ति उक्कोसो ॥ १२ ॥
 एगसमयं जहन्नं ठाणाणप्पाणि अद्दु समयाणि ।
 उभअओ असंखगुणियाणि समयसो ऊण ठाणाणि ॥१३॥
 सब्वरथोवो जोगो साहारणमुद्दमपढमसमयम्मि ।

वायरवियतियचउरमणसन्नपञ्जत्तजहन्नो ॥ १४ ॥
 आइदुगुक्कोसो सिं पञ्जत्तजहन्नगेयरे य कमा ।
 उक्कोसजहन्नियरो असमत्तियरे असंखगुणो ॥१५॥
 अमणाणुत्तरगेविज्जभोगभूमिगय तइयतणुगेसुं ।
 कमसो असंखगुणिओ सेसेसु य जोगु उक्कोसो ॥१६॥
 जोगेहिं तयणुरुवं परिणमइ गिणिहऊण पंच तणू ।
 पाउग्गे वालंबइ भासाणुमणत्तणे खंधे ॥ १७ ॥
 परमाणुसंखऽसंखाऽणंतपएसा अभवणंतगुणा ।
 सिद्धाणणंतभागो आहारगवग्गणा तितणू ॥१८॥
 अग्गहणंतरियाओ तेयगभासामणे य कम्मे य ।
 धुवअधुवअच्चित्तासुन्नाचउअंतरेसुप्पि ॥ १९ ॥
 पत्तेगतणुसु वायरसुहुमनिगोए तहा महाखंधे ।
 गुणनिप्फन्नसनामा असंखभागंगुलवगाहो ॥ २० ॥
 एगमवि गहणदव्वं सव्वप्पणयाइ जीवदेसम्मि ।
 सव्वप्पणया सव्वत्थ वावि सव्वे गहणखंधे ॥२१॥
 नेहप्पच्चयफट्टुगमेगं अविभागवग्गणा णंता ।
 हस्सेण घहू वद्धा असंखलोगे दुगुणहीणा ॥ २२ ॥

नामप्पओगपच्चयगेषु वि नेया अणंतगुणणाए ।
 धणिया देसगुणा सिं जहन्नजेद्वे सगे कट्टु ॥२३॥
 मूलुत्तरपगईणं अणुभागविसेसओ हवइ भेओ ।
 अविसेसियरसपगईउ, पगईबंधो मुणेयवो ॥२४॥
 जं सव्वघाइपत्तं सगकम्मपएसणंतमो भागो ।
 आवरणाण चउद्धा तिहा य अह पंचहा विग्घे ॥२५॥
 मोहे दुहा चउद्धा य पंचहा वा वि वज्झमाणीणं ।
 वेयणियाउयगोएसु वज्झमाणीण भागो सिं ॥२६॥
 पिंडपगईसु वप्रंतिगाण वण्णरसगंधफासाणं ।
 सत्तासि संघाए तणुम्मि य तिगे चउक्केवा ॥२७॥
 सत्तेक्कारविगप्पा बंधणनामाण मूलपगईणं ।
 उत्तरसगपगईण य अप्पवहुत्ता विसेसो सिं ॥२८॥
 गहणसमयम्मि जीवो उप्पाएई गुणे सपच्चयओ ।
 सव्वजियाणंतगुणे कम्मपएसेषु सव्वेषु ॥२९॥
 सव्वप्पगुणा ते पढमवग्गणा सेसिया विसेसूणा
 अविभागुत्तरियाओ सिद्धाणमणंतभागसमा ॥३०॥
 फइडगमणंतगुणियं सव्वजिएहिं पि अंतरं एवं ।

सेसाणि वग्गणाणं समाणि ठाणं पढममेत्तो ॥३१॥
 अंतरतुल्लं अंतरमणंतभायुत्तरं विइयमेवं ।
 अंगुलअसंखभागो अणंतभायुत्तरं कंडं ॥ ३२ ॥
 एगं असंखभागेणणंतभायुत्तरं पुणो कंडं ।
 एवं असंखभायुत्तराणि जा पुव्वतुल्लाणि ॥३३॥
 एगं संखेज्जुत्तरमेत्तो तीयाण तिच्छिया वीयं ।
 ताण वि पढमसमाइं संखेज्जगुणोत्तरं एक्कं ॥ ३४ ॥
 एत्तो तीयाणि अइच्छियाण विइयमवि ताणि पढमस्स
 तुल्लाणसंखगुणियं एक्कं तीयाण एक्कम्म ॥३५॥
 विइयं ताणि समाइं पढमस्साणंतगुणियमेगं तो ।
 तीयाणइच्छियाणं ताण वि पढमस्स तुल्लाइं ॥ ३६ ॥
 सब्वजियाणमसंखेज्जलोग संखेज्जगस्स जेहस्स ।
 भागो तिसु गुणणा तिसु छ्छाणमसंखिया लोगा ॥३७॥
 बुद्धी हाणी छक्कं तम्हा दोण्हं पि अंतमल्लीणं ।
 अंतोमुहुत्तमावलि असंखभागा उ सेसाणं ॥ ३८ ॥
 चउराइं जावहगमेत्तो जावं दुगं तिसमयाणं ।
 ठाणाणं उक्कोसो जहणणओ सब्वहिं समओ ॥३९ ॥

दुसु ज्वमप्रं थोवाणि अट्टसमयाणि दोसु पासेसु ।
 समऊणियाणि कमसो असंखगुणियाणि उप्पि च ॥४०॥
 सुहुमगणिपवेसणया अगणिकाया य तेसि कायठिई ।
 कमसो असंखगुणियाणप्रवसाणाणि चणुभागे ॥४१॥
 कडजुम्मा अविभागा ठाणाणि य कंडगाणि अणुभागे
 पज्जवसाणमणंतगुणाओ उप्पि नणंतगुणं ॥४२॥
 अत्तपवहुमणंतरओ असंखगुणियाणणंतगुणमाई ।
 तविवरीयमिधरथो संखेज्जक्खेसु संखगुणं ॥ ४३ ॥
 थावरजीवाणंता एक्केक्के तत्तज्जिया असंखेज्जा ।
 लोगा सिमसंखेज्जा अंतरमह थावरे नत्थि ॥४४॥
 आवलिअसंखभागो तसा निरंतरं अहेगठाणम्मि ।
 नाणा जीवा एवइकालं एगिंदिया निच्चं ॥ ४५ ॥
 थोवा जहन्तठाणे जा ज्वमप्रं विसेतओ अहिया ।
 एत्तो हीणा उक्कोसगं ति जीवा अणंतरओ ॥४६॥
 गंतूणमसंखेज्जे लोगे दुगुणाणि जाव ज्वमप्रं ।
 एत्तो य दुगुणहीणा एवं उक्कोसगं जाव ॥ ४७ ॥
 नाणंतराणि आवलियअसंखभागो तसेसु इयरेसुं ।

एगंतरा असंखिय गुणाइँ नाणंतराइँ तु ॥ ४८ ॥
 फासणकाखो तीए थोवो उक्कोसगे जहन्ने उ ।
 होइ असंखेज्जगुणो थ उ कंडगे तत्तिओ चेव ॥४९॥
 जवमप्रकंडगोवरि हेट्टा जवमप्रथो असंखगुणो ।
 कमसो जवमज्झुवरि कंडगहेट्टा य तावइओ ॥५०॥
 जवमज्झुवरि विसेसो कंडगहेट्टा य सब्वहि चेव ।
 जीवप्पावहुमेवं अप्रवसाणेसु जाणेज्जा ॥ ५१ ॥
 एककेककम्मि कसायोदयम्मि लोगा असंखिया हेँति।
 ठिइबंधाणेषु वि अप्रवसाणाण ठाणाणि ॥५२॥
 थोवाणि कसाउदये अप्रवसाणाणि सब्वडहरम्मि ।
 विइयाइ विसेसहियाणि जाव उक्कोसगं ठाणं ॥५३॥
 गंतूणमसंखेज्जे लोगे दुगुणाणि जाव उक्कोसं ।
 आवलिअसंखभागो नाणागुणवुड्ढिठाणाणि ॥५४॥
 सब्वासुभंपगईणं सुभंपगईणं विवज्जयं जाण ।
 ठिइबंधाणेषु वि आउगवज्जाण पगडीणं ॥५५॥
 पल्लासंखियभागं गंतुं दुगुणाणि आउगाणं तु ।
 थोवाणि पढमबंधे विइयाइ असंखगुणियाणि ॥५६॥

घाईणमसुभवणरसगंधफासे जहन्नठिइबंधे ।
 जाणप्रवसाणाइं तदेगदेसो य अन्नाणी ॥ ५७ ॥
 पल्लासंखिय भागो जावं विइयस्स होइ विइयम्मि ।
 आ उक्कस्सा एवं उवघाए वा वि अणुकट्ठि ॥ ५८ ॥
 परघाउज्जोउस्सासायवधुव नाम तणुउवंगाणं ।
 पडिलोमं सायस्स उं उक्कोसे जाणि समऊणे ॥ ५९ ॥
 ताणि य अन्नाणेवं ठिइबंधो जा जहन्नगमसाए ।
 हेतुज्जोयसमेवं परत्तमाणीण उ सुभाणं ॥ ६० ॥
 जाणी असायजहन्ने उदहिपुहुत्तं ति ताणी अघ्णाणी ।
 आवरणसमं उप्पि परित्तमाणीणमसुभाणं ॥ ६१ ॥
 सेकाले सम्मत्तं पडिवज्जंतस्स सत्तमखिईए ।
 जो ठिइबंधो हस्सो इत्तो आवरणतुल्लो य ॥ ६२ ॥
 जा अभवियपाउग्गा उप्पिमसायसमया उ आ जेछां ।
 एसा तिरियगतिदुगे नीयागोए य अनुकट्ठी ॥ ६३ ॥
 तसवायरपज्जत्तगपत्तेयगाण परघायतुल्लाउ ।
 जाव छारसकोडाकोडी हेछा य साएणं ॥ ६४ ॥
 तणुतुल्ला तिरियरे अणुकट्ठि तिउवमंदया एत्तो ।

सव्वपगईण नेया जहन्नयाई अणंतगुणा ॥ ६५ ॥
 निव्वत्तणा उ एक्किक्कस्स हेत्तोवरिं तु जेत्थियरे ।
 चरमठिईणुक्कोसो परित्तमाणीण उ विसेसो ॥६६॥
 ताणन्नाणि त्ति परं असंखभागाहिं कंडगेक्काण ।
 उक्कोसियरा नेया जा तक्कंडकोवरि समत्ती ॥६७॥
 ठिइबंधाणाइं सुहुमअपज्जत्तगस्स थोवाइं ।
 वायरसुहुमेयरवित्तिचउरिंदियच्चमणसंन्नीणं ॥६८॥
 संखेज्जगुणाणि कमा असमत्तियरे य विंदियाइम्मि ।
 नवरमसंखेज्जगुणाईं संकिलेसाय सव्वत्थ ॥६९॥
 एमेव विसोहीओ विग्घावरणेसु कोडिकोडीओ ।
 उदही तीसमसाते अद्धं थीमणुयदुगसाए ॥७०॥
 तिविहे मोहे सत्तरि चत्तालीसा य वीसई य कमा ।
 दस पुरिसे हासरई देवदुगे खगइचेट्टाय ॥७१॥
 थिरसुभपंचगउच्चे च्चेंवं संठाणसंघयणसूत्ते ।
 तच्चवीयाइ विवुट्ठी अट्टारससुहुमविगलत्तिगे ॥७२॥
 तित्थगराहारदुगे अंतो वीसा सनिच्चनामाणं ।
 तेत्तीसुदही सुरनारयाउ सेसाउ पल्लत्तिगं ॥ ७३ ॥

आउचउक्कुक्कोसो पल्लासंखेज्जभागममणेषु ।
 सेसाण पुठ्वकोडी साउतिभागो अवाहा सिं ॥७४॥
 वाससहस्समवाहा कोडाकोडीदसगस्सं सेसाणं ।
 अणुवाच्यो अणुवट्टणगाउसु छम्मासिगुक्कोसो ॥७५॥
 भिन्नमुहुत्तं आवरणविग्घदंसणचउक्कलोभंते ।
 वारस सायमुहुत्ता अट्ट य जसकित्तिउच्चेसु ॥७६॥
 दो मासा अद्धं संजलणे पुरिस अठ वासाणि ।
 भिन्नमुहुत्तमवाहा सवासिं सवहिं हस्से ॥७७॥
 खुट्ठागभवो आउसु उववायाउसु समा दस सहस्सा ।
 उक्कोसा संखेज्जा गुणहीण आहारत्तिथयरे ॥७८॥
 वग्गुक्कोसठिईणं मिच्छुत्तुक्कोसगेण जं लद्धं
 सेसाणं तु जहन्नो पल्लासंखेज्जगेणुणो ॥७९॥
 एसेगिंदियडहरो सवासिं ऊणसंजुओ जेट्टो ।
 पणवीसा पन्नासा सयं सहस्सं च गुणकारो ॥ ८० ॥
 कमसो विगलअसत्तीण पल्लसंखेज्जभागहा इयरो ।
 विरए देसजइट्टुगे सम्मचउक्केयसंखगुणो ॥८१॥
 सन्निपज्जत्तिपरे अट्ठिभतरओ य कोडिकोडीओ ।

अथुक्कोसो सन्निस्स होइ पज्जत्तगस्सेव ॥८२॥
 मोत्तूण सगमवाहं पढसाइ ठिइ बहुतरं दव्वं ।
 एत्तो विसेसहीणं जावुक्कोसं ति सव्वेसिं ॥८३॥
 पल्लासंखियभागं गंतुं दुगुणूणमेवमुक्कोसा ।
 नाणंतराणि पल्लस्स मूलभागो असंखतमो ॥ ८४ ॥
 मोत्तूण आउगाइं समए समए अवाहहाणीए ।
 पल्लासंखियभागं कंडं कुण अप्पवहुमेसिं ॥८५॥
 वंधावाहाणुक्कस्सवरं कंडकअवाहबंधाणं ।
 ठाणाणि एक्कनाणंतराणि अस्थेण कंडं च ॥ ८६ ॥
 ठिइबंधे टितिवंधे अप्पवसाणाणसंखया लोगा ।
 हस्ताविसेसबुद्धी आज्जगमसंखयुणबुद्धी ॥८७॥
 पल्लासंखियभागं गंतुं दुगुणाणि जाव उक्कोसा ।
 नाणंतराणि अंगुलमूलत्थेयणमसंखतमो ॥ ८८ ॥
 ठिइदीहयाइकमसो असंखयुणियाणि णंतगुणणाए ।
 पढमजहण्णुक्कोसं वितिय जहन्नाइ आ चरमा ।
 वंधंता धुवपगडी परित्तमाणिग सुभाग तिविहरसं ।
 चउ तिग विष्ठाणगयं विवरीयतिगं च असुभाणं ॥९०

सव्वविसुद्धा बंधंति मग्गिमा संकिलिठतरगा य ।
 धुवपगडि जहन्नठिइं सव्वविसुद्धा उ बंधंति ॥११॥
 तिट्ठाणे अजहण्णं विट्ठाणे जेट्ठगं सुभाण कमा ।
 सट्ठाणे उ जहन्नं अजहन्नुक्कोसमियरासिं ॥१२॥
 थोवा जहन्नियाए हेतिं विसेसाहिअोदहिसयाइं ।
 जीवा विसेसहीणा उदहिसयपुहुत्त मो जाव ॥१३॥
 एवं तिट्ठाणकरा विट्ठाणकरा य आ सुभुक्कोसा ।
 असुभाणं विट्ठाणे तिचउट्ठाणे य उक्कोसा ॥ १४ ॥
 पट्ठासंखियमूलानि गंतुं दुग्गुणा य दुग्गुहीणा य ।
 नाणंतराणि पट्ठस्स मूलभागो असंखतमो ॥१५॥
 अणगारप्पाउग्गा विट्ठाणगया उ दुविहपगडीणं ।
 सागारा सव्वत्थ वि हिट्ठा थोवाणि जवमप्रा ॥१६॥
 ठाणाणि चउट्ठाणा संखेज्जगुणाणि उवरिमे एवं ।
 तिट्ठाणे विट्ठाणे सुभाणि एगंतमीसाणि ॥ १७ ॥
 उवरिं मिस्साणि जहन्नगो सुभाणं तओ विसेसहिओ
 होइ असुभाण जहण्णो संखेज्जगुणाणि ठाणाणि ॥१८
 विट्ठाणे जवमप्रा हेट्ठा एगंत मीसगाणुवरिं ।

एवं ति चउछाणे जवमप्राथ्यो य डायठिई ॥९९॥
 अंतो कोडाकोडी सुभविट्टाण जवमप्रथ्यो उवरिं ।
 एगंतगा विलिट्टा सुभजिट्टा डायठिइजेट्टा ॥१००॥
 संखेज्जगुणा जीवा कमसो एएसु दुविहपगईण ।
 असुभाणं तिछाणे सव्वुवरि विसेसओ अहिया ॥१०१॥
 एव वंधणकरणे परुविए सह हि वंधसयगेणं ।
 वंधविहाणाहिगमो सुहमभिगंतुं लहुं होइ ॥१०२॥

॥ इति वन्धनकरणम् ॥

॥ अथ संक्रमकरणम् ॥

सो संक्रमो ति बुच्चइ जं वंधणपरिणओ पओगेणं ।
 पगयंतरत्थदलियं परिणमयइ तयणुभावे जं ॥१॥
 दुसु चेगे दिट्ठिदुगं वंधण विणा वि सुद्धदिट्ठिस्स ।
 परिणामयइ जीसे तं पगईइ पडिग्गहो एसा ॥२॥
 ओहदुगाउगमूलपगडीण न परोप्परंमि संक्रमणं ।
 संक्रमबंधुदउव्वट्टणालिगाईणकरणाइं ॥३॥

अंतरकरणम्भि कए चरित्तमोहे एणुपुविसंकमणं ।
 अन्नरथ सेसिगाणं च सबहिं सबहा वंधे ॥४॥
 तिसु आवलियासु समजणियासु अपडिग्गहा उ संजलणा
 दुसु आवलियासु पढमठिईए सेसासु वि य वेदो ॥५॥
 साइअणाईधुवअधुवा य सबधुवसंतकम्माणं ।
 साइअधुवा य सेसा मिच्छावेयणीयनीएहिं ॥६॥
 मिच्छत्तजढाय पडिग्गहम्भि सबधुवबंधपगईओ ।
 नेया चउव्विगप्पा साई अधुवा य सेसाओ ॥७॥
 पगईठाणे वि तहा पडिग्गहो संकमो य बोधव्वो ।
 पढमंतिमपगईणं पंचसु पंचणह दो वि भवे ॥८॥
 नवगच्छक्कचउक्के नवगं छक्कं च चउसु विइयम्भि ।
 अन्नयरस्त अन्नयरा वि य वेयणीयगोएसु ॥९॥
 अट्टचउरहियवीसं सत्तरसं सोलसं च पन्नरसं ।
 वज्जिय संकमठाणाइं हेतिं तेवीसइं मोहे ॥१०॥
 सोलस वारसगट्टग वीसग तेवीसगाइगे छच्च ।
 वज्जिय मोहस्त पडिग्गहा उ अट्टारस हवन्ति ॥११॥
 छवीससत्तवीसाण संकमो होइ चउसु ठाणेषु ।

बावीसपन्नरसगे एकारसङ्गुणवीसाए ॥ १२ ॥
 सत्तरस एकवीसासु संकमो होइ पन्नवीसाए ।
 नियमा चउसु गईसु नियमा दिट्ठि कए तिविहे ॥१३॥
 बावीसपन्नरसगे सत्तगएकारसिगुणवीसासु ।
 तेवीसाए नियमा पंच वि पंचिदिएसु भवे ॥१४ ॥
 चोदसगदसगसत्तगअछारसगे य होइ बावीसा ।
 नियमा मणुयगईए नियमा दिठ्ठी कए दुविहे ॥ १५ ॥
 तेरसगनवगसत्तगसत्तरसगपणगएकवीसासु ।
 एककावीसा संकमइ सुद्धसासाणमीसेसु ॥ १६ ॥
 एत्तो अविसेसा संकमंति उवसामगे व खवगे वा ।
 उवसामगेषु वीसा य सत्तगे छक्कपणगे य ॥१७॥
 पंचसु एगुणवीसा अट्टारस पंचगे चउक्के य ।
 चउदस छसु पगईसु तेरसगं छक्कपणगम्मि ॥ १८ ॥
 पंच चउक्के बारस एकारस पंचगे तिगचउक्के ।
 दसगं चउक्कपणगे नवगं च तिगम्मि बोधव्वं ॥१९॥
 अट्ट दुगतिगंचउक्के सत्तचउक्के तिगे य बोधव्वं ।
 छक्कं दुगम्मि नियमा पंच तिगे एककगदुगे य ॥२०॥

चत्तारि तिगचउक्के तिन्नि तिगे एककगे य बोधव्वा ।
 दो दुसु एक्काए विय एक्का एक्काए बोधव्वा ॥२१॥
 अणुपुव्विअणाणुपुव्वी झीणमझीणे य दिठ्ठिमोहम्मि
 उवसामगे य खवगे य संकमे मग्गणोवाया ॥२२॥
 तिदुगेगसयं छप्पणचउत्तिगनउई य इगुणनउईया ।
 अछचउदुगेक्कसीइय संकमा चारस य छठे ॥२३॥
 तेवीसपंचवीसा छवीसा अछवीसगुणतीसा ।
 तीसेक्कतीसएगं पडिग्गहा अट्ट नामस्त ॥२४॥
 एककगदुगसय पणचउनउई ता तेरसूणिया वावि ।
 परभव्वियबंधवोच्छेय उपरि सेढीइ एककस्त ॥२५॥
 तिगदुगसयं छपंचगनउइ य जइस्त एककतीसाए ।
 एगंतसेडिजोगे वज्जियतीसिगुणतीसासु ॥२६॥
 थद्दावीसाए वि ते वासीइतिसयवज्जिया पंच ।
 ते चिय वासीइजुया सेसेसुं छन्नउई य वज्जा ॥२७॥
 ठिइसंकमो त्ति बुच्चइ मूळुत्तरपगइथो य जा हि ठिई ।
 उव्वट्टिया व ओवट्टिया व पगइं निया वण्णं ॥२८॥
 तीसासत्तरि चत्तालीसावीसुदहिकोडि कोडीणं ।

जेष्ठा आलिगदुगहा सेसाण वि आलिगतिगूणा ॥२९॥
 मिच्छत्तस्सुक्कोसो भिन्नमुहुत्तूणगो उ सम्मत्ते ।
 मिस्सेवंतोकोडाकोडी आहारतित्थये ॥३०॥
 सव्वासिं जट्टिइगो सावलिंगो सो अहाउगाणं तु ।
 पंधुक्कोसुक्कोसो सावाहठिई य जट्टिइगो ॥३१॥
 आवरणविग्घदंसणचउक्कलोभंतवेयगाऊणं ।
 एगा ठिई जहन्नो जट्टिइ समयाहिगावलिंगा ॥३२॥
 निदादुगस्स एक्का आवलिगदुगं असंखभागे य ।
 जट्टिइ हासच्छक्के संखिज्जाओ समाओ य ॥३३॥
 सोणमुहुत्ता जट्टिइ जहन्नबंधो उ पुरिससँजलणे ।
 जट्टिइ सगऊणजुत्तो आवलिगदुगूणओ तत्तो ॥३४॥
 जोगंतियाण अंनोमुहुत्तिओ सेसियाणं पल्लस्स ।
 भागो असंखियतमो जट्टिइगो आलिगाइ सह ॥३५॥
 मूलठिई अजहन्नो सत्तण्ह तिहा चउविहो मोहे ।
 सेस विगप्पा तेसिं दुविगप्पा संकमे हेति ॥३६॥
 धुवसंतकम्मिगाणं तिहा चउद्धा चरित्तमोहाणं ।
 अजहन्नो सेसेसु य दुहेतरांसिं च सव्वत्थ ॥३७॥

वन्धाओ उक्कोसो जासिं गंतूण आलिगं परथो ।
 उक्कोसतामिओ संकमेण जासिं दुगं तासिं ॥३८॥
 तस्संतकम्मिगो वंधिऊण उक्कोसगं मुहुत्तंतो ।
 सम्मत्तमोसगाणं आवलिया सुद्धदिठी उ ॥३९॥
 दंसणचउक्कविग्धावरणं समयाहिगालिगा छडमो ।
 निदाणावल्लिगदुगे आवलियअसंखतमसेसे ॥४०॥
 समयाहिगालिगाए सेसाए वेअगस्स कयकरणो ।
 सक्खवगचरमखंडगसंतुभणादिट्ठिमोहाणं ॥४१॥
 समउत्तरालिगाए लोभे सेसाइ सुद्धमरागस्स ।
 पढमकसायाण विसंजोयणसंछोभणाए उ ॥४२॥
 चरिमसजोगे जा अत्थि तासिं सो चेव सेसगाणं तु ।
 खवगक्कमेण अनियट्ठिवायरो वेयगो वेए ॥४३॥
 मूलुत्तरपगइगतो अणुभागे संकमो जहा वंधे ।
 फड्डगनिद्वेसो सिं सव्वेयरघायड्ढाईणं ॥ ४४ ॥
 सव्वेसु देसघाइसु सम्मत्तं तदुवरिं तु वा मिस्सं ।
 दारुसमाणस्ताणंतमोत्ति मिच्छत्तमुप्पिमओ ॥ ४५ ॥
 तत्थछपयं उव्वट्ठिया व ओवट्ठिया व अविभागा ।

अणुभागसंकमो एस अन्नपगइं निया वाविं ॥४६॥
 दुविहपमाणे जेट्ठो सम्मत्तदेसघाइ दुष्ठाणा ।
 नरतिरियाञ्जिआयवमिस्से विय सब्बघाइम्मि ॥४७॥
 सेसासु चउट्ठाणे मंदो सम्मत्तपुरिससंजलणे ।
 एगछाणे सेसासुं सब्बघाइम्मि दुष्ठाणे ॥४८॥
 अजहण्णो तिण्ह तिहा मोहस्सं चउव्विहो अहाउस्स
 एवमणुक्कोसो सेसिगाण तिविहो अणुक्कोसो ॥४९॥
 सेसा मूलपगइंसु दुविहा अह उत्तरासु अजहन्तो ।
 सत्तरसण्ह चउद्धा ति विकप्पो सोलसण्हं तु ॥५०॥
 तिविहो छत्तीसाए णुक्कोसो ह नवगस्स य चउद्धा ।
 एयासिं सेसगा सेसगाणं सब्बे य दुविगप्पा ॥५१॥
 उक्कोसगं पवंधिय आवलियमइच्छिज्जण उक्कोसं ।
 जाव न घाएइ तगं संकमइ य आमुहुत्तंतो ॥५२॥
 असुभाणं अन्नयरो सुहुम अपजत्तगाइ मिच्छो य ।
 वज्जिय असंखंवासाउए य मणुओववाए य ॥५३॥
 सब्बत्थायावुज्जोयमणुयगइ पंचगाण आऊणं ।
 समयाहिगाळिगा सेसयत्ति सेसाण जोगंता ॥५४॥

खवगस्संतरकरणे अकए घाईण सुहुमकम्मुवरिं ।
 केवलिणो णंतगुणं असन्निओ सेसअसुभाणं ॥५५॥
 सम्मदिष्ठी न हणइ सुभाणुभागे असम्मदिष्ठी वि
 सम्मत्तमीसगाणं उक्कोसं वजिया खवणं ॥ ५६ ॥
 अंतरकरणा उवरिं जहन्नठिइसंकमो उ जस्स जहिं ।
 घाईणं नियगचरमरसखंडे दिष्ठीमोहदुगे ॥ ५७ ॥
 आज्जण जहन्नठिई बंधिय जावत्थि संकमो ताव ।
 उव्वलणत्तिथसंजोयणा य पढमालियं गंतु ॥ ५८ ॥
 सेसाण सुहुम हयसंतकम्मिगो तस्स हेठओ जाव ।
 बंधइ तावं एगिदिओ व णेगिदिथो वावि ॥५९॥
 जं दलियमन्नपगइं निज्जइ सो संकमो पएसस्स ।
 उव्वलणो विप्राओ अहापवत्तो गुणो सव्वो ॥६०॥
 आहारतण्ण भिन्नमुहुत्ता अविरइगथो पउव्वलए ।
 जा अविरतो त्ति उव्वलइ पल्लभागे असंखतमे ॥६१॥
 अतोमुहुत्तमद्धं पल्लासंखिज्जमित्तठिइखंडं ।
 उक्किरइ पुणो वि तहा उणूणमसंखगुणहं जा ॥६२॥
 तं दलियं सघाणे समए समए असंखगुणियाए ।

सेढीए परठाणे विसेसहाणीए संतुभइ ॥ ६३ ॥
 जं दुचरमस्स चरिमे अन्नं संकमइ तेण सव्वं पि ।
 अंगुलअसंखभागेण हीरण एस उव्वलणा ॥ ६४ ॥
 चरममसंखिज्जगुणं अणुसमयमसंखगुणियंसेढीए ।
 देइ परत्थाणे एवं संतुभतीणमवि कसिणो ॥ ६५ ॥
 एवं मिच्छद्विठ्ठिस्स वेयगं मीसगं ततो पच्छा ।
 एगिदियस्स सुरदुगमओ सव्वेउव्वि निरयदुगं ॥ ६६ ॥
 सुहुमतसेगो उत्तममओ य नरदुगमहानियट्ठिम्मि ।
 छत्तीसाए नियगे संजोयण दिट्ठिजुयत्ते य ॥ ६७ ॥
 जासिं न वंधो गुणभवपच्चयओ तासि होइ विप्राओ
 अंगुलअसंखभागो ववहारो तेण सेसस्स ॥ ६८ ॥
 गुणसंकमो अवप्रंतिगाण असुभाणपुव्वकरणाई ।
 वंधे अहापवत्तो परित्तिओ वा अवंधे वि ॥ ६९ ॥
 थोवोवहारकालो गुणसंकमणेणसंखगुणणाए ।
 सेसस्स अहापवत्ते विज्जाए उव्वलणनामे ॥ ७० ॥
 पल्लासंखियभागेणहापवत्तेण सेसगवहारो ।
 उव्वलणेण वि थिवुगो अणुइन्नाए उ जं उदए ॥ ७१ ॥

ध्रुवसंकम अजहन्नो ण्वकोसो तासि वा विवज्जित्तु ।
 आवरणवगविग्घं ओरालियसत्तगं चेव ॥७२॥
 साइयमाइ चउद्धा सेसविगप्पा य सेसगाणं च ।
 सव्वविगप्पा नेया साई अधुवा पएसम्मि ॥ ७३ ॥
 जो वायरतसकालेणुं कम्मठिइं तु पुढवीए ।
 वायरपज्जत्तापज्जत्तगदीहेयरद्धासु ॥ ७४ ॥
 जोगकसाउक्कोसो बहुसो निच्चमवि आउवंधं व ।
 जोगजहण्णेणुवरिह्णुं ठिइनिसेगं वहुं किच्चा ॥७५॥
 वायरतसेसु तक्कालमेवमंते य सत्तमखिईए ।
 सव्वलहुं पज्जत्तो जोगकसायाहिच्चो बहुसो ॥७६॥
 जोगजवमप्रउवरिं मुहुत्तमच्छित्तु जीवियवसाणे ।
 तिचरिमदुचरिमसमए पूरित्तु कसायउक्कस्सं ॥७७॥
 जोगुक्कोसं चरिमदुचरिमे समए य चरिमसमयम्मि ।
 संपुण्णगुणियकम्मो पगयं तेणेह सामित्ते ॥७८॥
 तत्तो उव्वट्ठित्ता आवलिगासमयतव्वभवत्थस्स ।
 आवरणविग्घचोइसगोरालियसत्त उक्कोसो ॥७९॥
 कम्मचउक्के असुभाण वप्रमाणीण सुहमरागंते ।

संछोभणंमि नियगे चउवीसाए नियट्टिस्स ॥८०॥
 ततो अणंतरागयसमयादुक्कस्स सायबंधद्धं ।
 वंधिय असायबंधालिगंतसमयम्मि सायस्स ॥८१॥
 संछोभणाए दोएहं मोहाणं वेयगस्स खणसेसे ।
 उप्पाइय सम्मत्तं मिच्छत्तगए तमतमाए ॥८२॥
 भिन्नमुहुत्ते सेसे तच्चरमावस्सगाणि किच्चेत्थ ।
 संजोयणा विसंजोयगस्स संछोभणा एसिं ॥८३॥
 ईसाणागयपुरिसस्स इत्थियाए व अठवासाए ।
 मासपुहुत्तहिब्भए नपुंसगे सब्बसंकमणे ॥८४॥
 इत्थीए भोगभूमिसु जीविय वासाणऽसंख्याणि तओ
 हस्सठिई देवत्ता सब्बलहुं सब्बसंछोभे ॥ ८५ ॥
 वरिसवरिदिथ पूरिय सम्मत्तमसंखवासियं लहियं ।
 गंता मिच्छत्तमओ जहन्नदेवठिई भोच्चा ॥ ८६ ॥
 आगंतु लहुं पुरिसं, संवुभमाणस्स पुरिसवेयस्स ।
 तस्सेव सगे कोहस्स माणमायाणमवि कसिणो ॥८७॥
 चउरुवसमित्तु खिप्पं लोभजसाणं ससंकमस्संते ।
 सुभधुवबंधिगनामाणावल्लिगं गंतु वंधंता ॥ ८८ ॥

निदसमा य थिरसुभा, सम्मदिद्विस्त सुभधुवाओ. वि
 सुभसंघयणजुयाओ, वत्तोससयोदहिचियाओ ॥८९॥
 पूरित्तु पुव्वकोडीपुहुत्त संछोभगस्त निरयदुगं । . . .
 देवगईनवगस्त य सगवंधंतालिगं गंतुं ॥९०॥
 सव्वचिरं सम्मत्तं, थणुपालिय पूरइत्तु मणुयदुगं ।
 सत्तमखिइनिग्गइए, पढमे समए नरदुगस्त ॥९१॥
 थावरत्तजाआयावुज्जोयाओ नपुंसगसमाओ ।
 आहारगतिथयरं थिरसममुक्कस्त. सगकाळं ॥९२॥
 चउरुवसमित्तु मोहं मिच्छत्तगयस्त. नीयवंधंतो ।
 उच्चागोउक्कोसो तत्तो लहुसिप्पओ होइ ॥.९३ ॥
 पल्लासंखियभागोण कम्मठिइमच्छिओ निगोएसु ।
 सुहुमेसुऽभवियजोग्गं जहन्नयं कट्टु निग्गम्म ॥९४॥
 जोग्गेसु संखवारे सम्मत्तं लभिय देसविरयं च ।
 अट्ठक्खुत्तो विरई संजोयणहा य तइवारे ॥ ९५ ॥
 चउरुवसमित्तु मोहं लहुं खवंतो भवे खविषकम्मो ।
 पाएण तहिं पगयं पडुच्च काई वि सविसेसं ॥ ९६॥
 आवरणसत्तगम्मि उ सहोहिणा तं विणोहिजुयलम्मि

निहादुगंतराइयहासचउक्के य वंधंते ॥ ९७ ॥
 सायस्स णुवसमित्ता असायबंधाण चरिमबंधंते ।
 खवणाए लोभस्स वि अपुव्वकरणालिगाअंते ॥९८॥
 अयरच्छावट्टिदुगं गालिय थीवेयथीणगिद्धितिगे ।
 सगखवणहापवत्तस्संत एमेव मिच्छते ॥९९॥
 हस्सगुणसंकमद्धाए पूरयित्ता समीससम्मत्तं ।
 चिरसम्मत्ता मिच्छत्तगयस्सुव्वलणथोगो सिं ॥१००॥
 संजोयणाए चतुरुवसमित्तु संजोजइत्तु अप्पद्धं ।
 अयरच्छावट्टिदुगं पालिय सकहप्पवत्तंते ॥१०१॥
 अट्टकसायासाए य असुभधुव्वंधि अत्थिरतिगे य ।
 सव्वखहुं खवणाए अहापवत्तस्स चरिमम्मि ॥१०२॥
 पुरिसे संजलणतिगे य घोळमाणेण चरमवद्धस्स ।
 सगअंतिमे असाएण समा अरई य सोगो य ॥१०३॥
 वेउव्विक्कारसगं उव्वलियं वंधिउण अप्पद्धं ।
 जिष्ठठिई निरयाओ उव्वट्टित्ता अवन्धित्तु ॥१०४॥
 थावरगयस्स चिरउव्वलणे एयस्स एव उच्चस्स ।
 मणुपदुगस्स य तेउसु वाउसु वा सुहुमवद्धाणं ॥१०५॥

हस्सं कालं वन्धिय विरओ आहारसत्तगं गंतुं ।
 अविरेइ महुव्वलंतस्स तस्स जा थोव उव्वलणा ॥१०६॥
 तेवट्टिसयं उदहीण स चउपल्लाहियं अवन्धित्ता ।
 अंते अहप्पवत्तकरणस्स उज्जोवतिरियदुगे ॥१०७॥
 इगविगल्लिदियजोग्गा अट्ट पज्जत्तगेण सह तासिं ।
 तिरियगइसमं नवरं पंचासीउदहिसयं तु ॥१०८॥
 छत्तीसाए सुभाणं सेट्ठिमणारुहिय सेसगविहीहिं ।
 कट्टु जहन्नं खवणं अपुव्वकरणालिया अंते ॥१०९॥
 सम्मदिट्ठिअजोग्गाण सोलसण्हं पि असुभपगइणं ।
 थीत्रेएण सरिसगं नवरं पढमं तिपल्लेसु ॥११०॥
 नरतिरियाण तिपल्लस्संते अोरालियस्स पाउग्गा ।
 तिरथयरस्स य वन्धा जहन्नओ आलिगं गंतु ॥१११॥

॥ इति संक्रमकरणम् ॥

॥ अथ उद्दत्तनापवर्त्तनाकरणम् ॥

उव्वट्टणा ठिईए उदयावलियाए वाहिरिठिईणं ।

होइ अवाहा अइत्थावणाउ जा वालिया हस्ता ॥१॥
 आवलियंअसंखभागाइ जाव कम्मठिइ त्ति निक्खेवो ।
 समउत्तरालियाए सावाहाए भवे ऊणे ॥२॥
 निवाघाएणें वाघाए संतकम्महिगवन्धो ।
 आवलिअसंखभागादि होइ अइत्थावणा नवरं ॥३॥
 उव्वटंतो य ठिइ उदयावलिवाहिरा ठिइविसेसा ।
 निक्खेवइ तइअभागे समयहिए सेसमइवईय ॥४॥
 वड्डइ ततो अत्तिथावणा उ जावालिया हवइ पुत्ता ।
 ता निक्खेवो समयाहिगालिग दुग्गण कम्मठिई ॥५॥
 वाघाए संमऊणं कंडगमुक्कस्सिया अइत्थवणा ।
 डायठिई किंचूणा ठिइ कंडुकस्सगपमाणं ॥६॥
 चरमं नोव्वट्टिज्जइ जावाणंताणि फड्डगाणि ततो ।
 उस्सक्किय ओकड्डइ एवं उव्वट्टणाईओ ॥७॥
 थोवं पएसगुणंहाणि अंतरे दुसु जहन्ननिक्खेवो ।
 कमसो अणंतगुणिओ दुसु वि अइत्थावणा तुल्ला ॥८॥
 वाघाएणणुभागकंडगमेक्काए वग्गणाऊणं ।
 उक्कोसो निक्खेवो ससंतबंधो य सविसेषो ॥९॥

आवन्धा उक्कड्डुइ सव्वहितोकड्डुणा ठिइरसाणं ।
किट्टीवज्जे उभयं किट्टिसु ओवट्टणा नवरं ॥१०॥

॥ इति उद्वर्तनापवर्तनाकरणम् ॥

॥ अथ उदीरणाकरणम् ॥

जं करणेणोकड्डिय उदए दिज्जइ उदीरणा एसा ।
पगइठिइअणुभागप्पएसमूलुत्तरविभागा ॥१॥
मूलपगईसु पंचणह तिहा दोणहं चउव्विहा होइ ।
आउस्स साइ अधुवा दसुत्तरसउत्तरासिंपि ॥२॥
मिच्छत्तस्स चउद्धा तिहा य आवरणविग्घचउदसगे ।
थिरसुभ सेयर उवघायवज्ज धुवचंधिनामे य ॥३॥
घाईणं छउमत्था उदीरगा रागिणो य मोहस्स ।
तइयाऊण पमत्ता जोगंता उ त्ति दोणहं च ॥४॥
विग्घावरणधुवाणं छउमत्था जोगिणो उ धुवगाणं ।
उवघायस्स तणुत्था तणुकिट्टीणं तणुगरागा ॥५॥
तसवायरपज्जत्तग-सेयर गइजाइदिठ्ठिवेयाणं ।

आऊण य तन्नामा पत्तेगियरस्स उ तणुत्था ॥६॥
 आहारग नरतिरिया सरीरदुग्गेयए पमोत्तणं ।
 ओरालाए एवं तदुवंगाए तसजियाओ ॥७॥
 वेउव्वियाए सुरनेरइया आहारगा नरो तिरिओ ।
 सन्नी वायरपवणो य लद्धिपज्जत्तगो होज्जा ॥८॥
 वेउव्विउवंगाए तणुत्तुल्ला पवणवायरं हिच्चा ।
 आहारगाए विरओ विउव्वयंतो पमत्तो य ॥९॥
 ठप्हं संठाणाणं संघयणाणं च सगलतिरियनरा ।
 देहत्था पज्जत्ता उत्तमसंघयणिणो सेढी ॥१०॥
 चउरंसस्स तणुत्था उत्तरतणु सगलभोगभूमिगया ।
 देवा इयरे हुंडा तसतिरियनरा य सेव्वा ॥११॥
 संघयणाणि न उत्तरतणुसु तन्नामगा भवंतरगा ।
 अणुपुब्बीणं परघायस्स उ देहेण पज्जत्ता ॥१२॥
 वायरपुढवी आयावस्स य वज्जित्तु सुहुमसुहुमत्तसे ।
 उज्जोयस्स य तिरिय उत्तरदेहो य देवजई ॥१३॥
 सगलो य इच्छखगइ उत्तरतणुदेवभोगभूमिगया ।
 इट्टसराए तसो वि य इयरासि तसा सनेरइया ॥१४॥

उस्तासस्त सराण य पज्जत्ता आणपाणभासासु ।
 सब्वन्नूणुस्तासो भासा वि य जा न रुज्झंति ॥१५॥
 देवो सुभगाएज्जाण गप्पवक्कंतिओ य कित्तीए ।
 पज्जत्तो वज्जित्ता ससुहुमनेरइयसुहुमतसे ॥ १६ ॥
 गोउत्तमस्त देवा नरा य वइणो चउण्हमियरासिं ।
 तवइरित्ता तित्थगरस्त उ सब्वन्नुयाए भवे ॥१७॥
 इंदियपज्जत्तीए दुसमयपज्जत्तगाए पाउग्गा ।
 निदापयत्ताणं खीणरागखवगे परिच्चज्ज ॥ १८ ॥
 निदानिदाईण वि असंखवासा य मणुयतिरिया य ।
 वेउव्वाहारतणू वज्जित्ता अप्पमत्ते य ॥ १९ ॥
 वेयणियाण पमत्ता ते ते वंधंतगा कसायाणं ।
 हासाईछक्कस्त य अपुव्वकरणस्त चरमंत ॥२०॥
 जावूणखणो पढमो सुहरइहासाणमेवमियरासिं ।
 देवा नेरइया वि य भवच्छिइ केइ नेरइया ॥२१॥
 पंचण्हं च चउण्हं विइए एककाइ जा दसण्हं तु ।
 तिगहीणाइ मोहे मिच्छे सत्ताइ जाव दस ॥२२॥
 सासणमीसे नव अविरए य ठाई परम्मि पंचाई ।

अद्दु विरए य चउराइ सत्त छच्चोवरिल्लंमि ॥२३॥
 अनियट्टिमि दुगेगं लोभो तणुरागेगो चउवीसा ।
 एकगळक्केकारस दस सत्त चउक्क एककाओ ॥२४॥
 एग वियालापण्णाइ सत्तपण्णत्ति गुणिसु नामस्त ।
 नव सत्त तिन्नि अद्दु य छ पंच य अप्पमत्ते दो ॥२५॥
 एगं पंचसु एककम्मि अठ ठाणक्कमेण भंगा वि ।
 एककग तीसेक्कारस इगवीस सवार तिसए य ॥२६॥

इगवीसा छच्च सया छहि अहिया नवसया य एगहिया ।
 अउण्णत्तराणि चउदस सयाणि म्णनउइ पंचसया ॥ २७ ॥
 पंच नव नवगळक्काणि गइसु ठाणाणि सेसकम्मार्णं ।
 एगेगमेव नेयं साहित्तेगेगपगईउ ॥ २८ ॥
 सपत्तिए अ वदए पओगओ दिस्तए उईरणा सा ।
 सेचीका ठिइहितो जाहितो तत्तिगा एसा ॥ २९ ॥

मूलांठइ अजहन्ना माहस्त चउाव्वहा तहा सेसा ।
 वेयणियाऊण दुहा सेसविगप्पा च सव्वारिं ॥३०॥
 मिच्छत्तस्त चउद्धा अजहन्ना धुवउदीरणण तिहा ।
 सेस विगप्पा दुविहा सव्वविगप्पा य सेसाणं ॥३१॥

अद्वाच्छेओ सामित्तं पिय ठिइसंकमे जहा नवरं ।
 तव्वेइसु निरयगईए वा वि तिसु हिद्धिमखिईसु ॥३२॥
 देवगतिदेवमणुयाणुपुवी आयाव विगलसुहुमतिते ।
 अंतोमुहुत्त भग्गा तावइगूणं तदुक्कस्सं ॥३३॥
 तित्थपरस्स य पल्लासंखिंज्जइमे जहन्नगे इत्तो ।
 थावरजहन्नसंतेण समं अहिगं व वन्धन्तो ॥३४॥
 गन्तूणावलिमित्तं कसायवारसगभयदुगंछाणं ।
 निदाइपंचगस्स य आयावुज्जोयनामस्स ॥ ३५ ॥
 एगिंदियजोग्गाणं इयरा वंधित्तु आलिगं गन्तुं ।
 एगिंदियागए तठिईए जाईणमवि एव ॥ ३६ ॥
 वेयणिया नोकसाया समत्तसंधयणपंचनीयाण ।
 तिरियदुग अयस दूभगणाइज्जाणं च सन्निगए ॥३७॥
 अमणागयस्स चिरिठिइ अंत सुरनरयंगइउवंगाणं ।
 अणुपुवी तिसमइगे नराण एगिंदियागयगे ॥ ३८ ॥
 समयोहिगालियाण पढमठिईए उ सेसवेलाए ।
 मिच्छंत्ते वेएसु य संजलणासु वि य समत्ते ॥३९॥
 पल्लासंखिंयभांगुणुदहो एगिंदियागए मिस्से ।

वेसत्तभागवेउव्वियाए पवणस्स तस्संते ॥ ४० ॥
 चउंरुवसमेत्त पेज्जं पच्छा मिच्छं खवेत्तु तेत्तीसा ।
 उक्कोससंजमद्धा अंते सुतणूउवंगाणं ॥ ४१ ॥
 छउंमत्थखीणरागे चउदस समयाहिगालिगठिईए ।
 सेसाणुदीरणंते भिन्नमुहुतो ठिईकालो ॥ ४२ ॥
 अणुभागुदीरणाए सन्ना य सुभासुभा विवागो य ।
 अणुभागबंधभणिया नाणत्तं पच्चया चेमे ॥ ४३ ॥
 मीसं दुष्ठाणे सव्वघाइदुष्ठाणएगठाणे य ।
 सम्मत्तमंतरायं च देसघाई अचक्कू य ॥ ४४ ॥
 ठाणेसु चउसु अपुमं दुष्ठाणे कक्कडं च गुरुकं च ।
 अणुपुव्वीओ तीसं नरतिरिएगंतजोग्गा य ॥ ४५ ॥
 वेया एगठाणे दुष्ठाणे वा अचक्खु चक्खू य ।
 जस्सत्थि एगमवि अक्खरं तु तस्सेगठाणाणि ॥४६॥
 मणनाणं सेससमं मीसगसम्मत्तमवि य पावेसु ।
 छट्ठाणवडियहीणा संतुक्कस्सा उदीरणयां ॥ ४७ ॥
 विरियंतरायकेवलदंसणमोहणीयणाणवरणाणं ।
 असमत्तपज्जएसु सव्वदव्वेसु उ विवागो ॥ ४८ ॥

सव्वविगप्पां सेसाण वावि अधुवा य साई य ॥ ५७
 दाणाइ अचक्खुणं जेष्ठा आइम्मि हीणलद्धिस्स ।
 सुहुमस्स चक्खुणो पुण तेइंदिय सव्वपज्जत्ते ॥५८॥
 निदाइपंचगस्स य मज्झिमपरिणामसंकिलिहस्स ।
 अपुमादि असायाणं निरए जेष्ठा ठिइसमत्ते ॥५९॥
 पंचिंदियतसवायरपज्जत्तगसाइसुस्सरगईणं ।
 वेउव्वुस्सासाणं देवो जेट्ठिइसमत्तो ॥ ६० ॥
 सम्मत्तमीसगाणं सेकाले गहिहिइत्ति मिच्छत्तं ।
 हासरईणं सहस्सारगस्स पज्जत्तदेवस्स ॥ ६१ ॥
 गइहुंडुवघायाणखठगइनीयाण दुहचउक्कस्स ।
 निरउक्कस्ससमत्ते असमत्ताए नरस्संतं ॥ ६२ ॥
 कक्खडगुरुसंधयणात्थीपुमसंठाणतिरियनामाणं ।
 पंचिंदिओ तिрикखो अट्टमवासट्टवासाओ ॥ ६३॥
 मणुओरालियवज्जरिसहाण मणुओ तिपल्लपज्जत्तो ।
 : नियगठिई उक्कोसो पज्जत्तो आउगाणं पि ॥६४॥
 हस्सट्ठिइ पज्जत्ता तन्नामा विगलजाइसुहुमाणं ॥
 थावरनिगोयएगिंदियाणमवि वायरो नवरिं ॥ ६५ ॥

गुरुलघुगा णंतपएसिएसु चक्खुस्त रूविदव्वेसु ।
 ओहिस्स गहणधारणजोग्गे सेसंतरायाणं ॥ ४९ ॥
 वेउव्वियतेयगकम्मवन्नरसगंधनिद्धलुक्खाओ ।
 सीउण्ह थिरसुभेघरअगुरुलघुगो य नरतिरिए ॥ ५० ॥
 चउरंसमउयलहुगापरघाउज्जोयइठखगइसरा ।
 पत्तेगतणू उत्तरतणूसु दोसु वि य तणू तइया ॥ ५१ ॥
 देस विरयविरयाणं सुभगाएज्जजसकित्तिउच्चाणं ।
 पुव्वाणुपुव्विगाए अस्संखभागे थियाईणं ॥ ५२ ॥
 तिस्थयरं घाईणि य परिणामपच्चयाणि सेसाओ ।
 भवपच्चइया पुव्वुत्ता वि य पुव्वुत्तसेसाणं ॥ ५३ ॥
 घाईणं अजहन्ता दोण्हमणुक्कोसियाओ तिविहाओ ।
 वेयणिएणुक्कोसा अजहन्ता मोहणीए उ ॥ ५४ ॥
 साइअणाई धुव अधुवा य तस्सेसिगा य दुविगप्पा
 आउस्त साइ अधुवा सव्वविगप्पा उ विन्नेया ॥ ५५ ॥
 मउलहुगाणुक्कोसा चउव्विहा तिण्हमवि य अजहन्ता
 णाइगधुवा य अधुवा वीसाए होयणुक्कोसा ॥ ५६ ॥
 तेवीसाए अजहन्ता विय एयासि सेसगविगप्पा ।

सव्वविगप्पां सेसाण वावि अधुवा य साई य ॥ ५८ ॥
 दाणाइ अचक्खुणं जेठा आइम्मि हीणलद्धिस्स ।
 सुहुमस्स चक्खुणो पुण तेइंदिय सव्वपज्जत्ते ॥५८॥
 निदाइपंचगस्स य मज्झिमपरिणामसंकिलिठस्स ।
 अपुमादि असायाणं निरण जेठा ठिइसमत्ते ॥५९॥
 पंचिंदियतसवायरपज्जत्तगसाइसुस्सरगईणं ।
 वेउव्वुस्सासाणं देवो जेट्ठिइसमत्तो ॥ ६० ॥
 सम्मत्तमीसगाणं सेकाले गहिहिइत्ति मिच्छत्तं ।
 हासरईणं सहस्सारगस्स पज्जत्तदेवस्स ॥ ६१ ॥
 गइहुंडुवघायाण्णिखठगइनीयाण दुहचउक्कस्स ।
 निरउक्कस्ससमत्ते असमत्ताए नरस्संते ॥ ६२ ॥
 कक्खडगुरुसंघयणात्थीपुमसंठाणतिरियनामाणं ।
 पंचिंदिश्यो तिरिक्खो अट्टमवासट्टवासाओ ॥ ६३ ॥
 मणुओरालियवज्जरिसहाण मणुओ तिपल्लपज्जत्तो ।
 नियगठिई उक्कोसो पज्जत्तो आउगाणं पि ॥६४॥
 हस्सट्ठिइ पज्जत्ता तन्नामा विगलजाइसुहुमाणं ॥
 धावरनिगोयएगिंदियाणमवि वायरो नवरिं ॥ ६५ ॥

आहारतणू पञ्जत्तगो य चउरंसमउयलहुगाणं ।
 पत्तेयखगइपरघायाहारतणूण य विसुद्धो ॥ ६६ ॥
 उत्तरवेउव्विजई उज्जोवस्सायवस्स खरपुढवी ।
 नियगगईणं भणिया तइए समए णुपुव्वीणं ॥६७॥
 जोगंते सेसाणं सुभाणमियरात्ति चउत्तु वि गईसु ।
 पञ्जत्तुक्कडमिच्छस्सोहीणमणोहिलद्धिस्स ॥ ६८ ॥
 सुयकेवलिणो मइसुयचक्खुअचक्खूणुदीरणा मंदा ।
 विपुलपरमोहिगाणं मणणाणोही दुगस्सावि ॥६९॥
 खवणाए विग्घकेवलसंजलणाण य सनोकसायाणं ।
 सयसयउदीरणंते निदापयलाणमुवसंते ॥ ७० ॥
 निदानिदाईणं पमत्तविरए विसुप्रमाणम्मि ।
 वेयगसम्मत्तस्स उ सगखवणोदीरणाचरमे ॥ ७१ ॥
 सेकाले सम्मत्तं तसंजमं गिण्हओ य तेरसगं ।
 सम्मत्तमेव मीसे आज्जण जहन्नगठिईसु ॥ ७२ ॥
 पोग्गलविवागियाणं भवाइसमये विसेसमवि चात्ति ।
 आइतणूणं दोण्हं सुहुमो वाज्ज य अप्पाज्ज ॥ ७३ ॥
 वेइंदिय अप्पाउग निरय चिरठिई अत्तन्निणो वा वि

श्रंगोवंगाणाहारगाए जइणोप्पकालम्मि ॥७४॥
 अमणो चउरंसुत्तभाणणपाज्ज सगच्चिरट्ठिई सेसे ।
 संवपणाण य मणुओ हुंडुवघायाणमवि सुहुमो ॥७५॥
 सेवट्टस्सं विइंदिय वारसवासस्स मउयलहुगाणं ।
 संन्नि विसुद्धाणाहारगस्स वीसा अइकिलिठे ॥७६॥
 पत्तेगमुरालसमं इयरं हुंडेण तस्स परघाओ ।
 अप्पाउस्स य आथावुज्जोयाणमवि तज्जोगो ॥७७॥
 जा नाउज्जियकरणं तिथगरस्स नवगस्स जोगंतो ।
 कक्खडगुरुणमंथे नियत्तमाणस्स केवलिणो ॥७८॥
 सेसाण पगइवेई मप्पिमपरिणामपरिणओ होजा ।
 पच्चयसुभासुभा वि य चित्तिय नेओ विवागे य ॥७९॥
 पंचणहमणुक्कोसा तिहा पएसे चउव्विहा दोणहं ।
 सेसविगप्पा दुविहा सव्वविगप्पा य आउस्स ।
 मिच्छत्तस्स चउद्धा सगयालाए तिहा अणुक्कोसा ।
 सेसविगप्पा दुविहा सव्वविगप्पा य सेसाणं ॥८१॥
 थणुभागुदीरणाए जहन्नसामी पएसजेछाए ।
 घाईणं अन्नयरो ओहीण विणोहिलंभेण ॥ ८२ ॥

वेयणियाणं गहिहिइ से काले अप्पमायमिय विरओ ।
 संघयणपणगतणुदुगउज्जोया अप्पमत्तस्त ॥८३॥
 देवतिरयाउगाणं जहन्नजेठट्टिई गुरुअसाए ।
 इयराऊण वि अट्टमवासे णेयोऽट्टवासाऊ ॥८४॥
 एगंत तिरियजोग्गा नियगविसिठेसु तह अपजत्ता ।
 संमुच्छिममणुयंते तिरियगई देसविरयस्त ॥८५॥
 अणुपुच्चिगइदुगाणं सम्मदिट्ठी उ दूभगार्इणं ।
 नीयस्त य से काले गहिहिइ विरय त्ति सो चेव ॥८६॥
 जोगंतुदीरगाणं जोगंते सरदुगाणुपाणूणं ।
 नियगंते केवलिणो सब्वविसुद्धोए सब्वासिं ॥ ८७॥
 तप्पगओदीरगतिसंकिलिठभावो अ सब्वपगार्इणं ।
 नेयो जहन्नसामी अणुभायुत्तो य तित्थयरे ॥ ८८ ॥
 थोहीणं ओहिजुए अइसुहवेईयआउगाणं तु ।
 पढमस्त जहन्नठिई संसाणुक्कोसगठिईथो ॥८९॥

॥ इति उदीरणाकरणम् ॥

॥ अथ उपशमनाकरणम् ॥

करणकया करणा वि य दुविहा उवसामण रथ विइयाए
 अकरणअणुइन्नाए अणुओगधरे पणिवयामि ॥ १ ॥
 सवस्स ये देसस्सं य करणुवसमणा दुसन्नि एक्किक्का ।
 सवस्स गुणपसत्था देसस्स वि तासि विवरीया ॥२॥
 सव्वुवसमणा मोहस्सेव उ तस्सुवसमक्किया जोग्गो ।
 पंचेदिओ उ सन्नी पज्जत्तो लद्धित्तिगज्जत्तो ॥३॥
 पुव्वं पिं विसुप्पंतो गंठियसत्ताणइक्कमिय सोहिं ।
 अन्नयरे सागारे जोगे य विसुद्धत्तेसासु ॥ ४ ॥
 ठिइ सत्तकम्म अंतोकोडीकोडी करंतु सत्तण्हं ।
 दुष्ठाणं चउष्ठाणे असुभ सुभाणं च अणुभागं ॥५॥
 वंधंतो धुवपगडी भवपाउग्गा सुभा अणाऊ य ।
 जोगवसा य पएसं उक्कोसं मप्पिम जहण्हं ॥६॥
 ठिइबंधद्धापूरे नवबंधं पल्लसंखभागूणं ।
 असुभसुभाणणुभागं अणंतगुणहाणिवुद्धीहिं ॥७॥
 करणं अहापवत्तं अपुव्वकरणमनियट्टिकरणं च ।

अंतोमुहुत्तियाइं उवसंतद्धं च लहइ कमा ॥८॥
 अणुसमयं वहुंतो अप्रवसाणाण णंतगुणाए ।
 परिणामघाणाणं दोसु वि लोगा असंखिज्जा ॥९॥
 मंदविसोही पढमस्स संखभागाहि पढमसमयम्मि ।
 उक्कस्सं उप्पिमहो एक्केकं दोण्ह जीवाणं ॥१०॥
 आचरमाओ सेसुक्कोसं पुव्वप्पवत्तमिइनामं ।
 विइयस्स विइयसमए जहण्णमवि अणंतरुक्कस्सा ११॥
 निव्वयणग्गवि ततो से ठिइरसघायठिइबंधगद्धा उ ।
 गुणसेढी वि य समगं पढमे समये पवत्तंति ॥१२॥
 उयहिपुहत्तुक्कस्सं इयरं पल्लस्स संखतमभागो ।
 ठिइकंडगमणुभागाणणंतभागा मुहुत्तंते ॥१३॥
 अणुभागकंडगाणं बहुहिं सहस्सेहिं पूरण एक्कं
 ठिइकंड सहस्सेहिं तेसिं वीथं समाणेहिं ॥ १४ ॥
 गुणसेढी निक्खेवो समये समये असंखगुणाए ।
 अद्धादुगाइरित्तो सेसे सेसे य निक्खेवो ॥ १५ ॥
 अनियट्टिम्मि वि एवं तुल्ले काले समा तओ नामं ।
 संखिज्जइमे सेसे भिन्नमुहुत्तं अहो मुच्चा ॥ १६ ॥

किंचूणमुहत्तसमं ठिइवंधद्धाइ अंतरं किच्चा ।
 आवलिदुगेक्कसेसे आगाल उदीरणा समिया ॥१७॥
 मिच्छत्तुदए खीणे लहए सम्मत्तमोवत्तमियं सो ।
 लंभेण जस्स लप्पइ आयहियमलद्धपुवं जं ॥१८॥
 तं कालं वीयठिइं तिहाणुभागेण देसघाइ त्थ ।
 सम्मत्तं सम्मिस्सं मिच्छत्तं सब्बघाईओ ॥ १९ ॥
 पढमे समए थोवो सम्मत्ते मीसए असंखगुणो ।
 अणुसमयमवि य कमसो भिन्नमुहुत्ता हि विप्राच्यो २०
 ठिइरसघाओ गुणसेढी विय तावं पि आउवजाणं ।
 पढमठिइए एगदुगावलिसेसम्मि मिच्छत्ते ॥२१॥
 उवसंतद्धा अंते विहिणा ओकट्टियस्स दलियस्स ।
 अप्रवत्ताणणुरूवस्सुदओ तिसु एक्कयरयस्स ॥२२॥
 सम्मत्तपढमलंभो सब्बोवसमा तथा विगिठो य ।
 छालिगसेसाइ परं आसाणं कोइ गच्छेजा ॥ २३ ॥
 सम्मदिठी जीवो उवइट्टं पवयणं तु सइहइ ।
 सइइह अत्तभावं अजाणमाणो गुरुनियोगा ॥२४॥
 मिच्छइट्ठी नियमा उवइठं पवयणं न सइहइ ।

सदहइ असवभावं उवइछं वा अणुवइदुं ॥ २५ ॥
 सम्मामिच्छदिट्ठी सागारे वा तहा अणागारे ।
 अह वंजणोग्गहम्मि य सागारे होइ नायवो ॥ २६ ॥
 वेयगसम्मदिष्ठी चरित्तमोहुवसमाए चिछंतो ।
 अजओ देसजई वा विरतो व विसोहिअच्चाए ॥ २७ ॥
 अन्नाणाणव्भुवगमजयणाहजओ अज्जविरईए ।
 एगवयाइ चरिमो अणुमइमित्तो त्ति देसजई ॥ २८ ॥
 अणुमइविरअओ य जई दोणह वि करणाणि दोण्ह न
 उ तईयं ।
 पच्छा गुणसेढी सिं तावइया आलिगा उप्पि ॥ २९ ॥
 परिणामपच्चया उ णाभोगगया गया अकरणा उ ।
 गुणसेढी सिं निच्चं परिणामा हाणिवुद्धिजुया ॥ ३० ॥
 चउगइया पज्जत्ता तिद्धि वि संयोयणा विजोयंति ।
 करणेहिं तीहिं सहिया नंतरकरणं उवसमो वा ॥ ३१ ॥
 दंसणमोहे वि तहा कयकरणच्चाइ पच्छिमे होइ ।
 जिणकालगो मणुस्तो पठवगो अट्टवासुप्पि ॥ ३२ ॥
 अहवा दंसणमोहं पुब्बं उवसामइत्तु सामन्ने ।

पठमठिङ्मात्रलियं करेद्द दोषहं अणुदियाणं ॥३३॥
 अद्धापरिविक्तीओ पमत्त इयरे सहस्ससो किच्चा ।
 करणाणि तिन्नि कुणए तइयविसेसे इमे सुणसु ॥३४॥
 अंतोकोडाकोडी संतं अनियट्टिणो य उदहीणं ।
 वंधो अंतोकोडी पुव्वकमा हाणि अप्पवहू ॥ ३५ ॥
 ठिङ्कंडगमुक्कस्सं पि तस्स पल्लस्स संखतमभागो
 ठिङ्बंधवहुसहस्से सेक्केक्कं जं भणिस्सामो ॥३६॥
 पल्लदिवद्धविपल्लाणि जाव पल्लस्स संखगुणहाणी ।
 मोहस्स जाव पल्लं संखेज्जइभागहाऽमोहा ॥३७॥
 तो नवरमसंखगुणा एक्कपहारेण तीसगाणमहो ।
 मोहे वीसग हेठा य तीसगाणुप्पि तइयं च ॥ ३८ ॥
 तो तीसगाणमुप्पि च वीसगाइं असंखगुणणाए ।
 तइयं च विसगाहि य विसेसमहियं कमेणेति ॥३९॥
 अहुदीरणा असंखेज्जसमयवद्धाण देसघाइ त्थ ।
 दाणंतराय मणपज्जवं च तो अयोहिदुगलाभो ॥४०॥
 सुयभोगाचक्खूथो य ततो मई सपरिभोगा ।
 विरियं च असेट्ठिगया वंधंति उ सव्वघाईणि ॥४१॥

संजमघाईंणंतरमेत्थ उ पढमट्टिई य अन्नयरे ।
 संजलणावेयाणं वेइज्जंतीण कावसमा ॥४२॥
 दुसमयकयंतरे आलिगाण छणहं उदीरणाभिनवे ।
 मोहे एक्कछाणे बंधुदया संखवासाणि ॥४३॥
 संखगुणहाणिवंधो एत्तो सेसाण संखगुणहाणी ।
 पउवसमए नपुंसं असंखगुणणाइ जावंतो ॥४४॥
 एवित्थी संखतमे गयम्मि घाईंण संखवासाणि ।
 संखगुणहाणिं एत्तो देसावरणाणुदगराई ॥ ४५ ॥
 ता सत्तणहं एवं संखतमे संखवासितो दोणहं ।
 विइयो पुण ठिइबंधो सब्वेसिं संखवासाणि ॥४६॥
 छस्सुवसमिज्जमाणे सेक्का उदयठिई पुरिससेसा ।
 समऊणावलिगदुगे वद्धा वि य तावदद्धाए ॥४७॥
 तिविहमवेओ कोहं कमेण सेसेवि तिविहतिविहे वि ।
 पुरिससमा संजलणा पढमठिई आलिगा अहिगा ॥४८॥
 लोभस्स वेतिभागा ठिइय विभागोत्थ किट्टकरणद्धा ।
 एगफडुगवग्गणअणंतभागो उ ता हेछा ॥४९॥
 अणुसमयं सेढीए असंखगुणहाणि जा अपुव्वाओ ।

तविवरीयं दलियं जहन्नगाई विसेसूणं ॥५०॥
 अणुभागो णंतगणो चाजम्मासाइ संखभागूणो ।
 मोहे दिवसपुहुत्तं किट्टीकरणाइसमयम्मि ॥५१॥
 भिन्नमुहुत्तो संखिज्जेसु य घाईण दिणपुहुत्तं तु ।
 वाससहस्सपुहुत्तं अंतोदिवसस्स अंते सिं ॥ ५२॥
 वाससहस्सपुहुत्ता विवस्स अंतो अघाइकम्माणं ।
 लोभस्स अणुवसंतं किट्टीओ जं च पुव्वुत्तं ॥५३॥
 सेसच्छं तणुरागो तावईया किट्टीओ य पढमटिई ।
 वज्जिय असंखभागं हेहुवरिमुदीरई सेसा ॥५४॥
 गिणहंतो य मुयंतो असंखभागं तु चरमसमयम्मि ।
 उवसामेइय विईय ठिइं पि पुव्वं व सव्वच्छं ॥५५॥
 उवसंतद्धा भिन्नमुहुत्तो तीसे य संखतमतुल्ला ।
 गुणसेढी सव्वच्छं तुल्ला य पएसकालेहिं ॥५६॥
 उवसंता य अकरणा संकमणोवट्टणा य दिट्ठितिगे ।
 पच्छाणुपुव्विगाए परिवडइ पमत्तविरतोत्ति ॥५७॥
 ओकड्डित्ता विइठिइहिं उदयादिसुं खिवइ दव्वं ।
 सेढीइ विसेसूणं आवलिउप्पि असंखगुणं ॥५८॥

वेङ्गजंतीणेषं इयरासिं आलिगाइ वाहिरओ ।
 न हि संकमोणुपुविं छावलिगोदीरणाउप्पि ॥५९॥
 वेङ्गजमाणसंजलणद्धाए अहिगा उ मोहगुणसेढी ।
 तुट्ठला य जयारूढो अतो य सेसेहि से तुट्ठला ॥६०॥
 खवगुवसामगपडिवयमाणदुगुणो तहिं तहिं वंधो ।
 अणुभागो णंतगुणो असुभाण सुभाण विवरीओ ॥ ६१॥
 किच्चा पमत्ततदियरठाणे परिवत्ति बहुसहस्साणि ।
 हिट्ठिल्लाणंतरदुगं आसाणं वा वि गच्छिज्जा ॥६२॥
 उवसमसम्मत्तद्धा अंतो आउक्खया धुवं देवो ।
 तिसु आउगेषु वद्धेषु जेण सेढिं न आरुहइ ॥६३॥
 उग्घाडियाणि करणाणि उदयट्ठिइमाइगं इयरतुट्ठलं ।
 एगभवे दुक्खुत्तो चरित्तमोहं उवसमेइ ॥६४॥
 उदयं वज्जी इत्थी इत्थि समयइ अवेयगा सत्त
 तह वरिसवरो वरिसवरिं इत्थि समगं कमारद्धे ॥६५॥

॥ इति सर्वोपशमना ॥

॥ अथ देशोपशमना ॥

पगइठिइ अणुभागप्पएसमूखुत्तराहि पविभत्ता ।
 देसकरणोवसमणा तीए समियस्स अठपयं ॥६६॥
 उवट्टणओवट्टणसंकमणाइं च तिन्नि करणाइं ।
 पगइतयासमईओ पेहू नियट्टिमि वट्टंतो ॥ ६७ ॥
 दंसणमोहाणंताणुबंधिणं सगनियट्टिओ णुप्पि ।
 जा उवसमे चउद्धा मूखुत्तरणाइसंताथो ॥ ६८ ॥
 चउरादिजुया वीसा एकवीसा य मोहठाणाणि ।
 संकमनियट्टिपाउग्गाइं सजसाइं नामस्स ॥ ६९ ॥
 ठिइसंकम व ठिइउवसमणा णवरि जहन्निया कज्जा
 अठभवसिद्धि जहन्ना उवलगनियट्टिगे वियरा ॥७०॥
 अणुभागसंकमसमा अणुभागुवसामणा नियट्टिमि ।
 संकमपएसतुल्ला पएसुवसामणा चेत्थ ॥ ७१ ॥

॥ इति देशोपशमना ॥

॥ अथ निद्धत्तिनिकाचनाकरणम् ॥

देसोवसमणतुल्ला होइ निहत्ती निकाइया नवरं ।
 संकमणं पि निहत्तीइ नत्थि सेसाण वियरस्सं ॥ १ ॥
 गुणसेढिपएसग्गं थोवं पत्तेगसो असंखगुणं ।
 उवसमणाइसु तीसु वि संकमणेहप्पवत्ते य ॥ २ ॥
 थोवा कसायउदया ठिइवंधोदीरणा य संकमणा ।
 उवसामणाइसु अप्रवसाया कमसो असंखगुणा ॥ ३ ॥

॥ इति निद्धत्तिनिकाचनाकरणम् ॥

॥ अथ उदयः ॥

उदओ उदीरणाए तुल्लो मोत्तूण एकचत्तालं ।
 आवरणविग्घसंजलणलीभवेए य दिठ्ठिदुगं ॥ १ ॥
 आलिगमहिगं वेएति आउगाणं पि अप्पमत्ता वि ।
 वेयणियाण य दुसमय तणुपज्जत्ता य निदाओ ॥ २ ॥
 मणुयगइजाइतसवायरं च पज्जत्तसुभगमाएज्जं ।

जसकित्तिमुच्चगोयं चाजोगी केइ तित्थयरं ॥३॥
ठिइउदओ वि ठिइक्खयपओगसाठिइउदीरणा अहिगो
उदयठिईए हस्तो ठत्तीसा एग उदयठिई ॥ ४ ॥
अणुभागुदओ वि जहन्न नवरि आवरण विग्घवेयाणं ।
संजलणलोभसम्मत्ताण य गंतूणमावलिगं ॥ ५ ॥
अजहन्नाणुक्कोसा चउ त्तिहा छणह चउ विवहा मोहे ।
आउस्त साइ अधुवा सेसविगप्पा य सब्बेसिं ॥६॥
अजहन्नाणुक्कोसो सगयालाए चउत्तिहा चउहा ।
मिच्छत्ते सेसासिं दुविहा सब्बे य सेसाणं ॥७॥
सम्मत्तुप्पा सावय विरण संजोयणाविणासे य ।
दंसणमोहक्खवगे कसाय उवसामगुवसंते ॥८॥
खवगे य खीणमोहे जिणे य दुविहे असंखगुणसेढी ।
उदओ तविवरीओ कालो संखेज्जगुणसेढी ॥९॥
तिन्नि वि पंढमिल्लाओ मिच्छत्तगए वि होज्ज अन्नभवे
पगयं तु गुणियकम्मे गुणसेढीसीसगाणुदये ॥१०॥
आवरणविग्घमोहाण जिणोदइयाण वावि नियगंते ।
लहुखवणाए ओहीणणोहिलद्धिस्त उक्कस्सो ॥११॥

उवसंतपढमगुणसेढीए निदादुगस्स तस्सेव ।
 पावइ सीसगमुदयंति जायदेवस्स सुरनवगे ॥१२॥
 मिच्छत्तमीसणंताणुबंधिअसमत्तथीणगिद्धीणं ।
 तिरिउदएगंताण य विइया तइया य गुणसेढी ॥१३॥
 अंतकरणं होहि त्ति जाय देवस्स तं मुहुत्तंतो ।
 अछण्हकसायाणं छण्हं पि य नोकसायाणं ॥१४॥
 हस्सठिइं बंधित्ता अच्चाजोगाइठिइनिसेगाणं ।
 उक्कस्सपए पढमोदयम्मि सुरनारगाऊणं ॥
 अच्चाजोगुक्कोसो बंधित्ता भोगभूमिगेषु लहं ।
 सव्वप्पजीवियं वज्जइत्तु ओवट्टिया दोण्हं ॥१६॥
 दूभगणाएज्जाजस गइदुगअणुपुव्वितिगसनीयाणं ।
 दंसणमोहक्खवणे देसविरइ विरइगुणसेढी ॥१७॥
 संघयणपंचगस्स य विइयाईतिन्नि हेअंति गुणसेढी ।
 आहारगउज्जोयाणुत्तरतणु अप्पमत्तस्स ॥१८॥
 वेइंदिय थावरगो कम्मं काऊण तस्समं खिप्पं ।
 आयावस्स उ तव्वेइ पढमसमयम्मि वट्टंतो ॥१९॥
 पगयं तु खवियकम्मे जहन्नसामी जहन्नदेवठिइ ।

भिन्नमुहुत्ते सेसे मिच्छत्तगतो अतिकिलिष्ठो ॥२०॥
 कालगण्णिदियगो पढमे समये व मइसुयावरणे ।
 केवलदुगमणपज्जवचक्खुअचक्खूण आवरणा ॥२१॥
 ओहीणसंजमाओ देवत्तगण्ण गयस्स मिच्छत्तं ।
 उक्कोसठिइवंधे विकड्डुणा आलिगं गंतुं ॥२२॥
 वेयणियंतरसोगारउच्च ओहि व्व निद्वपयला य ।
 उक्कस्स ठिईवंधा पडिभग्गपवेइया नवरं ॥ २३ ॥
 वरिसवरतिरियथावरणीयं पि य मइसमं नवरि तिन्नि ।
 निदानिदा इंदियपज्जत्ती पढमसमयम्मि ॥ २४ ॥
 दंसणमोहे तिविहे उदीरणुदए उ आलिगं गंतुं ।
 सत्तरसण्ह वि एवं उवसमइत्ता गए देवे ॥ २५ ॥
 चउरुवसमित्तु पच्छा संजोइय दीहकालसम्मत्ता ।
 मिच्छत्तगए आवलिगाए संजोयणाणं तु ॥ २६ ॥
 इत्थीए संजमभवे सव्वनिरुद्धम्मि गंतु मिच्छत्तं ।
 देवीए लहुमिच्छी जेठठिइ आलिगं गंतुं ॥ २७ ॥
 अप्पद्धाजोगचियाणाऊणुक्कस्सगठिईणंते ।
 उवरिं धोवनिसेगे चिरतिव्वासायवेईणं ॥ २८ ॥

संजोयणा विजोजिय देवभवजहन्नगे अइनिरुद्धे ।
 वंधिय उक्कस्सठिई गंतूणेगिंदिया सन्नी ॥२९॥
 सब्वलहुं नरयगए निरयगई तम्मि सब्वपज्जत्ते ।
 अणुपुव्वीओ य गईतुल्ला नेया भवादिम्मि ॥३०॥
 देवगई ओहिसमा नवरिं उज्जोयवेयगो ताहे ।
 आहार जाय अइचिरसंजममणुपालिज्जणंते ॥३१॥
 सेसाणं चक्खुसमं तंमि व अन्नंमि व भवे अचिरा ।
 तज्जोगा बहुगीओ पवेययं तस्स ता ताओ ॥३२॥

॥ इति उदयः ॥

॥ अथ सत्ता ॥

मूलुत्तरपगइगयं चउव्विहं संतकम्ममवि नेयं ।
 धुवमद्धवणाईयं अठ्ठणं मूलपगईणं ॥ १ ॥
 दिठ्ठिदुगाउगच्छगति तणुचोदसगं च तित्थगरमुच्चं ।
 दुविहं पढमकसाया हेअंति चउद्धा तिहासेसा ॥२॥
 उउमत्थंता चउदस दुचरमसमयंमि अत्थि दो निदा ।

वद्धाणि ताव आऊणि वेइयाइं ति जा कसिणं ॥३॥
 तिसु मिच्छत्तं नियमा अट्टसु ठाणेषु होइ भइयव्वं ।
 आसाणे सम्मत्तं नियमा सम्मं दससुं भज्जं ॥४॥
 विइयतईएंसु मिस्सं नियमा ठाणनवगम्मि भयणिज्जं
 संजोयणा उ नियमा दुसु पंचसु होइ भइयव्वं ॥५॥
 खवंगानियट्ठिअद्धा संखिज्जा हेअंति अट्ट वि कसाया ।
 निरयत्तिरियतेरसगं निद्वानिद्वानिगेणुवरिं ॥६॥
 अपुमित्थीए समं वा हासच्छक्कं च पुरिससंजलणा ।
 पत्तेगं तस्स कमा तणुरागंतो त्ति लोभो य ॥७॥
 मणुयगइजाइतसवायरं च पज्जत्तसुभगआएज्जं ।
 जसकित्ती तित्थयरं वेयणिउच्चं च मणुयाणं ॥८॥
 भवचरिमस्समयम्मि उ तम्मगिल्लसमयम्मि सेसाउ ।
 आहारगतिरथयरा भज्जा दुसु नत्थि तित्थयरं ॥९॥
 पढमचरिमाणमेगं छन्नवचत्तारि वीयगे तिन्नि ।
 वेयणियाउयगोएसु दोन्नि एगो त्ति दो हेअंति ॥१०॥
 एगाइ जाव पंचगमेक्कारस वार तेरसिगविसा ।
 विय तिय चउरो छ सत्त अट्टवीसा य मोहस्स ॥११॥

तिन्नेग तिगं पणगं पणगं पणगं च पणगमहदोन्नि ।
 तस तिन्नि दोन्नि मिच्छाङ्गेषु जावोवसंतो त्ति ॥१२॥
 संखीणदिच्छिमोहे केई पणवीसइं पि इच्छंति ।
 संजोयणाण पच्छा नासं तेसिं उवसमं च ॥ १३ ॥
 त्तिदुगसयं छप्पंचगतिगनउई नउइ इगुणनउई य ।
 षडतिगदुगाहिगासी नव अठ य नामठाणाइं ॥१४॥
 एगे छ दोसु दुगं पंचसु चत्तारि अठगं दोसु ।
 कमसो तीसु चउक्कं ठत्तु अजोगम्मि ठाणाणि ॥१५॥
 मूलठिई अजहन्नं तिहा चउद्धा य पढमगकसाया ।
 तित्थयरुव्वलणायुगवजाणि तिहा दुहाणुत्तं ॥१६॥
 जेठठिई वंधसमं जेठुं वंधोदया उ जासि सह ।
 अणुदयबंधपराणं समज्जणा जठिई जेठं ॥१७॥
 संकमओ दीहाणं सहालिगाए उ आगमो संतो ।
 समज्जणमणुदयाणं उभयासिं जठिई तुच्छा ॥१८॥
 संजलणतिगे सत्तसु य नोकसाएसु संकमजहन्नो ।
 सेसाण ठिई एगा दुसमयकाला अणुदयाणं ॥१९॥
 ठिइसंतठाणाइं नियगुक्कस्सा हि थावरजहन्नं ।


नेरंतरेण हेट्टा खवणाइसु संतराईं पि ॥ २० ॥
 संकमसममणुभागे नवरि जहन्नं तु देसघाईणं ।
 छन्नोकसायवजाण एगट्टाणंमि देसहरं ॥२१॥
 मणनाणे दुष्ठाणं देसहरं सामिगो य सम्मत्ते ।
 आवरणविग्घसोलसग किट्टिवेएसु य सगंते ॥२२॥
 मइसुय चक्खुअचक्खूण सुयसमत्तस्स जेष्ठलद्धिस्स ।
 परमोहिस्सोहिदुगं मणनाणं विउलनाणंस्स ॥ २३ ॥
 वंधहयहयहउप्पत्तिगाणि कमसो असंखगुणियाणि ।
 उदयोदीरणवजाणि हेअंति अणुभागठाणाणि ॥ २४ ॥
 सत्तण्हं अजहन्नं तिविहं सेसा दुहा पएसम्मि ।
 मूलपगईसु आउसु साई अधुवा य सव्वे वि ॥ २५ ॥
 वायालाणुक्कस्सं चउवीससया जहन्नं चउतिविहं ।
 होइह छण्ह चउद्धा अजहन्नमभासियं दुविहं ॥ २६ ॥
 संपुन्नगुणियकम्मो पएसउक्कस्ससंतसामी उ ।
 तस्सेव उ उप्पिविणिग्गयस्स कासिंचि वन्नेहिं ॥२७॥
 मिच्छत्ते मीसम्मि य संपक्खित्तम्मि मीससुद्धाणं ।
 वरिसवरस्सं उ ईसाणगंस्स चरमम्मि समयम्मि ॥२८॥

ईसाणे पूरित्ता नपुंसगं तो असंखवासासु ।
 पल्लासंखियभागेण पूरिए इत्थिवेयस्स ॥ २९ ॥
 पुरिसस्स पुरिससंकमपएसउक्कस्स सामिगस्सेव ।
 इत्थी जं पुण समयं संपक्खित्ता हवइ ताहे ॥३०॥
 तस्सेव उ संजलणा पुरिसाइकमेण सब्बसंतोभे ।
 चउरुवसमित्तु खिप्पं रागंते सायउच्चजसा ॥३१॥
 देवनिरियाउगाणं जोयुक्कस्सेहिं जेष्ठगद्धाए ।
 वद्धाणि ताव जावं पढमे समए उदिन्नाणि ॥३२॥
 सेसाउगाणि नियोसु चेव आगम्म पुब्बकोडीए ।
 सायवहुलस्स अचिरा वंधंते जाव नोवट्टे ॥३३॥
 पूरित्तु पुब्बकोडीपुहुत्त नारगदुगस्स वंधंते ।
 एवं पल्लतिगंते वेउब्बिय सेसनवगम्मि ॥३४॥
 तमतमगो सब्बलहुं सम्मत्तं लंभिय सब्बचिरमद्धं ।
 पूरित्ता मणुयदुगं सब्बज्जरिसहं सवंधंते ॥३५॥
 सम्मदिठि धुवाणं वत्तिसुद्धीसयं चउक्खुत्तो ।
 उवसामइत्तु मोहं खवेत्तगे नीयगबंधंते ॥ ३६ ॥
 धुववन्धीण सुभाणं सुभधिराणं च नवरि सिग्घयरं ।

तित्थगराहारगतणू तेत्तीसुदही विरचिया .य ॥ ३७ ॥
 तुल्ला नपुसवेएणेगिंदिय थावरायवुज्जोवा ।
 विगलसुहुमत्तियाविय नरतिरियत्रिरजिया हेअंति ॥३८॥
 खवियंसयम्मि पगयं जहन्नगे नियगसंतकम्मंते ।
 खणसंजोइयसंजोयणाण चिरसम्मकालंते ॥ ३९ ॥
 उव्वलमाणीण उव्वलणा एगच्छिई दुसामइगा ।
 दिच्छिदुगे वत्तीसे उदहिस्सए पालिए पच्छा ॥४०॥
 अंतिमलोभजसाणं मोहं अणुवसइत्तु खीणाणं ।
 नेयं अहापवत्तकरणस्स चरमम्मि समयम्मि ॥४१॥
 वेउव्विक्कारसंगं खणवंध गते उ नरय जिच्छिइं ।
 उव्वट्ठित्तु अवंधिय एगेंदिगए चिरुव्वलणे ॥४२॥
 मणुयदुगुच्चागोए सुहुमखणवच्चगेषु सुहुमतसे ।
 तित्थयराहारतणू अप्पच्चा वंधिया सुचिरं ॥४३॥
 चरमावलियपविट्ठा गुणसेढा जासिमत्थि न य उदओ ।
 आवलिगासमयसमा-तासिं खलु फइगाइं तु ॥४४॥
 संजलणतिगे चेवं अहिगणि य आलिगाए समएहिं ।
 दुसमयहीणेहिं गुणाणि जोगट्ठाणाणि कसिणाणि ४५

वेएसु फड्डगदुगं अहिगा पुरिसस्स वे उ आवलियाः ।
 दुसमयहीणा गुणिया जोगट्टाणेहिं कसिणेहिं ॥४६॥
 सव्वजहन्नाढत्तं खंधुत्तरओ निरंतरं उप्पिं ।
 एगं उव्वलमाणी लोभजसा नोकसायाणं ॥४७॥
 ठिइखंडगविच्छेया खीणकसायस्स सेसकालसमा ।
 एगहिया घाईणं निदापघलाण हिच्चेकं ॥ ४८ ॥
 सेलेसिसंतिगाणं उदयवईणं तु तेण कालेणं ।
 तुल्ला णेगहियाइं सेसाणं एगऊणाइं ॥ ४९ ॥
 संभवतो ठाणाइं कम्मपएसेहिं हेंति नेयाइं ।
 करणेसु य उदयम्मि य अणुमाणेणेवमेएणं ॥ ५० ॥
 करणोदयसंताणं पगइछाणेसु सेसयतिगे य ।
 भूयक्कारप्पयरो अवच्छिओ तह अवत्तव्वो ॥५१॥
 एगादहिगे पढमो एगाईऊणगम्मि विइओ उ ।
 तत्तियमेत्तो तईओ पढमे समये अवत्तव्वो ॥५२॥
 करणोदयसंताणं तामित्तोघेहिं सेसगं नेयं ।
 गईयाइमग्गणासुं संभवथो सुहु आगमिय ॥५३॥
 वंधोदीरणसंकमसंतुदयाणं जहन्नगाईहिं ।

संवेहो पगइ ठिइं अणुभागपएसओ नेओ ॥५४॥
 करणोदयसंतविऊ तन्निजरकरणसंजमुजोगा ।
 कम्मट्टुदयनिष्ठाजणियमगिडुं सुहमुवेति ॥ ५५ ॥
 इय कम्मप्पगडीओ जहासुयं नीयमप्पमइणा वि ।
 सोहियणाभोगकयं कहंतु वरदिष्ठिवायन्नू ॥५६॥
 जस्स वरसासणावयवफरिसपविकसियविमल्लमइकिरण
 विमलंति कम्ममइले सो मे सरणं महावीरो ॥५७॥



॥ अथ श्रीमच्चन्हर्षिमहत्तरसङ्कलितः ॥

॥ पञ्चसङ्ग्रहः ॥

नमिञ्जण जिणं वीरं सम्मं दुच्छकम्मनिट्ठवगं ।
 वोच्छामि पंचसंगहमेयमहत्थं जहत्थं च ॥१॥
 सयगाइ पंचगंथा जहारिहं जेण एत्थ संखित्ता ।
 दाराणि पंच अहवा तेण जहत्थाभिहाणमिणं ॥२॥
 एत्थ य जोगुवयोगाणमग्गणा वंधगा य वत्तवा ।
 तह वंधियव्व य वंधहेयवो वंधविहिणो य ॥३॥
 सच्चमसच्चं उभयं असच्चमोसं मणोवई अट्ठ ।
 वेउवाहारोरालमिस्ससुद्धाणि कम्मयगं ॥४॥
 अन्नाणतिगं नाणाणि, पंच इइ अट्ठहा उ सागारो ।
 अचखुदंसणाइच्चउहुवओगो अणागारो ॥५॥
 विगलासन्नीपज्जत्तएसु लप्भंति कायवइयोगा ।
 सव्वेवि सन्निपज्जत्तएसु सेसेसु काओगो ॥६॥
 लद्धीए कणेहि य, ओरास्सिधमीसगो अपज्जत्ते ।

पञ्जत्ते ओरालो, वेउविय मीसगो वावि ॥७॥
 (कम्मुरलदुगमपज्जे, वेउंविदुगं च मन्निलद्धिल्ले ।
 पज्जेसु उरलोच्चिय, वाए वेउवियदुगं च ॥ १॥)
 मइसुयअन्नाण, अचक्खुदंसणेकारसेसु ठाणेषु ।
 पज्जत्तचउपणिंदिसु, सचक्खुसन्नीसु वारसवि ॥८॥
 इगिविगलथावरेसु, न मणो दोभेय केवलदुगम्मि ।
 इगिथावरे न वाया, विगलेसु असच्चमोसेव ॥९॥
 सच्चा असच्चमोसा, दो दोसुवि केवलेसु भासाओ ।
 अंतरगइकेवल्लिएसु कम्मपन्नतथ तं विवक्खाए ॥१०॥
 मणनाणविभंगेषु, मीसं उरलंपि नारयसुरेषु ।
 केवलथावरविगले वेउंविदुगं न संभवइ ॥११॥
 आहारदुगं जायइ, चोइसपुविस्स इइ विसेसणओ ।
 मणुगइपंचेन्दीपमाइएसु समईए जोएज्जा ॥१२॥
 मणुयगईए वारस, मणकेवलवज्जिया नवन्नासु ।
 इगिथावरेसु तिन्नि उ, चउ विगले वार तससगले ॥१३॥
 जोए वेए सन्नी, आहारगभव्वसुकलेसासु ।
 वारस संजमसम्भे, नव दस लेसाकसाएसु ॥१४॥

सम्मत्तकारणेहिं, मिच्छनिमित्ता न हेति उवञ्चोगा ।
 केवलदुगेण सेसा, संतेव अचखुचख्वूसु ॥१५॥
 जोगाहारदुगूणा, मिच्छे सासायणे अत्रिए य ।
 अपुठ्वाइसु पंचसु नव ओरालो मणवई य ॥१६॥
 वेउव्विणा जुया ते, मीसे साहारगेण अपमत्ते ।
 देसे दुव्विउव्विजुया, आहारदुगेण य पमत्ते ॥१७॥
 अज्जोगो अज्जोगी, सत्त सजोगमि हेति जोगा उ ।
 दो दो मणवइजोगा, उरालदुगं सकम्मइगं ॥१८॥
 अचखुचख्वूदंसणमन्नाणतिगं च मिच्छसासाणे ।
 विरयाविरए सम्मे, नाणतिगं दंसणतिगं च ॥१९॥
 मिस्संमि वामिस्सं, मणनायजुयं पमत्तपुष्पाणं ।
 केवलियनाणदंसणउवओग अजोगिजोगीसु ॥२०॥
 गइइदिए य काए, जोगे वेए कसायनाणे य ।
 संजमदंसणलेसा, भवसम्मे सन्नि आहारे ॥ २१ ॥
 तिरियगइए चोइस, नारयसुरनरगईसु दो ठाणा ।
 एगिंदिएसु चउरो, विंगलपणिंदीसु छच्चउरो ॥२२॥
 दस तसकाए चउ चउ, धावरकाएसु जीवठाणाइं ।

चत्वारि अद्दु दोन्निय, कायवई माणसेसु कमा ॥२३॥
 चउ चउ पुमिथिवेए, सव्वाणि नपुंससंपराएसु ।
 किण्हाइतिगाहागभव्वाभवे य मिच्छे य ॥२४॥
 तेऊ लेसाइसु दोन्नि, संजमे एकमद्दुमणहारे ।
 सण्णी सम्मंमि य दोन्नि सेसयाइं असंनिम्मि ॥२५॥
 दुसु नाणदंसणाइं, सव्वे अन्नाणिणो य विन्नेया ।
 सन्निमि अयोगिअवेइएवमाइ सुणेयव्वं ॥ २६ ॥
 दोमइसुयथोहिदुगे, एकं मणनाणकेवलविभंगे ।
 ठत्तिगं व चख्कुदंसणचउदस ठाणाणि सेसतिगे ॥२७॥
 सुरनारएसु चत्वारि, पंच तिरिएसु चोदस मणूसे ।
 इगिन्निगलेसु जुयलं, सव्वाणि पणिंदिसु हवंति ॥२८॥
 सव्वेसु वि मिच्छो, वाउतेउसुहुमतिगं पमोत्तूण ।
 सासायणो उ सम्मो, सन्निदुगे सेससन्निमि ॥२९॥
 जा वायरो ता वेएसु, तिसु वि तह तिसु य संपराएसु ।
 लोभंमि जाव सुहुमो, छल्लेसा जाव सम्मो त्ति ॥३०॥
 अपुव्वाइसु सुक्का, नत्थि अजोगिम्मि तिन्नि सेसाणं
 मीसो एगो चउरो, असंजया संजया सेसा ॥ ३१ ॥

अब्भविण्णसु पढमं, सव्वाणियरेसु दो असन्नीसु ।
 सन्नीसु वार केवल्लि नो सन्ना नो असण्णीवि ॥३२
 अपमत्तुवसन्त अजोगि, जाव सव्वेवि अविरयाईया ।
 वेयगउवसमखाइयदिट्ठी कमसो मुण्येव्वा ॥ ३३ ॥
 आहारगेषु तेरस्स, पंच अणाहारगेषु वि भवंति ।
 भणिया जोगुवयोगाण, मग्गणा वंधगे भणिमो ॥३४

॥ इति योगोपयोगमार्गणाख्यं प्रथमं द्वारम् ॥

॥ अथ द्वितीयं बंधकद्वारम् ॥

चउदसविहा वि जीवा, विबंधगा तेसिमंतिमो भेत्थो
 चोदसहा सव्वेवि हु, किमाइसंताइपयनेया ॥ १ ॥
 किं जीवा उवसममाइएहिं संजुयं दव्वं ।
 फस्स सरूवस्स पहू, केणन्ति न केणइ कयाउ ॥ २ ॥
 करथ सरीरे लोए व, हुंति केवचिर सव्वकालंतु ।
 कइ भावजुया जीवा दुगतिगचउपंचमीसेहिं ॥ ३ ॥

चुरनेरइया तिसु तिसु, वाउपणिदीतिरिक्ख चउ चउसु
 ण्णुया पंचसु सेसां, तिसु तणुसु अविग्गहा सिद्धा ४
 ष्ठवाइंचउ चउहा साहारणवणंपि संतयं सययं ।
 .त्तेय पज्जपज्जा, दुविहा सेसा उ उववन्ना ॥५॥
 मिच्छा अविश्यदेसा, पमत्तअपमत्तया सजोगी य ।
 सव्वद्धं इयरगुणा, नाणाजीवेसु वि न हेंति ॥६॥
 ष्ठदुगजोगाईणं, ठवियमहो एगण्णेग इइ जुयलं ।
 इगि जोगाउ दु दु गुणा, गुणियविमिस्सा भवे भंगा ७॥
 अहवा एक्कपईया, दो भंगा इगिवहुत्तसन्ना जे ।
 एए च्चिय पयवुद्धीए, तिगुणा दुगसंजुया भंगा ॥८॥
 साहारणाण भेया, चउरो अणंता असंखया सेसा ।
 मिच्छाणंता चउरो, पलियासंखंससेससंखेज्जा ॥९॥
 पत्तेय पज्जवणकाइआओ पयरं हरंति लोगस्स ।
 अंगुलअसंखभागेण, भाइयं भूदगतण य ॥१०॥
 आवलिवग्गो, ऊणावलीए गुणित हु वायरा तेऊ ।
 वाऊ य लोगसंखं, सेसतिगमसंखिया लोगा ॥११॥
 पज्जत्तापज्जत्ता, वितिचउअसन्निणो अवहरंति ।

अंगुलसंखासंखप्पएसभइयं पुढो पयरं ॥१२॥
 सन्नी चउसु गईसु, पढमाए असंखसेढिनेरइया ।
 सेढिअसंखेज्जसो; सेसासु जहोत्तरं तह य ॥१३॥
 संखेज्जजोयणाणं, सूइपएसेहिं भाइओ पयरो ।
 वंतरसुरेहिं हीरइ, एवं एकेकभेएणं ॥१४॥
 ठप्पन्नदोसयंगुलसूइपएसिं भाइओ पयरो ।
 जोइसिएहिं हीरइ, सछाणे तीय संखगुणा ॥१५॥
 अस्संखसेढिखपएसतुल्लया पढमदुइयकप्पेसु ।
 सेढियसंखससमा, उवरिं तु जहोत्तरं तह य ॥१६॥
 सेढीएकेकपएसरइयसूईणमंगुलप्पमियं ।
 घम्माए भवणसोहम्मयाण माणं इमं होइ ॥१७॥
 छप्पन्नदोसयंगुलभूओ भूओ विगप्प मूलतिगं ।
 गुणिया जहुत्तरत्था, रासीओ कमेण सूईओ ॥१८॥
 अहवंगुलप्पएसो, समूलगुणिया उ नेरइयसूई ।
 पढमदुइयापयाइं, समूलगुणियाइं इयराणं ॥१९॥
 अंगुलमूलासंखियभागप्पमिया उ हेअंति सेढीओ ।
 उत्तरविउव्वियाणं, तिरियाण य सन्निपज्जाणं ॥२०॥

उक्कोसपए मणुया, सेढीरूवाहिया अवहरंति ।
 तइयमूलाहएहिं, अंगुलमूलप्पएसेहिं ॥२१॥
 सासायणाइचउरो, हेंति असंखा अणंतया मिच्छा ।
 कोडिसहस्सपुहुत्तं, पमत्तइयरे उ थोवयरा ॥२२॥
 एगाइ चउप्पण्णा, समगं उवसामगा य उवसंता ।
 अद्धं पडुच्च सेढीए, हेंति सब्बेवि संखेज्जा ॥२३॥
 खवगा खीणाजोगी, एगाइ जाव हेंति अफसयं ।
 अद्धाए सयपुहुत्तं, कोडिपुहुत्तं सजोगीओ ॥२४॥
 अप्पज्जत्ता दोन्निवि, सुहुमा एगिंदिया जए सब्बे ।
 सेसा य असंखेज्जा, वायरपवणा असंखेसु ॥२५॥
 सासायणाइ सब्बे, लोयस्स असंखयंमि भागम्मि ।
 मिच्छा उ सब्बलोए, होइ सजोगीवि समुग्घाए ॥२६॥
 वेयणकसायमारणवेउवियतेउहारकेवखिया ।
 सग पण चउ तिन्नि कमा, मणुसुरनेरइयतिरियाणं २७
 पंचेदियतिरियाणं, देवाण व हेंति पंच सन्नीणं ।
 वेउवियवांजणं, पढसा चउरो समुग्घाया ॥२८॥
 चउदसविहावि जीवा, समुग्घाएणं फुसंति सब्बजगं ।

संसारंमि अडंतो, जाव य कालेण फुसिय सवाण् ।
 इगू जीवु मुबइ वायर, अन्नयरतणुट्टिओ सुहुमो ॥३८॥
 लोगस्स पएसेसु, अणंतरपरंपराविभत्तीहिं ।
 खेत्तंमि वायरो सो सुहुमो उ अणंतरमयस्स ॥३९॥
 उस्सप्पिणिसमएसु, अणंतरपरंपराविभत्ताहिं ।
 कालम्मि वायरो सो सुहुमो उ अणंतरमयस्स ॥४०॥
 अणुभागछाणेसुं अणंतरपरंपराविभत्तीहिं ।
 भावंमि वायरो सो, सुहुमो सब्वेसुणुक्कमसो ॥४१॥
 आवलियाणं छक्कं, समयादारब्भ सासणो होइ ।
 मीसुवसम अंतमुहू, खाइयदिछी अणंतद्धा ॥४२॥
 वेयगअविरयसम्मो, तेत्तीसयराइं साइरेगाइं ।
 अंतमुहुत्ताओ पुव्वकोडी देसो उ देसूणा ॥४३॥
 समयाओ अंतमुहू, पमत्तअपमत्तयं भयंति मुणी ।
 देसूणपुव्वकोडिं, अन्नोन्नं चिछहि भयंता ॥४४॥
 समयाओ अंतमुहू, अपुव्वकरणाउ जाव उवसंतो ।
 खीणाजोगीणंतो, देसस्सव जोगिणो कालो ॥४५॥
 एगिंदियाणणंता, दोणिण सहस्सा तसाण कायठिई ।

रिउसेढीए व केई, एवं मिच्छा सजोगीया ॥२९॥
 मीसा अजयां थड थड, वारस सासायणा छ देसजई
 सग सेसा उ फुसंति, रज्जू खीणा असंखसं ॥३०॥
 सहसारंतियदेवा, नारयनेहेण जंति तइयभुवं ।
 निज्जंति अच्चुयं जा अच्चुयदेवेण इयरसुरा ॥३१॥
 छट्टाए नेरइओ, सासणभावेण एइ तिरिमणुए ।
 लोगंतनिरकुडेसु जंतत्ते(तो)सासणगुणत्था ॥३२॥
 उवसामगउवसंता, सव्वठे अप्पमत्तविरया य ।
 गच्चंति रिउगईए, पुंदेसजया उ वारसमे ॥३३॥
 सत्तणहमपज्जाणं, अंतमुहुत्तं दुहावि सुहुमाणं ।
 सेसाणंपि जहन्ना, भवठिई होइ एमेव ॥३४॥
 वावीससहस्साइं, वारस वासाइं अउणपन्नदिणा ।
 छम्मासपुव्वकोडीत्तेत्तीसयराइं उक्कोसा ॥३५॥
 होइ अणाइ अणंतो, अणाइ संतो य साइसंतो य
 देसूणपोगलद्धं, अंतमुहुत्तं चरिममिच्छो ॥३६॥
 पोगलपरियटो इह, दव्वाइ चउव्विहो मुणेयव्वो ।
 एक्केको पुण दुविहो, घायरसुहुमत्तभेएणं ॥३७॥

संसारंमि अडंतो, जाव य कालेण फुसिय सवाण् ।
 इगू जीवु मुबइ वायर, अन्नयरतणुट्टिओ सुहुमो ॥३८।
 लोगस्स पएसेसु, अणंतरपरंपराविभत्तीहिं ।
 खेत्तंमि वायरो सो सुहुमो उ अणंतरमयस्स ॥३९॥
 उस्सप्पिसमएसु, अणंतरपरंपराविभत्ताहिं ।
 कालम्मि वायरो सो सुहुमो उ अणंतरमयस्स ॥४०॥
 अणुभागछाणेषुं अणंतरपरंपराविभत्तीहिं ।
 भावंमि वायरो सो, सुहुमो सव्वेसुणुक्कमसो ॥४१॥
 आवलियाणं छक्कं, समयादारव्वभ सासणो होइ ।
 मीसुवसम अंतमुहू, खाइयदिछी अणंतद्धा ॥४२॥
 वेयगअविरयसम्मो, तेत्तीसयराइं साइरेगाइं ।
 अंतमुहुत्ताओ पुव्वकोडी देसो उ देसूणा ॥४३॥
 समयाओ अंतमुहू, पमत्तअपमत्तयं भयंति मुणी ।
 देसूणपुव्वकोडिं, अन्नोन्नं चिछहि भयंता ॥४४॥
 समयाओ अंतमुहू, अपुव्वकरणाउ जाव उवसंतो ।
 खीणाजोगीणंतो, देसस्सव जोगिणो कालो ॥४५॥
 एगिंदियाणणंता, दोणिण सहस्सा तसाण कायठिई ।

अयराण इगपणिंदिसु, नरतिरियाणं सगठभवा ॥४६॥
 पुव्यकोडिपुडुत्तं, पल्लतियं तिरिनराण काखेणं ।
 नाणाइगपज्जत्तमणूण पल्लसंखंस अंतमुहू ॥४७॥
 पुरिसत्तं सन्नित्तं, सयपुहुत्तं तु होइ अयराणं ।
 थी पलियसयपुहुत्तं , नपुंसगतं अणंतद्धा ॥ ४८ ॥
 वायरपज्जेगिंदियविगलाण य वाससहस्स संखेज्जा ।
 अपज्जंतसुहुमसाहारणाण पत्तेगमंतमुहू ॥४९॥
 पत्तेयवायरस्स उ, परमा हरियस्स होइ कायठिई ।
 ओसप्पिणी असंखा, साहारत्तं रिउगइयत्तं ॥५०॥
 मोहठिइवायराणं, सुहुमाण असंख्या भवे लोगा ।
 साहारणेसु दोसद्धपुग्गला निवित्तेसाणं ॥५१॥
 सासणमासाओ हवंति, सन्तया पलियसंखइगकाला ।
 उवसामगउवसंता, समयाओ अंतरमुहुत्तं ॥५२॥
 खवगा खीणा जोगी, हेअंति अग्निच्चावि अंतरमुहुत्तं ।
 नाणाजीवे तं चिय, सत्तहिं समएहिं अब्भहियं ॥५३॥
 एगिंदित्तं सययं तसत्तणं सम्मदेसचारित्तं ।
 आवलियासंखंसं, अडसमय चरित्तसिद्धीय ॥५४॥

उवसमसेढीउवसंतया य मणुयत्तणुत्तरसुरत्तं ।
 पडिवज्जंते समया संखेया खवंगसेढी य ॥५५॥
 वत्तीसा अडयाला, सट्टी वावत्तरी य चुलसीई ।
 छंणउइ दुअठसेयं, एगाए जहुत्तरे समए ॥५६॥
 गढभयतिरिमणुंसुरनारयाण विरहो मुहुत्तवारसगं ।
 मुच्छिमनराण चउवीस, विगलअगणाण अंतमुहु ॥५७॥
 तसवायरसाहारणअसन्निअपुमाण जो ठिईकालो ।
 सो इयराणं विरहो, एवं हरियेयराणं च ॥५८॥
 आइसाणं अमरस्स, अंतरं हीणयं मुहुत्तंतो ।
 आसहसारे अच्चुयणुत्तर दिण मास वास नंव ॥५९॥
 थावरंकाहुक्कोसो, संवठे वीयओ न उववाओ ।
 वो अयरा विजयाइसु नरएसु वि याणुमाणेणं ॥६०॥
 पलियासंखो सासायणंतरं सेसयाण अंतमुहु ।
 मिच्छस्स वे छसट्टी, इयराणं पोग्गलंछं तो ॥६१॥
 वासपुहुत्तं उवसांमगाण विरहो छमांस खवंगाणं ।
 नाणाजीएसु सासाणमीसाणं पल्लसंखंसो ॥६२॥
 सभमाई तिन्नि गुणा, कमेसो सगेचोइपन्नरदिणाणि

छम्मास अजोगित्तं, न कोवि पडिवज्जए सययं ॥६३॥
 सम्माइचउसु तिय चउ, उवसमगुवसंतयाण चउ पंच
 चउ खीणअपुवाणं, तिन्नि उ भावावसेसाणं ॥६४॥
 थोवा गवभयमणुया, तत्तो इत्थीओ तिघणगुणियाओ।
 वायरतेउक्काया, तासिमसंखेज्ज पज्जत्ता ॥६५॥
 तत्तोणुत्तरदेवा, तत्तो संखेज्ज जाणओ कप्पो ।
 तत्तो असंखगुणिया, सत्तमच्छठी सहस्सारो ॥६६॥
 सुक्कंमि पंचमाए, खंतय चोत्थीए वंभतच्चाए ।
 माहिंदसणकुमारे, दोच्चाए मुच्छिमा मणुया ॥६७॥
 ईसाणे सव्वत्थवि, वत्तीसगुणाओ हेअंति देवीओ ।
 संखेज्जा सोहम्मे, तओ असंखा भवणवासी ॥६८॥
 रयणप्पभिया खहयरपणिदि संखेज्ज तत्तिरिक्खीओ ।
 सव्वत्थ तओ थलयरजलयरवणजोइसा चेवं ॥६९॥
 तत्तो नपुंसखहयरसंखेज्जा थलयरजलयरनपुंसा ।
 चउ रिदि तओ पणवितिइंदियपज्जत्त किंचि(च)हिया ७०
 असंखा पण किंचि(च)हिय,सेस कमसो अपज्ज ओभयओ
 पंचेदिय विसेसहिया, चउतियवेइंदिया तत्तो ॥ ७१ ॥

पञ्जत्तवाधरपत्तेयतरू असंखेज्ज इति निगोयाओ ।
 पुढवी आऊवाउ, वाधरअपञ्जत्ततेउ तथो ॥७२॥
 वादरतरूनिगोया, पुढवीजलवाउतेउ तो सुहुमा ।
 तत्तो विसेसअहिया, पुढवीजलपवणकाया उ ॥७३॥
 संखेज्जसुहुमपञ्जत्त, तेउ किंचि(च)हियभुजलसमीरा ।
 तत्तो असंखगुणिघा, सुहुमनिगोया अपञ्जत्ता ॥७४॥
 संखेज्जगुणा तत्तो पञ्जत्ताणंतया तओ भवा ।
 पडिवडियसम्मसिद्धा, वणवायरजीवपञ्जत्ता ॥७५॥
 किंचि(च)हिया सामन्ना, एए उ अंसंखवणअपञ्जत्ता
 एए सामन्नेणं, विसेसअहिया अपञ्जत्ता ॥७६॥
 सुहुमा वणा असंखा, विसेसअहिया इमे उ सामन्ना ।
 सुहुमवणा संखेज्जा, पञ्जत्ता सब किंचि(च)हिया ॥७७॥
 पञ्जत्तापञ्जत्ता, सुहुमा किंचि(च)हिया भवसिद्धीया
 तत्तो वायरसुहुमा, निगोयवणस्सइ जिया तत्तो ॥७८॥
 एगिंदिया तिरिक्खा, चउगइमिच्छा य अविइजुया
 सकसाया छउमत्था, सजोगसंसारि सब्बेवि ॥७९॥
 उवसंतखवगजोगी अपमत्तपमत्तदेससासाणा ।

मीसा विरया चउ चउ जहुत्तरं संखसंखगुणा ॥८०॥
 उक्कोसपए संता मिच्छा तिसु गईसु हेंतसंखगुणा ।
 तिरिए सणंतगुणिया सन्निसु मणुएसु संखगुणा ॥८१॥
 एगिंदियसुहुमियरा सन्नियर पणिंदिया सवित्तिचऊ ।
 पज्जत्तापज्जत्ताभेएणं चोइसग्गामा ॥ ८२ ॥
 मिच्छा सासणमिस्सा अविरयदेसा पमत्तअपमत्ता ।
 अपुव्ववायरसुहुमोवसंतखीणा सज्जोगियरा ॥ ८३ ॥
 तेरसवि बंधगा ते अट्टविहं बंधियव्वयं कम्मं ।
 मूलुत्तरभेयं ते साहिमो ते निसामेह ॥ ८४ ॥
 ॥ इति द्वितीयं बन्धकद्वारं समाप्तम् ॥

॥ अथ तृतीयं बन्धव्यद्वारं प्रारभ्यते ॥

नाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणीयं ।
 आउ य नामं गोयं तहंतरायं च पयडीओ ॥ १ ॥
 पंच नव दोन्नि अट्टावीसा चउरो तहेव वायाला ।
 दोन्नि य पंचय भणिया, पयडीओ उत्तरा चेव ॥२॥
 मइसुयओहीमणकेवलाण आवरणयं भवे पढमं ।

तह दाणलाभभोगोवभोगविरियंतराययं चरिमं ॥३॥
 नयणेयरोहिकेवल दंसण आवरणयं भवे चउहा ।
 निदापयलाहिं छहा निदाइदुरुत्तथोणद्धी ॥ ४ ॥
 सोलस कसाय नव नोकसाय दंसणतिगं च मोहणीयं
 सुरनरतिरिनिरयाऊ सायान्नायं च नीउच्चं ॥ ५ ॥
 गइजाइसरीरंगं, वंधणसंघायणं, च संघयणं ।
 संटाणवन्नगंधरसफासअणुपुवित्रिहगगई ॥६॥
 अगुरुयलहु उवघायं, परघाउस्सास आयबुज्जोयं ।
 निम्माणतिरथनामं च, चोइस अड पिंडपत्तेया ॥७॥
 तस वायरपज्जत्तं, पत्तेयथिरं सुभं च नायव्वं ।
 सुस्सरसुभगाइज्जं, जसकित्ती सेयरा वीसं ॥८॥
 गर्ईयाईयाणभेया, चउ पण पणति पण पंच छ छक्कं ।
 पण दुग पणट्ट चउ दुग, पिंडुत्तरभेय पणसठी ॥९॥
 ससरीरंतरभूया, वंधणसंघायणाउ वंधुदण ।
 वण्णाइविगप्पावि हु, वंधे नो सम्ममीसाई ॥१०॥
 वेउवाहारोरालियाण सगतेय कम्मजुत्ताणं ।
 नव वंधणाणि इयर, दुजुत्ताणं तिण्णि तेसिं च ।

ओरालियाइणं, संघाया बंधगाणि य सजोगे ।
 बंधसुभसंतउदया, आसज्ज अण्णगहा नामं ॥१२॥
 नीलकसीणं दुगंधं, तित्तं कडुयं गुरुं खरं रुक्खं ।
 सीयं च असुभनवगं, एगारसगं सुभं सेसं ॥१३॥
 धुवबंधिधुवोदयसव्वघाइपरियत्तमाणअसुभाओ ।
 पंच य सपडिववखा, पगई य विवागअओ चउहा ॥१४॥
 नाणंतरायदंसण, धुवबंधि कसायमिच्छभयकुच्छा ।
 अगुरुलघुनिमिणतेयं, उवघायं वणणचउकम्मं ॥१५॥
 निम्माणथिराथिरतेयकम्मवण्णाइअगुरुसुहमसुहं ।
 नाणंतरायदसगं, दंसणचउमिच्छ निच्चुदया ॥१६॥
 केवलियनाणदंसणआवरणं वारसाइमकसाया ।
 मिच्छत्तं निदाओ, इय वीसं सव्वघाईओ ॥ १७ ॥
 सम्मत्तनाणदंसणचरित्तघाइत्तणा उ घाईओ ।
 तस्सेसदेसघाइत्तणा उ पुण देसघाईओ ॥ १८ ॥
 नाणावरणचउक्कं दंसणतिगनोकसायविग्घपणं ।
 संजलण देसघाई, तइयविगप्पो इमो अन्नो ॥ १९ ॥
 नाणंतरायदंसणचउक्कं परघायतिस्थउस्सासं ।

मिच्छभयंकुच्छध्रुवबंधिणी उ नामस्स अपरियत्ता ॥२०॥
 मणुयतिगं देवतिगं, तिरियाजसास अष्ठतणुयंगं ।
 विहगइवण्णाइसुभं, तसाइदसत्तिथनिम्माणं ॥२१॥
 चउरंसउसंभआयवपराघायपणिदिअगुरुसाउच्चं ।
 उज्जोयं च पसत्था, सेसा वासीइ अपसत्था ॥२२॥
 आयावं संठाणं, संघयणसरीरअंगउज्जोयं ।
 नामध्रुवोदयउवपरघायं पत्तेयसाहारं ॥ २३ ॥
 उदइयंभावा पोग्गलविवागिणो आउ भवविवागीणि
 खेत्तविवागणुपुब्बी जीवविवांगां उ सेसाओ ॥ २४ ॥
 मोहंस्सेव उवसमो खाओवसमो चउण्ह घाईणं ।
 खयंपरिणामियउंदया अठण्ह वि हेअंति कम्माणं ॥२५॥
 सम्मत्ताइ उवसमे खाओवसमे गुणां चरिच्चाई ।
 खइए केवलमाई, तव्ववएसो उ उदईए ॥ २६ ॥
 नाणंतरायदंसणवेयणियाणं तु भंगया दोन्नि ।
 साइसपज्जवसाणोवि होइ सेसाण परिणामो ॥२७॥
 चउत्तिष्ठाणरसाइं, संब्वघाईणि हेअंति फड्डाइं ।
 दुष्ठाणियाणि-मीसाणि देसवाईणि सेसाणि ॥ २८ ॥

निहएसु सवघाईरसेसु फड्डेसु देसघाईणं ।
 जीवस्स गुणा जायंति ओहिमणचरुखुमाईया ॥२९॥
 आवरणमसव्वग्घं, पुंसंजलणंतरायपयडीओ ।
 चउठाणपरिणयाओ, दुतिचउठाणाउ सेसाओ ॥३०॥
 उप्पलभूमीवाहुयजलरेहासरिससंपराएसुं ।
 चउठाणाई असुभाण, सेसयाणं तु वच्चासो ॥३१॥ -
 घोसाडइनिंबुवमो, असुभाण सुभाण खीरखंडुवमो ।
 एगघाणो उ रसो, अणंतगुणिया कमेणियरे ॥३२॥
 उच्चं तिरथं सम्मं, मीसं वेउविल्लक्कमाऊणि ।
 मणुदुगआहारदुगं, अट्टारस अधुवसत्ताओ ॥३३॥
 पढमकसायसमेया, एयाओ आउतित्थवज्जाओ ।
 सत्तरसुव्वलणाओ, तिगेसु गइआणुपुव्वाऊ ॥ ३४ ॥
 नियहेउसंभवे वि हु, भयणिज्जो जाण होइ पयडीणं ।
 वंधो ता अधुवाओ, धुवा अभयणिज्जवंधाओ ॥३५॥
 दवं खेत्तं कालो, भवो य भावो य हेयवो पंच ।
 हेउसमासेणुदओ, जायइ सवाण पगईणं ॥३६॥
 अब्बोच्छिन्नो उदओ, जाणं पगईण ता धुवोदइया ।

वोच्छिन्नो वि हु संभवइ, जाण अधुवोदया ताओ ३७।
 अस्सुभसुभत्तणघाइत्तणाइं रसभेयओ मुणिज्जाहि ।
 सविसयघायणभेएण वा वि घाइत्तणं नेयं ॥३८॥
 जो घाएइ सविसयं, सयलं सो होइ सब्बघाइरसो ।
 सो निच्छिदो निद्धो, तणुओ फलिहप्पहरविमलो ३९॥
 देसविघाइत्तणओ, इयरो कडकंवलंसुसंकासो ।
 विविहवहुच्छिदभरिओ, अप्पसिणोहो अविमलो य ॥४०॥
 जाण न विसओ घाइत्तणंमि ताणंपि सब्बघाइरसो ।
 जायइ घाइसगासेण, चोरया वेह चोराणं ॥४१॥
 घाइखओवसमेणं, सम्मचरित्ताइं जाइं जीवस्स ।
 ताणं हणंति देसं, संजलणा नोकसाया य ॥४२॥
 विणिवारिय जा गच्छइ, वंधं उदयं च अन्नपगईए ।
 सा हु परियत्तमाणी, अणिवारेती अपरियत्ता ॥४३॥
 दुविहा विवागओ पुण, हेउविवागाउ रसविवागाउ ।
 एकेका वि य चउहा, जओ च सहो विगप्पेणं ॥४४॥
 जा जं समेच्च हेउं, विवागउदयं उवेति पगईओ ।
 ता तद्विवागसन्ता, सेसभिहाणाइं सुगमाइं ॥४५॥

अरइरईणं उदओ, किन्न भवे पोग्गलाणि संपप्प ।
 अप्पुट्ठेहि वि किन्नो, एवं कोहाइयाणंपि ॥४६॥
 आउव्व भवविवागा, गई न आउस्स परभवे जह्वा ।
 नो सव्वहा वि उदओ, गईण पुण संकमेणत्थि ॥४७॥
 अणुपुव्वीणं उदओ, किं संकमणेण नत्थि संते वि ।
 जह खेत्त हेउअओ ताण न तह अन्नाण सविवागो ॥४८॥
 संपप्प जीयकाले, उदयं काओ न जंति पगईओ ।
 एवमिणमोहहेउं, आसज्ज विसेसयं नत्थि ॥ ४९ ॥
 केवलदुगस्स सुहमो हासाइसु कह न कुणइ अपुव्वो
 सुभगाईणं मिच्छो, किलिडुअओ एगठाणिरसं ॥५०॥
 जलरेहसमकसाए वि, एगठाणी न केवलदुगस्स ।
 जं अणुयंपि हु भणियं आवरणं सव्वघाईं से ॥ ५१ ॥
 सेसासुभाण वि न जं, खवगियराणं न तारिसा सुद्धी ।
 न सुभाणंपि हु जम्हा, ताणं वंधो विसुप्पंति ॥५२॥
 उक्कोसठिई अप्रवसाणेहिं एगठाणिअओ होही ।
 सुभियाण तन्न जं ठिइअसंखगुणियाउ अणुभागा ॥५३॥
 दुविहमिह संतकम्मं, धुवाधुवं सूइयं च सद्देण ।

ध्रुवसन्तं चिय पढमा, जओ न नियमा विसंजोगो ५४
 देवनिरंयाउवेउव्विच्छक्कआहारजुयलतित्थाणं ।
 धंधो अणुदयकाले, ध्रुवोदयाणं तु उदयम्मि ॥५५॥
 गयचरिमलोभध्रुवबंधिमोहहासरइमणुयपुव्वीणं ।
 सुहुमंतिगआयवाणं, सपुरिसवेयाण वंधुदया ॥५६॥
 वोच्छिज्जंति समं चिय, कमसो सेसाण उक्कमेणं तु
 अहणहमजससुरतिगवेउवाहारजुयलाणं ॥ ५७ ॥
 ध्रुववन्धिणी उ तित्थगरनाम आउ य चउक्क वावन्ना ।
 एया निरंतरा उ, सगवीसुभ संतरा सेसा ॥ ५८ ॥
 चउरंसउसभपरघाउसासपुंसगलसायसुभखगई ।
 वेउव्विउरलसुरनरतिरिगोयदु सुसरतस तिचऊ ॥५९॥
 समयाओ अंतमुहु, उक्कोसो जाण संतरा ताओ ।
 वन्धेहियंमि उभया, निरंतरा तम्मि उ जहन्ने ॥६०॥
 उदए व अणुदए वा, वन्धाओ अन्नसंकमाओ वा ।
 ठिइ संतं जाण भवे, उक्कोसं ता तयक्खाओ ॥६१॥
 मणुगई सायं सम्मं, थिरहासाइछ वेयसुभखगई ।
 रिसहचउरंसगाई, पणुच्च उदसंकमुक्कोसा ॥ ६२ ॥

मणुयाणुपुविमीसगआहारगदेवजुगलविगलाणि ।
सुहुमाइतिगं तित्थं, अणुदयसंकमण उक्कोसा ॥ ६३ ॥
नारयतिरिउरलदुगं, ठेवठेगिंदियावरायावं ।
निहा अणुदयजेठा, उदउक्कोसा पराणाऊ ॥ ६४ ॥
चरिमसमयंमि दलियं, जासिं अन्नत्थसंकमे ताओ ।
अणुदयवइ इयरीओ, उदयवई हेंति पगईओ ॥ ६५ ॥
नाणंतरायआउगदंसणचउवेयणीयमपुमित्थी ।
चरिमुदयउच्चवेयग, उदयवई चरिमलोभो य ॥ ६६ ॥
॥ इति वन्धव्याभिधानं तृतीयं द्वारम् ॥

॥ अथ धंधहेतुलक्षणं चतुर्थं द्वारम् ॥

धन्धस्स मिच्छअविरइकसायजोगा य हेयवो भणिया
ते पंच दुवालस पन्नवीस पन्नरस भेइछा ॥ १ ॥
आभिग्गहियमणाभिग्गहं च अभिनिवेसियं चैव ।
संसइयमणाभोगं, मिच्छत्तं पंचहा होइ ॥ २ ॥
छक्कायवहो मणइंदियाण अजमो असंजमो भणिओ
इइ धारसहा सुगमो, कसायजोगाय पुव्वुत्ता ॥ ३ ॥

चउपचइथो मिच्छे, तिपच्चओ मीससासणाविरए ।
 दुगपच्चओ पमत्ता , उवसंता जोगपच्चइथो ॥ ४ ॥
 पणपन्न पन्न तियछहियचत्त गुणचत्त छक्कचउसहिया ।
 दुजुया य वीस सोलस,दस नव नव सत्त हेऊय ॥५॥
 दस दस नव नव अड पच्च,जइतिगे दुदुग सेसयाणेगो
 थड सत्त सत्त सत्तग, छ दो दो दो इगि जुया वा ६
 मिच्छत्तकायएगाइघायअन्नयरअक्खजुयलुदओ ।
 वेयस्स कसायाण य , जोगस्सणभयदुगंछा वा ॥७॥
 इच्चेसिमेगगहणे तस्संखा भंगया उ कायाणं ।
 जुयलस्स जुयं चउरो , सया ठवेज्जा कसायाणं॥८॥
 जा घायरो ता घाओ,विगप्प इइ जुगववन्धहेऊणं ।
 थणवन्धिभयदुगंछाण चारणा पुण विमज्झेसु॥ ९ ॥
 अणउदयरहियमिच्छे,जोगा दस कुणइ जन्न सो कालं
 अणणुदथो पुण तदुवलगसम्मदिट्ठिस्स मिच्चुदए १०
 सासायणम्मि रूवं,चय वेयहयाणनियगजोगाण ।
 जम्हा नपुंसउदए, वेउत्तियमीसगो नत्थि ॥ ११ ॥
 चत्तारि अविरए चय,थीउदएत्तिउत्तियमीसकम्मइया ।

इत्थिनपुंसगउदए, ओरालियमीसगो नत्थि ॥ १२ ॥
 दोरुवाणि पमत्ते, चयाहि एगं तु अण्णमत्तंम्मि ।
 जं इत्थिवेयउदए, आहारगमीसगा नत्थि ॥ १३ ॥
 सब्वगुणठाणगेषु, विसेसहेज्जण एत्तिया संखा ।
 ठायाललक्ख वासीई, सहस्स सय सत्त सयरी य ॥१४॥
 सोलसठारस हेज्ज, जहन्न उक्कोसया अंसन्नीणं ।
 चोहसठारसऽपज्जस्स सन्निणो सन्निगुणगहिओ ॥१५॥
 मिच्छत्तं एगं चिय, ठक्कायवहो तिजोगसन्निम्मि ।
 इंदियसंखा सुगमा, अंसन्निविगलेसु दो जोगा ॥१६॥
 एवं च अपज्जाणं, वायरसुहुमाण पज्जयाण पुणो ।
 तिण्णेक्ककायजोगा, सण्णिण अपज्जे गुणा तिन्नि ॥१७॥
 उरलेण तिन्नि छण्हं, सरीरपज्जत्तयाण मिच्छाणं,
 सविउव्वेणं सन्निस्स, सम्ममिच्छस्स वा पंच ॥१८॥
 सोलस मिच्छनिमित्ता, वप्रहि पणतीस अविरईए य ।
 सेसा उ कसाएहिं, जोगेहि य सायवेयणीयं ॥१९॥
 तित्थयराहाराणं, वंधे सम्मत्तसंजमा हेज्ज ।
 पयडीपएसबंधा, जोगेहिं कसायओ इयरं ॥ २० ॥

खुप्पिवासुण्हसीयाणि, सेज्जा रोगो ब्रहो मलो ।
तणफासो चरीया य, दंसेक्कारस जोगिसु ॥ २१ ॥
वेयणीयभवा एए पन्नानाणा उ आइमे ।
अट्टमंमि अत्ताभोत्थो छउमत्थेसु चोइस ॥ २२ ॥
निसेज्जा जायणाकोसो, अरई इत्थिनग्गया ।
सक्कारो दंसणं मोहा, वावीसा चेत्र रागिसु ॥ २३ ॥

॥ इति बंधहेतुलक्षणं चतुर्थं द्वारम् ॥

॥ अथ बन्धविधिलक्षणं पंचमं द्वारम् ॥

षट्सुदओ उदए, उदीरणा तदवसेसयं संतं ।
तम्हा बंधविहाणे, भन्नंते इइ भणियव्वं ॥ १ ॥
जा अपमत्तो सत्तट्टबंधगाः सुहुम छण्हमेगस्स ।
उवसेंतखीणजोगी, सत्तण्हं निपट्टिमीसअनियट्टी ॥ २ ॥
जा सुहुमसंपराओ, उइत्त संताइं ताव सव्वाइं ।
सत्तट्टुवसेंतेः खीणे, सत्त सेसेसु चत्तारि ॥ ३ ॥
बंधंति सत्तअट्ट व, उइत्तसत्तट्टुगा उ सव्वे वि ।

सत्तद्वृत्तेगबंधगभंगा पञ्जत्तसन्निमि ॥ ४ ॥
 जाव पमत्तो अट्टणहुदीरगो वेयआउवज्जाणं ।
 सुहुमो मोहेण य जा, खीणो तप्परओ नामगोयाणं ॥
 जावुदओ ताव उदीरणा वि वेयणीयआउवज्जाणं ।
 अट्टावलिया सेसे, उदए उ उदीरणा नरिध ॥ ६ ॥
 सायासायाऊणं, जाव पमत्तो अजोगि सेसुदंओ ।
 जा जोगि उईरिज्जइ, सेसुदया सोदयं जाव ॥ ७ ॥
 निदाउदयवईणं, समिच्छपुरिसाण एगचत्ताणं ।
 एयाणं चिय भज्जा, उदीरणा उदए नन्नासिं ॥८॥
 होइ अणाइअणंतो, अणाइसंतो य साइसंतो य ।
 धंधो अभव्वभव्वोवसंतजीवेसु इइ तिविहो ॥ ९ ॥
 पयडीठीईपएसाणुभागभेया चउव्विहेक्केक्को ।
 उक्कोसाणुक्कोसगजहन्नअजहन्नया तेसिं ॥१०॥
 ते वि हु साइअणाईधुवअद्धवभेयओ पुणो चउहा ।
 ते दुविहा पुण नेया, मूलुत्तरपयइभेएणं ॥ ११ ॥
 भूओगारप्परग, अव्वत्त अवट्ठिओ य विन्नेया ।
 मूलुत्तरपगईबंधणासिया ते इमे सुणसु ॥ १२ ॥

गछाइ मूलियाणं, वंधट्टाणा हवंति चत्तारि ।
 प्रबंधगो न वंधइ, इइ अब्बतो अओ नत्थि ॥१३॥
 भूओगारप्पयरगअव्वत्तअव्वठ्ठिया जहा वंधे ।
 उदए उदीरणाए, संते जह संभवं नेया ॥ १४ ॥
 वंधट्टाणा तिदसठ्ठ, दंसणावरणमोहनामाणं ।
 तेसाणेगमवठ्ठियबंधो सव्वत्थ ठाणसमो ॥ १५ ॥
 भूओगारा दो नव, छ यप्पतरा दु अठ्ठ सत्त कमा ।
 मिच्छाओ सासणत्तं, न एकतीसेक्कगुरु जम्हा ॥१६॥
 चउ छ,विइए नामंमि, एग गुणतीस तीस अव्वत्ता ।
 इग सत्तरस य मोहे; एक्केक्को तइयवज्जाणं ॥ १७ ॥
 इगसयरेगुत्तर जा, दुवीस छवीस तह तिपन्नाइं ।
 जा चोवत्तरि वावठ्ठिरहियबंधाओ गुणतीसं ॥ १८ ॥
 एक्कार वार.तिचउक्कवीस गुणतीसओ य चउतीसा
 चउआला गुणसठ्ठी, उदयट्टाणाइं छवीसं ॥ १९ ॥
 भूयप्पयरा इगिचउवीसं जन्नेइ केवली छउमं ।
 अज्जओ य केवलित्तं, तित्थयरियरा व अन्नोन्नं ॥२०॥
 एक्कारवारसासी; इगि चउ पंचाहिया य चउणउई ।

एत्तो चउदहियसयं, पणवीसाओ य छायालं ॥२१॥
 वत्तीसं नत्थि सयं, एवं अडयाल संत ठाणाणि
 जोगिअघाइचउक्के, भण खिविउं घाइसंताणि ॥२२॥
 साई अधुवो नियमा, जीवविसेसे अणाइ अधुव धुवो ।
 नियमा धुवो अणाई, अधुवो अधुवोव साई वा ॥२३॥
 उक्कोसा परिवडिय, साइ अणुक्कोसओ जहन्नाओ ।
 अब्बन्धाओ वियरो, तदभावे दो वि अविसेसा ॥२४॥
 तेणाई ओहेणं, उक्कोसजहन्नगो पुणो साई ।
 अधुवाण साइ सब्बे, धुवाणणाइ वि संभविणो ॥२५॥
 मूलुत्तरपगईणं, जहन्नओ पगइबन्ध उवसंते ।
 तवभट्टा अजहन्नो, उक्कोसो सन्निमिच्छंमि ॥२६॥
 आउस्स साइअधुवो, बन्धो तइयस्स साइअवसेसो ।
 सेसाण साइआई, भव्वाभव्वेसु अधुवधुवो ॥ २७॥
 साई अधुवो सव्वाण, होइ धुववन्धियाण णाइधुवो ।
 निययअवन्धचुयाणं, साइ अणाई अपत्ताणं ॥२८॥
 नरयतिगं देवतिगं, इगिविगलाणं विउव्वि नो वन्धे ।
 मणुयतिगुच्चं च गईतसंमि तिरि तित्थआहारं ॥२९॥

वेउव्वाहारदुगं, नारयसुरसुहुमविगलजाइतिगं ।
 वन्धहि न सुरा सायवथावरएगिदि नेरइया ॥ ३० ॥
 मोहे सयरी कोडाकोडीओ वीस नामगोयाणं ।
 तीसियराण चउण्हं, तेत्तीसयराइं आउस्स ॥ ३१ ॥
 भोत्तुमकसाइ तणुया, ठिइ वेयणियस्स वारसमुहुत्ता ।
 अठठ नाम गोयाण, सेसयाणं मुहुत्तंतो ॥ ३२ ॥
 सुक्किलसुरभीमहुराण, दस उ तह सुभचउण्ह फासाणं
 अट्टाइज्ज पवुट्ठी, अंवलहालिइपुव्वाणं ॥ ३३ ॥
 तीसं कोडाकोडी, असायआवरणअंतरायाणं ।
 मिच्छे सयरी इत्थीमणुदुगसायाण पन्नरस ॥ ३४ ॥
 संघयणे संठाणे, पढमे दस उवरिमेसु दुगवुट्ठी ।
 सुहुमतिवामणविगले, ठारस चत्ता कसायाणं ॥ ३५ ॥
 पुंहासरईउच्चे, सुभखगतिथिराइछक्कदेवदुगे ।
 दस सेसाणं वीसा, एवइयावाहवाससया ॥ ३६ ॥
 सुरनारयाउयाणं, अयरा तेत्तीस तिव्नि पलियाइं ।
 इयराणं चउसु वि पुव्वकोडितंसो अवाहाओ ॥ ३७ ॥
 बोलीणेसुं दोसुं, भागेसुं आउयस्स जो वन्धो ।

भणिओ असंभवाओ, न घडइ सो गइचउक्के वि ॥३८
 पलियासंखेज्जंसे, वंधंति न साहिए नरतिरिच्छा ।
 छम्मासे पुण इयरा, तदाउ तंसो वहुं होइ ॥ ३९ ॥
 पुव्वाकोडी जेसिं, आऊ अहिकिच्च ते इमं भणियं ।
 भणिअं पि नियश्चवाहं, आउं वंधंति अमुयंता ॥४०॥
 निरुवकमाण छमासा, इगिविगलाणं भवच्छिई तंसो ।
 पलियासंखेज्जंसं, जुगधम्मीणं वयंतन्ने ॥ ४१ ॥
 अंतो कोडीकोडी, तित्थयराहार तीए संखाओ ।
 तेतीसपलियसंखं, निकाइयाणं तु उक्कोसा ॥४२॥
 अंतोकोडाकोडी, ठिइए वि कहं न होइ ? तित्थयरे ।
 संते कित्तियकालं, तिरिओ अह होइ उ विरोहो ॥४३॥
 जमिह निकाइयतित्थं, तिरियभवे तं निसेहियं संतं ।
 इयरंमि नत्थि दोसो, उवट्टणवट्टणासप्पे ॥४४॥
 पुव्वकोडीपरओ; इगि विगलो वा न वन्धए आउं ।
 अंतो कोडाकोडीए आरउ अभवसन्नी उ ॥४५॥
 सुरनारयाउयाणं, दसवाससहस्स लघु सत्तिथाणं ।
 इयरे अंतमुहुत्तं, अंतमुहुत्तं अवाहाओ ॥४६॥

पुंवेए अठ वासा अठ मुहुत्ता जसुच्चगोयाणं ।
 साए वारसहारगविग्घावरणाण किंचूणं ॥४७॥
 दोमास एग अछं, अंतमहुत्तं च कोहपुवाणं ।
 सेसाणुक्कोसाओ, मिच्छत्तठिईए जं लद्धं ॥४८॥
 वेउविठक्कि तं, सहसताडियं जं असन्निणो तेसिं ।
 पलियासंखंसूणं ठिई अवाहणियनिसेगो ॥४९॥
 मोत्तुमवाहासमए, वहुगं तयणंतरे स्यइ दलियं ।
 तत्तो विसेसहीण, कमसो नेयं ठिई जाव ॥५०॥
 आउस्स पढमसमया, परभविया जेण तस्स उ अवाहा ।
 पल्लासंखियभागं, गंतुं अद्धद्धयं दलियं ॥५१॥
 पलिओवमस्स मूला, असंखभागम्मि जत्तिया समया
 तावइया हाणीओ, ठिइवन्धुक्कोसए नियमा ॥५२॥
 उक्कोसठिईवन्धा, पल्लासंखेज्जभागमित्तेहिं ।
 हसिएहिं समएहिं हसइ अवाहाए इगसमओ ॥५३॥
 जा एगिदिजहन्ना, पल्लासंखंसंजुया सा उ ।
 तेसिं जेठा सेसाण संखभागहिय जा सन्नी ॥५४॥
 पणवीसा पन्नासा, सय दससयताडिया इगिदिठिई ।

विगलासन्तीण कम्मा, जायइ जेष्ठा व इयरा वा ॥
 ठिड्ठाणाइं एगिंदियाण थोवाइं हेअंति सवाणं ।
 वेदीण असंखेज्जाणि, संखगुणियाणि जह उप्पि ॥५६॥
 सव्वजहन्ना वि ठिई, असंखलोगप्पएसतुल्लेहिं ।
 अप्रवसाएहिं भवे, विसेसअहिएहिं उवरुवरिं ॥५७॥
 अस्संखलोगखपएसतुल्लया हीणमप्पिमुक्कोसा ।
 ठिई वंधप्रवसाया, तीए विसेसा असंखेज्जा ॥५८॥
 सत्तण्हं अजहन्नो, चउहा ठिइबंधु मूलपगईणं ।
 सेसा उ साइअधुवा, चत्तारि वि आउए एवं ॥५९॥
 नाणंतरायदंसणचउक्कसंजलणठिई अजहन्ना ।
 चउहा साई अधुवा, सेसा इयराण सवाओ ॥६०॥
 अट्टारसण्ह खवगो, वायरएगिदिं सेसधुवियाणं ।
 पज्जो कुणइ जहन्नं साई अधुवो अओ एसो ॥६१॥
 अट्टाराणजहन्नो, उवसमसेदीए परिवडंतस्स ।
 साई सेसवियप्पा, सुगमा अधुवा धुवाणंपि ॥६२॥
 सव्वाणवि पगईणं, उक्कोसं सन्निणो कुणंति ठिई ।
 एगिंदिया जहन्नं असन्निखवगा य काणंपि ॥६३॥

सव्वाण ठिई असुभा, उक्कोसुक्कोससंकिलेसेणं ।
 इयरा उ विसोहीए, सुरनरतरिआउए मोत्तुं ॥६४॥
 अणुभागोणुक्कोसो, नामतइजाण घाइ अजहन्नो
 गोयस्स दोवि एए, चउव्विहा सेसया दुविहा ॥६५॥
 सुभधुवियाणणुक्कोसो, चउहा अजहन्न असुभधुवियाणं
 साई अधुवा सेसा, चत्तारिवि अधुवयंधीणं ॥६६॥
 असुभधुवाण जहणणं, वंधगचरमा क्खणंति सुविसुद्धा ।
 समयं परिवडमाणा, अजहणणं साइया दोवि ॥६७॥
 सयलसुभाणुक्कोसं, एवमणुक्कोसगं च नायव्वं ।
 वन्नाई सुभअसुभा, तेणं तेयाल धुवअसुभा ॥६८॥
 सयलासुभायवाणं, उज्जोवतिरिक्खमणुयआऊणं ।
 सन्नी करेइ मिच्छो, समयं उक्कोस अणुभागं ॥६९॥
 आहार अप्पमत्तो, क्खणइ जहन्नं पमत्तयाभिमुहो ।
 नरतिरिय चोइसण्हं, देवाजोगाण साउण ॥७०॥
 ओरालियतिरियदुगे, नीउज्जोयाण तमतमा छण्हं ।
 मिच्छनरयाणभिमुहो सम्मदिंठी उ तित्थस्स ॥७१॥
 सुभधुवतसाइचउरो, परघायपण्णिदिसास चउगइया ।

उक्कडमिच्छा ते च्चिय, थीअपुमाणं विसुप्रंता ॥ ७२
 थिरसुभजससायाणं सपडिवक्खाण मिच्छ सम्मो वा।
 मप्रिमपरिणामो कुणइ. थावरेगिंदिए मिच्छो ॥७३॥
 सुसुराइतिन्नि दुगुणा, संठिइसंधयणमणुयविहजुपले ।
 उच्चे चउगइमिच्छा, अरईसोगाण उ पमत्तो ॥७४॥
 सेडिअसंखेजंसो, जोगछाणा तओ असंखेजा ।
 पयडोभेआ तत्तो, ठिइभेया हेअंति तत्तो वि ॥७५॥
 ठिइबंधपुवसाया, तत्तो अणुभागबंधठाणाणि ।
 तत्तो कम्मपएसाणंतगुणा तो रसच्छेया ॥ ७६ ॥
 षगपएसोगाडे, सव्वपएसेहि कम्मणो जोगे ।
 जीवो पोग्गलदव्वे, गिणहइ साई अणाई वा ॥७७॥
 कमसो बुडुठिईणं, भागो दलियस्स होइ सत्तिसेसो ।
 तइयस्स सव्वजेट्टो, तस्स फुडत्तं जओ एप्पे ॥७८॥
 जं समयं जावइयाइं, बंधए ताण एरिसविहीए ।
 पत्तेयं पत्तेयं, भागे निव्वत्तए जीवो ॥ ७९ ॥
 जह जह य अप्पपगईण, बंधगो सह सहत्ति उक्कोसं ।
 कुव्वइ पएसबंधं, जहन्नयं तस्स वच्चासा ॥ ८० ॥

नाणंतराइयाणं, परभागा आउगस्स नियगाथो ।
 परमो पएसवन्धो सेसाणं उभयओ होइ ॥ ८१ ॥
 उक्कोसमाइयाणं, आउम्मि न संभवो विसेसाणं ।
 एवमिणं किंतु इमो, नेओ जोग छइविसेसा ॥ ८२ ॥
 मोहाउयवजाणं, अणुक्कोसो साइयाइओ होइ ।
 साई अधुवा सेसा, आउगमोहाण सव्वेवि ॥ ८३ ॥
 उव्वन्धगस्स उक्कस्स, जोगिणो साइअधुवउक्कोसो
 अणुक्कोस तच्चुयाओ, अणाइअधुवाधुवा सुगमा ८४
 होइ जहन्नोऽपञ्जत्तगस्स सुहुमगनिगोयजीवस्स ।
 तस्समउप्पन्नगसत्तबंधगस्सप्पविरियस्स ॥ ८५ ॥
 एकं समयं अजहन्नओ तओ साइअधुवा दोवि ।
 मोहेवि इमे एवं, आउम्मिय कारणं सुगमं ॥ ८६ ॥
 मोहस्स अइकिलिद्वे उक्कोसो सत्तबंधए मिच्चे ॥
 एकं समयंणुक्कोसओ तओ साइअधुवाओ ॥ ८७ ॥
 नाणंतरायनिदाअणवज्जकसायभयदुगंठाण ।
 दंसणचउपयलाणं, चउवि(वि)गप्पो अणुक्कोसो ॥ ८८ ॥
 सेसा साई अधुवा, सव्वे सव्वाण सेसपयईणं ।

जाण जहि वंधंतो । उक्कोसो ताण तत्थेव ॥८९॥
 निययअबंधचुयाणं, णुक्कोसो साइणाइतमपत्ते ।
 साई अधुवोऽधुवबंधियाण धुवबंधणा चेव ॥९०॥
 अप्पतरपगइवन्धे, उक्कडजोगी उ सन्निपडजत्तो ।
 कुणइ पएसुक्कोसं, जहन्नयं तस्स वच्चासे ॥९१॥
 सत्तविहवन्धमिच्छे, परमो अणमिच्छथीणगिद्धीणं ।
 उक्कोससंकिलिठे, जहन्नओ नामधुवियाणं ॥९२॥
 समयादसंखकालं, तिरिदुगनीयाणि जाव वप्रंति ।
 वेउव्वियदेव्वदुगं, पल्लतिगं आउ अंतमुहू ॥ ९३ ॥
 देसूणपुक्कोडी, सायं तहऽसंखपोग्गला उरलं ।
 परघाउस्सासतसचउपणिंदि पणसिय अयरसयं ॥९४॥
 चउरंसउच्चसुभखगइपुरिससुस्सरतिगाण छावही ।
 विउणा मणुदुगउरलंगरिसहतित्थाण तेत्तीसा ॥९५॥
 सेसाणंतमुहुत्तं, समया तित्थाउगाण अंतमुहू ।
 वन्धो जहन्नओवि हु, भंगतिगं निच्चवन्धीणं ॥९६॥
 होइ अणाइ अणंतो, अणाइसंतो धुवोदयाणुदओ ।
 साइसपज्जवसाणो, अधुवाणं तह य मिच्छस्स ॥९७॥

पयडिठिइमाईयां, भेयां पुव्वुत्तया इहं मेया ।
 उदीरणउदयाणं, जन्नाणत्तं तयं वोच्छं ॥ ९८ ॥
 चरमोदयमुच्चाणं, अजोगिकालं उदीरणाविरहे ।
 देसूणपुव्वकोडी, मणुयाउगवेयणीयाणं ॥ ९९ ॥
 तइयच्चियपज्जत्ती, जा ता निव्वाण होइ पंचणहं ।
 उदओ आवलिअंते, तेवीसाए उ सेसाणं ॥१००॥
 मोहे चउहा तिविहोवसेसत्तणह मूलपगईणं ।
 मिच्छत्तुदओ चउहा, अधुवधुवाणं दुविहतिविहो ॥१०१॥
 उदओ ठिइक्खएणं, संपत्तीए सभावतो पढमो ।
 सति तम्मि भवे वीओ, पओगओदीरणा उदओ १०२
 उदीरणजोग्गाणं, अब्भहियठिईए उदयजोग्गाओ ।
 हस्सुदओ एगठिईणं, निहुंणाएगियालाए ॥१०३॥
 अणुभागुदओवि उदीरणाए तुल्लो जहन्नयं नवरं ।
 आवलिगंते सम्मत्तवेयखीणंतलोभाणं ॥ १०४ ॥
 अजहन्नोऽणुक्कोसो, चउहतिहा छणहं चउविहो मोहे ।
 आउस्स साइ अधुवा, सेसविअप्पा य सव्वेसिं ॥१०५॥
 अजहन्ने णुक्कोसो, धुवोदयाणं चउत्तिहा चउहा ।

मिच्छते सेसासिं, दुविहा सव्वे य सेसाणं ॥ १०६ ॥
 संमत्तदेससंपुन्नविरइउप्पत्तिअणविसंजोगे ।
 दंसणखवणे मोहस्स; समणेउवसंतखवगे य ॥१०७॥
 खीणाइतिगे असंखगुणियगुणसेढिदलिय जहक्कमसो ।
 सम्मत्ताईणेक्का रसणह कालो उ संखंसे ॥१०८॥
 झत्ति गुणाओ पडिण, मिच्छत्तगयंमि आइमा तिन्नि ।
 खंभंति न सेसाओ, जं झीणासुं असुभमरणं ॥१०९॥
 उक्कोसपणसुदयं, गुणसेढीसीसगे गुणियकम्मो ।
 सव्वासु कुणइ ओहेण, खवियकम्मो पुण जहन्नं ११०
 सम्मत्तवेयसंजलणयाण खीणंतदुजिणअंताणं ।
 लहु खवणाए अंते, अवहिस्स अणोहिणुक्कोसो १११
 पढमगुणसेढिसीसे, निदापयलाण कुणइ उवसंतो ।
 देवत्तं झत्ति गअ्यो, वेउव्वियसुरदुग स एव ॥११२॥
 तिरिपंगंतुदयाणं, मिच्छत्तणमीसथीणगिद्धीणं ।
 अपजत्तस्स य जोगे, दुत्तिगुणसेढीण सीसाणं ॥११३॥
 से कालंतरंकरणं, होही अमरो य अंतमुहुपरअ्यो ।
 उक्कोसपणसुदओ, हासाइसु म्प्रिमडण्हं ॥११४॥

हस्तठिई वंधित्ता अद्धाजोगाइठिइनिसेगाणं ।
 उक्कोसपए पढमोदयम्मि सुरनारगाऊणं ॥ ११५ ॥
 अद्धा जोगुक्कोसे, वंधित्ता भोगभूमिगेसु लहुं ।
 सव्वप्पजीवियं वज्जइत्तु ओवट्टिया दोणहं ॥११६॥
 नारयतिरिदुगदुभगाइनीयमणुयाणुपुविगाणं तु ।
 दंसणमोहक्खवगो, तइयगसेढीउ पडिभग्गो ॥११७॥
 संघयणपंचगस्स उ, विइयादितिगुणसेढिसीसम्मि ।
 आहारुज्जोयाणं, अपमत्तो आइगुणसीसे ॥११८॥
 गुणसेढीए भग्गो, पत्तो वेइंदिपुढविकायत्तं ।
 आयावस्स उ तव्वेइ, पढमसमयंमि वट्टंतो ॥११९॥
 देवो जहन्नयाऊ, दीहुव्वट्टित्तु मिच्छ अन्तम्मि ।
 चउत्ताणदंसणतिगे, एगिंदिगए जहन्नुदयं ॥१२०॥
 कुव्वइ ओहिंदुगस्स उ, देवत्तं संजमाऊ संपत्तो ।
 मिच्चुक्कोसुक्कट्टिय, आवलिंगंते पएसुदयं ॥१२१॥
 वेयणियउच्चसोयंतराय अरईण होइ ओहिसमो ।
 निद्दादुगस्स उदए, उक्कोसठिईउ पडियस्स ॥१२२॥
 मइंसरिसं वरिसवरं, तिरियंगई थावरं च नीयं चं ।

इंदियपज्जत्तीए, पढमे समयंमि गिद्धित्तिये ॥१२३॥
 अपुमित्थिसोगपढमिह्णत्थरइरहियाण मोहपगईणं ।
 अंतरकरणाउ गए, सुरेसु उदयावलीअंते ॥ १२४ ॥
 उवसंतो कालगओ, सव्वट्ठे जाइ भगवई सिद्धं ।
 तस्य न एयाणुदओ, असुभुदए होइ मिच्छस्स ॥१२५॥
 उवसामइत्तु चउहा, थ्यन्तमुहू वंधिज्जण वहुकालं ।
 पालिय सभ्भं पढमाण, आवलीअंतमिच्छगए ॥१२६॥
 इत्थीए संजमभवे, सव्वनिरुद्धंमि गंतु मिच्छतो ॥
 देवी लहु जिट्ठिई, उव्वट्ठिय आवलीअंते ॥ १२७ ॥
 अप्पद्धाजोगसमजियाण, आज्जण जिट्ठिईअंते ।
 उवरिं थोवनिसेगे, चिर तिव्वासायवेईणं ॥ १२८ ॥
 संजोयणा विजोजिय, जहन्नदेवत्तमंतिममुहुत्ते
 वंधिय उक्कोस्सठिइं, गंतूणेगिंदियासन्नी ॥ १२९ ॥
 सव्वलहुं नरयगए, नरयगई तम्मि सव्वयपज्जत्ते ।
 अणुपुव्विसगइत्तुह्हा, ता पुण नेया भवाइस्सि ॥१३०॥
 देवगई ओहिसमा, नवरं उज्जोयवेयगो जाहे ।
 चिरसंजमिणो अंते, आहारे तस्स उदयस्सि ॥१३१॥

त्रेसाणं चखुसुसमं, तंमिव अन्नंमि वा भवे अचिरा ।
 तज्जोगा बहुयाओ, ता ताओ वेयमाणस्स ॥१३२॥
 पढमकसाया चउहा । तिहा धुवं साइ अधुवं संतं
 दुचरिमखीणभवन्ता । निदादुगचोइसाऊणि ॥१३३॥
 तिसु मिच्छत्तं नियमा, अठसु ठाणेसु होइ भइयव्वं ।
 सासायणंमि नियमा, सम्मं भज्जं दससु संतं ॥१३४॥
 सागणभीसे मीसं सन्तं नियमेण नवसु भइयव्वं ।
 सासायणंत नियमा, पंचसु भज्जा अओ पढमा ॥१३५॥
 मञ्जिल्लकसाया, ता जा अणियट्ठिखवंगसंखेया ।
 भागा तो संखेया, ठिइखंडा जाव मिद्धित्तिगं ॥१३६॥
 थावरतिरिगइदोदो, आयावेगिंदिविगलसाहारं ।
 नरयदुगुज्जोयाणि य, दसाइमेगंततिरिजोग्गा ॥१३७॥
 एवं नपुंसइत्थी सन्तं छक्कं च वायर पुरिसुदए ।
 समज्जाओ दोल्लिउ, आवलियाओ तथो पुरिसं ॥
 इत्थीउदए नपुंसं, इत्थीवेयं च सत्तगं च कमां ।
 अपुमोदयंमि जुगवं, नपुंसइत्थी पुणो सत्त ॥१३९॥
 संखेज्जा ठिइखंडा, पुणोवि कोहाइलोभसुहुमत्ते ।

आसज्ज खवगसेढी, सव्वा इयराइ जा संतो ॥१४०॥
 सव्वाणवि आहारं, सासणमीसेयराण पुण तित्थं ।
 उभये संति न मिच्छे; तित्थगरे अंतरमुहुत्तं ॥१४१॥
 अन्नपरवेयणीयं, उच्चं नामस्स चरमउदयाओ ।
 मणुयाउ अजोगंता सेसा उ दुच्चरिमसमयंता ॥१४२॥
 मूलठिई अजहन्ना तिहा चउद्धा उ पढमयाण भवे ।
 धुवसंतीणंपि तिहा, सेसविगप्पाऽधुवा दुविहा ॥१४३॥
 वंधुदउक्कोसाणं उक्कोसठिई उ संतमुक्कोसं ।
 तं पुण समयेणूणं अणुदयउक्कोसबंधीणं ॥१४४॥
 उदसंकमउक्कोसाण, आगमो सालिगो भवे जेष्ठो ।
 सन्तं अणुदयसंकमउक्कोसाणं तु समऊणो ॥१४५॥
 उदयवंईणोगठिई अणुदयवइयाणु दुसमया एगा ।
 होइ जहन्नं सत्तं दसण्ह पुण संकमो चरिमो ॥१४६॥
 हासाइ पुरिसकोहाइ, तिन्नि संजलण जेण वंधुदय
 घोळिन्ने संकामइ तेण इहं संकमो चरिमो ॥ १४७ ॥
 जावेगिदिजहन्ना निययुक्कोसा हि ताव ठिइठाणा ।
 नेरंतरेण हेष्ठा खवणाइसु संतराइंपि ॥ १४८ ॥

संकमत्तुल्लं अणुभागसंतयं नवरि देसघाईणं ।
 हासाईरहियाणं जहन्नयं एगठाणं तु ॥ १४९ ॥
 मणनाणे दुट्टाणं देसघाई य सामिणो खवगा ।
 अंतिमसमये सम्मत्तवेयखीणत्तलोभाणं ॥ १५० ॥
 मइसुयचखुथचखू, सुयसम्मत्तस्स जेट्टलद्धिस्स ।
 परमोहिस्सोहिदुगे, मणनाणे विपुलनाणिस्स ॥१५१॥
 अणुभागठाणाइं तिहा कमा ताणसंखगुणियाणि ।
 वंधा उव्वट्टोवट्टणाउ अणुभागघायाओ ॥ १५२ ॥
 सत्तण्हं, अजहन्नं, तिविहं सेसा दुहा पएसंमि ।
 मूलपगईसु आउस्स, साइ अधुवाय सव्वेवि ॥१५३॥
 सुभधुवधधितसाई, पणिंदिचउरंसरिसभसायाणं ।
 संजलगुस्ताससुभखगइपुंपराघायणुक्कोसं ॥ १५४ ॥
 चउहा धुवसंतीणं, अणजससंजलगलोभवजाणं ।
 तिविहमजहण्ण चउहा, इमाण छण्हं दुहाणुत्तां ॥१५५॥
 संपुण्णगुणियकम्मो, पएसउक्कस्ससंतसामीओ ।
 तस्सेव सत्तमीनिग्गयस्स काणं विसेसो वि- ॥१५६॥
 मिच्छमीसेहिं कम्मसो, संपक्खित्तेहिं मीससम्मेषु ।

वरिसधरस्त उ ईसाणगस्त चरिमम्मि समयम्मि ॥
 ईसाणे पूरित्ता, नपुंसगं तो असंखवासीसु ।
 पल्लसंखियभागेण, पुरए इत्थीवेयस्त ॥१५८॥
 जो सब्बसंक्रमेणं, इत्थिपुरिसम्मि बुहइ सो सामी ।
 पुरिसस्त कम्मसंजलणयाण सो चेव संछोभे ॥१५९॥
 चउरुवसामिय मोहं, जसुच्चसायाण सुहुमखवगंते ।
 जं असुभपगइदलियस्त संकमो होइ एयासु ॥१६०॥
 अद्धाजोगुक्कोसेहिं देवनिरयाउगाण परमाए ।
 परमं पएस संतं, जा पढमो उदयसमओ सो ॥१६१॥
 सेसाउगाणि नियगेसु, चेव आगंतु पुव्वकोडीए ।
 सायवहुलस्त अचिरा, वंधंते जाव नो वट्टे ॥१६२॥
 पूरित्तु पुव्वकोडी-पुहुत्तनारयदुगस्त वंधंते ।
 एवं पलियतिगंते, सुरदुगवेउव्वियदुगाणं ॥१६३॥
 तमतमगो अइखिप्पं, सम्मत्तं लभिय तंमि बहुगद्धं ।
 मणुयदुगस्तसुक्कोसं, सब्बजरिसभस्त वंधंते ॥१६४॥
 वेछावठिचियाण, मोहस्सुवसामगस्त चउखुत्तो ।
 सम्मधुववारसण्हं, खवगंमि संबंधयंतम्मि ॥१६५॥

सुभधिरसुभधुवियाणं, एवं चिय होइ संतमुक्कोसं ।
 तिस्थयराहाराणं, नियनियगुक्कोसबंधते ॥ १६६ ॥
 तुब्ला नपुंसगेणं, एगिंदिय थावरायबुज्जोया ।
 सुहुमतिगं विगलावि य, तिरिमणुयचिरच्चिया नवरिं ॥
 ओहेण खवियकम्मे, पएससंतं जहन्नयं होइ ।
 नियसंकमस्स विरमे, तस्सेव विसेसियं मुणसु ॥१६८॥
 उव्वलमाणीणेगठिई, उव्वलए जया दुसामइगा ।
 थोवद्धमज्जियाणं, चिरकालं पालिआ अंते ॥१६९॥
 अंतिमलोभजसाणं, असेढिगाहापवत्तअन्तंमि ।
 मिच्छत्तगए अंहाारंगस्स सेसाणि नियगंते ॥१७०॥
 चरमावलिप्पविष्ठा, गुणसेढी जासि अत्थि न य उदओ
 आवलिगा समयसमा, तासिं खलु फड्डगाइं तु ॥
 सब्वजहन्नपएसे, पएसबुद्धीएणंतया भेया ।
 ठिइठाणे ठिइठाणे, विन्नेया खवियकम्माओ ॥१७२॥
 एगद्धिइयं एगाए, फड्डुगं दोसु होइ दोछिइगं ।
 तिगंभाईसुवि एवं, नेयं जावंति जासिं तु ॥ १७३ ॥
 आवलिमेत्तक्कोसं, फड्डुगमोहस्स सब्वघाईणं ।

तेरसनामतिनिदाण, जाव नो आवली गलइ १७४
 खीणद्धासंखंसं, खीणंताणं तु फड्डुगुक्कोसं ।
 उदयवईणेगहियं, निदाणं एगहीणं तं ॥ १७५ ॥
 अज्जोगिसंतिगाणं, उदयवईणं तु तस्स कालेणं ।
 एगाहिगेण तुल्लं, इयराणं एगहीणं तं ॥ १७६ ॥
 ठिइखंडाणइखुड्डं, खीणसजोगीण होइ जं चरिमं ।
 तं उदयवईणहियं, अन्नगए तूणमियराणं ॥ १७७ ॥
 जं समयं उदयवईं, खिज्जइ दुच्चरिमयन्तु ठिइठाणं ।
 अणुदयवइए तम्मी, चरिमं चरिमंमि जं कमइ ॥१७८
 जावइयाउ ठिईओ, जसंतलोभाणहापवत्तंते ।
 तं इगिफड्डुं संते, जहन्नयं अकयसेटिस्स ॥ १७९ ॥
 अणुदयतुल्लं उव्वलणिगाण जाणिज्ज दीहउव्वलणे ।
 हासाईणं एगं, संछोभे फड्डुगं चरमं ॥१८०॥
 वन्धावलियाईयं, आवलिकालेण घीइठिइहितो ।
 लयठाण लयठाणं, नासेई संकमेणं तु ॥१८१॥
 संजलणतिगे दुसमय-हीणा दो आवलीण उफोसं ।
 फड्डुं विईय ठिइए, पढमाए, अणुदयावलिया ॥१८२॥

श्रावणलियदुसम ऊणा—मेत्तं फडुं तु षडमठिइविरसे ।
 वेयाण वि वे फडा ठिई दुगं जेण तिणहं पि ॥१८३॥
 षडमठिई चरमुदये, विइयठिईए व चरमसंछोमे ।
 दो फडा वेयाणं, दो इगि संतंहवा एए ॥१८४॥
 चरमसंछोभसमए, एगाठिई होइ त्थीनपुंसाणं ।
 षडमठिईए तदंते, पुरिसे दोश्रावणलियदुसमूणं ॥१८५॥
 ॥ इति श्रीपञ्चमं बन्धविधिद्वारम् ॥

॥ अथ कर्मप्रकृतिसंग्रहः ॥ बंधनकरणम् ॥
 णमिऊण सुयहराणं वोच्छं करणाणि बंधणाईणि ।
 संकमकरणं बहुसो अइदिसियं उदयसंते जं ॥१॥
 आवरणदेससव्वक्खएण दुविहेहवीरियं होइ ।
 अहिसंधिअणहिसंधी अकसाइ सलेसउभयंपि ॥२॥
 होइ कसाई वि षडमं इयरमलेसी वि जं सलेसं तु ।
 गहणपरिणामफंदणरूवं तं जोगओ तिविहं ॥३॥
 जोगो वीरियं थामो उच्छाह परक्कमो तथा चेद्धा ।
 सत्ती सामत्थं ति व जोगस्स हवंति पजाया ॥४॥

पत्राए अविभागं जहन्नविरियस्त वीरियं छिन्नं ।
 एक्केक्कस्स पएसस्स असंखलोगप्पएससमं ॥५॥
 सव्वप्पवीरिएहिं जीवपएसोह वग्गणा पढमा ।
 वीयाइ वग्गणाओ रुवुत्तरिया असंखाओ ॥६॥
 ताओ फगड्ढमेगं अओ परं नत्थि रूववुड्ढिए ।
 जाव असंखा लोगा पुव्वविहाणेण तो फहा ॥७॥
 सेढी असंखभागिय फट्ठेहिं जहण्णयं हवइ ठाणं ।
 अंगुल असंखभागुत्तराहिं भूओ असंखाइं ॥ ८ ॥
 सेढीअसंखियभागं गंतुं गन्तुं भवंति दुगुणाइं ।
 फहाइं ठाणेषु पलियासंखंसगुणयारा ॥ ९ ॥
 वड्ढंति व हायंति व चउहा जीवस्स जोगठाणाइं ।
 आवलिअसंखभागंतमुहत्तमसंखगुणहाणी ॥१०॥
 जोगठाणठिईओ चउसमया अठ दोण्णि जा तत्तो
 अठगुभयठिइजाओ नायव्वा परमसंखगुणियाणं ॥११
 सुहुमेयराइयाणं जहण्णउक्कोसपज्जपजाणं ।
 आसज्ज असंखगुणाणि हेअंति इह जोगठाणाणि ॥१२॥
 जोगणुरूवं जीवा परिणामंतीह गिण्हिउं दलियं ।

भासाणापाणमणोचियं च अवलंबए दवं ॥१३॥
 एवकपएसाइ अणंतजाओ होऊण हींति उरलस्त ॥
 अज्जोगंतरिआओ वग्गणाओ अणंताओ ॥ १४ ॥
 ओराल१विउवा२हार३तेय४भासा ५णुपाण६मण७कम्मेट
 अह दव्ववग्गणाणं कमो विवजासओ खित्ते ॥१५॥
 कम्मोवरि धुवेयर सुन्नापत्तेय सुन्नवायरगा ।
 सुन्ना सुहुमे सुन्ना महखंधे सगुणनामाओ ॥१६॥
 सिद्धाणंतसेणं अहव अभव्वेह णंतगुणिएहिं ।
 जुत्ता जहन्नजोग्गा उरालाईणं भवे जेष्ठा ॥ १७ ॥
 पंचरस पंचवणेहिं परिणया अछफासदोगंधा ।
 जावाहारगजोग्गा चउफासवित्तेसिया उवरिं ॥१८॥
 अविभागाइनेहेण जुत्तया ताव पोग्गला अत्थि ।
 सव्वजियाणंतगुणेण जाव नेहेण संजुत्ता ॥ १९ ॥
 जे एग्गनेहजुत्ता ते वहवो तेहिं वग्गणा पढमा ।
 जे दुग्गनेहाइजुत्ता असंखभागूण ते कमसो ॥२०॥
 इय परिसहाणीए जंति अणंताउ वग्गणा कमसो ।
 संखंसूणा तत्तो संखगुणूणा तओ कमसो ॥ २१ ॥

ततो असंखगुणूणा अणंतगुण ऊणिया वि ततो वि ।
 गंतुमसंखलोगा अद्धद्धा पोग्गला भूय ॥२२॥
 पढमहाणीए एवं वीयाए संखवग्गणा गंतुं ।
 अद्धं उवरित्थाअओ हाणीओ हेअंति जा तीए ॥२३॥
 थोवाओ वग्गणाअओ पढमहाणीए उवरिमासु कमा ।
 हेअंति अणंतगुणाओ अणंतभागो पएसाणं ॥२४॥
 पंचण्हसरीराणं परमाणूणं मतीए अविभागो ।
 कप्पिययाणेगंसो गुणाणु भावाणु वा हेअंति ॥२५॥
 जे सबजहणणगुणा जोग्गा तएणवंधणस्स परमाणू ।
 तेवि य संखासंखगुणपलिभागा अइक्कंता ॥२६॥
 सबजीयाणंतगुणेण जे उ नेहेण पोग्गला जुत्ता ।
 ते वग्गणा उ पढमा वंधणनामस्स जोग्गाअओ ॥२७॥
 अविभागुत्तरियाओ सिद्धाण अणंतभागतुल्लाओ ।
 ताओ फड्डगमेगं अणंतविवराइं इय भूय ॥२८॥
 जइमं इच्छसि फड्डं तत्तियसंखाए वग्गणा पढमा ।
 गुणिया तस्साइछा रूवुत्तरियाओ अणंताअओ ॥२९॥
 अभवाणंतगुणाइं फड्डाइं अंतराउ रूवुणा ।

दोषन्तरबुद्धीश्चो परंपरा हेति सव्याश्चो ॥३०॥
 पढमा उ अणतेहिं सरीरठाणं तु होइ फडेहिं ।
 तयणंतभागबुद्धी कंडगमेत्ता भवे ठाणा ॥३१॥
 एक्कं असंखभागुत्तरेण पुण णंतभागबुद्धीए ।
 कंडगमेत्ता ठाणा असंखभागुत्तरं भूय ॥३२॥
 एवं असंखभागु-त्तराणि ठाणाणि कंडमेत्ताणि ।
 संखेज्जभागबुद्धं पुण अन्नं उच्छए ठाणं ॥३३॥
 अमुयंतो तह पुब्बुत्तराइं एयंपि नेसु जा कंडं ।
 इय एयविहाणेणं च्छविहबुद्धी उ. ठाणेसु ॥३४॥
 अस्संखलोगतुल्ला अणंतगुणरसज्जुयाय इयठाणा ।
 कंडंति एत्थ भन्नइ अंगुलभागो असंखेज्जो ॥३५॥
 होति पओगो जोगो तच्छाणविवड्डुणाए जो उ रसो ।
 परिवड्डेइ जावो पओगफइं तयं वेति ॥३६॥
 अविभागवग्गफइगर्थंतरठाणाइं एत्थ जह पुर्व्वि ।
 ठाणाइं वग्गणाओ अणंतगुणणाए गच्छंति ॥३७॥
 तिणहंपि फइगाणं; जहण्णउक्कोसगा कमा ठविउं ।
 पेया णंतगुणाओ वग्गणा णेहफइाश्चो ॥३८॥

अणुभागविसेसाथो मूलुत्तरपगइभेयकरणं तु ।
 तुल्लस्ताविदलस्ता पयईओ गोणनामाथो ॥३९॥
 ठितिवंधो दलस्त ठिई पएसबंधो पएसगहणं जं ।
 ताण रसो अणुभागो तस्तमुदाथो पगतिबंधो ॥४०॥
 मूलुत्तरपगईणं पुठिं व दलभागसंभवो वुत्तो ।
 रसभेएणं इत्तो मोहावरणाण निसुणेह ॥४१॥
 सब्बुक्कोसरसो जो मूलविभागस्तणंतिमो भागो ।
 सब्बघाईण दिउजइ सो इयरो देसघाईणं ॥ ४२ ॥
 उक्कोसरसस्सद्धं मिच्छे अद्ध तु इयरघाईणं ।
 सज्जलणनोकसाया सेसं अद्धद्धयं लेंति ॥ ४३ ॥
 जीवस्सज्जवसाया सुभासुभासंखलोगपरिमाणा ।
 सब्बजीयाणन्तगुणा एक्केक्के हेंति भावाणू ॥४४॥
 एक्कज्जवसायस-मज्झियस्स वलियस्स किंरसो तुछो
 न इ हेंति णन्तभेया साहिज्जन्ते निसामेह ॥४५॥
 सब्बप्परसे गेणहइ जे वहवे तेहिं वग्गणा पढमा ।
 अविभागुत्तरिण्हिं अन्नाओ विसेसहीणेहिं ॥ ४६ ॥
 दव्वेहिं वग्गणाओ सिद्धाणमणन्तभागतुल्लाओ ।

एयं षडसं फट्टं अश्रो परं नरिथ रूवहिया ॥४७॥ दारं
 सव्वजियाणंतयुणा पलिभागा लंघितं पुणो अन्नो ।
 एवं हवंति फट्टा सिद्धाणमणंतभागसमा ॥ ४८ ॥
 एयं षडसं ठाणं एवमसंखेज्जलोगठाणाणं ।
 समवग्गणाणि फट्टाणि तेसिं तुल्लाणि विवराणि ४९
 ठाणाणं परिवुड्डी-छट्टाणकमेण तं गयं पुठ्ठिं ।
 भागो गुणो य कीरति जहुत्तरं एत्थ ठाणाणं ॥५०॥
 ठट्टाणगअवसाणे अन्नं ठट्टाणयं पुणो अन्नं ।
 एवमसंखा लोगा छट्टाणाणं मुणेयव्वा ॥५१॥
 सव्वासिं बुड्डीणं कंडगमेत्ता अणंतरा बुड्डी ।
 एगंतरा उ बुड्डी वग्गो कंडस्स कंडं च ॥ ५२ ॥
 कंडं कंडस्स घणो वग्गो दुयुणो दुगंतराए उ ।
 कंडस्स वग्गवग्गो घणवग्गा तियुणीआ कंडं ॥५३॥
 अड कंडवग्गवग्गा वग्गा चत्तारि छग्घणा कंडं ।
 चउअन्तर बुड्डीए हेठट्टाणपरूवणया ॥ ५४ ॥
 परिणामपच्चएणं एसा णेहस्स छठ्ठिवा बुड्डी ।
 हाणी व क्कणंति जिया आवलिभागं असंखेज्जं ॥५५॥

अन्तमुहुत्तं चरिमा दोवि समयं तु पुण जहणणेणं ।
 जवमज्झविहाणेणं एत्थ विगप्पा बहुठिईया ॥५६॥
 कलिवारतेयकडजुम्म- सन्निया हेअंति रासिणो कमसो
 एगाइसेसगा चउहियंमि कडजुम्म इह सव्वे ॥५७॥
 सुहुमगणिं पविसन्ता चिट्ठंता तेसि कायठित्तिकालो
 कमसो असंखगुणिया तत्तो अणुभागटाणाइं ॥५८॥
 सव्वत्थोवा टाणा अणंतगुणणाए जे उ गच्छंति ।
 तत्तो असंखगुणिया-णंतरवुड्डीए जह हेट्ठा ॥ ५९ ॥
 हेअंति परंपरवुड्डीए धोवगाणंतभागवुट्ठा जे ।
 अस्संखसंखगुणिआ एक्कं दो दो असंखगुणा ॥६०॥
 एगट्ठाणपमाणं अंतर टाणा निरन्तरा टाणा ।
 काखो बुट्ठी जवमज्झ फासणा अप्पवहु दारा ॥६१॥
 एक्केक्कंमि असंखा तसेयराणंतया सपाउगे ।
 एगाइ जाव आवलिअसंखभागो तसा टाणे ॥ ६२ ॥
 तसजुत्तटाणविवरेसु सुणया हेअंति एक्कमाईअ्या ।
 जाव असंखा लोगा निरन्तरा धावरा टाणा ॥६३॥
 दो आइ जाव आवलि असंखभागो निरन्तरत्सेहिं ।

नाणा जिएहिं ठाणं असुण्णयं आवलिअसंखं ॥६४॥
 जवमज्झम्मि य वहवो विसेसहीणाओ उभयओ कमसो
 गंतुमसंखा लोगा अद्धद्दा उभयओ जीवा ॥६५॥
 आवलि असंखभागं तसेसु हाणीण होइ परिमाणं ।
 हाणिदुगन्तरठाणा थावरहाणी असंखगुणा ॥ ६६ ॥
 जवमज्झे ठाणाइं असंखभागो उ सेसठाणाणं ।
 हेठंमि हेतिं थोवा उवरिंमि असंखगुणियाणि ॥६७॥
 दुग चउरट्टतिसमइग सेसा य असंखगुणणया कमसो
 कालेऽईए पुठा जिएण ठाणा भमंतेणं ॥ ६८ ॥
 तत्तो विसेसअहियं जवमज्झा उवरिमाइं ठाणाइं ।
 तत्तो कंडगहेट्टा तत्तो वि हु सवठाणाइं ॥ ६९ ॥
 फासणकालप्पवहू जह तह जीवाण भणसु ठाणेसु ।
 अणुभागवन्धठाणा अज्झवसाया व एगट्टा ॥ ७० ॥
 ठितिठाणे ठिइठाणे कसाय उदया असंखलोगसमा
 एक्केक्ककसायुदए एवं अणुभागठाणाइं ॥७१॥
 थोवाणुभागठाणा जहण्णठितिपढमबंधहेउम्मि ।
 तत्तो विसेसअहिया जाचरमाए चरमहेज्ज ॥ ७२ ॥

गंतुमसंखा लोका पढसाहितो भवन्ति दुगुणाणि ।
 आवलिअसंखभागे दुगणटाणाण संवग्गो ॥ ७३ ॥
 असुभपगईणमेवं इयराणुक्कोसगम्मि ठिइवन्धे ।
 सव्वुक्कोसगहेऊ उ होइ एवंचिय असेसं ॥ ७४ ॥
 थोवाणुभागटाणा जहण्णठितिवंध असुभपगईणं ।
 समयवुड्डीए किंचि-हिवाइं सुहियाण विवरीयं ॥ ७५ ॥
 पलिया संखियमेत्ता ठितिठाणा गंतु गंतु दुगुणाइं ।
 आवलिअसंखमेत्ता गुणा गुणंतरमसंखगुणं ॥ ७६ ॥
 सव्वजहण्णठिईए सव्वाण वि आउगाण थोवाणि ।
 टाणाणि उत्तरासुं असंखगुणणाए सेढीए ॥ ७७ ॥
 गंठीदेसे सण्णा अभव्वजीवस्स जो ठिईबंधो ।
 ठिइवुड्डीए तस्स उ घन्धा अणुकड्ढिओ तत्तो ॥ ७८ ॥
 वग्गे वग्गे अणुकड्ढि तिव्वमंदत्तणाइं तुल्लाइं ।
 उवघाय घाइपयडी कुवण्णनवगं अ्सुभवग्गो ॥ ७९ ॥
 परघाय वन्धणत्तणू अंगसुवण्णाइतिरथनिम्माणं ।
 अंगुरुलहूससतिगं संघाय छयालसुभवग्गो ॥ ८० ॥
 सायं थिराइ उच्चं सुर-मणुदोदो पणिदि चउरंसं ।

रिसहपसत्थविहगइ सोलस परियत्तसुभवग्गो ॥ ८१ ॥
 अस्तायथावरदसं नरयदुगं विहगई य अपसत्था ।
 पंत्तिदिरिसभचउरंसगेयरा असुभघोवणिया ॥८२॥
 मोत्तमसंखं भागं जहन्नठिइठाणगाण सेसाणि ।
 गच्छंति उवरिमाए तदेकदेसेण अण्णाणि ॥ ८३ ॥
 एवं उवरिं हुत्ता गंतूणं कंढमेत्तठितिवंधा ।
 पढमठितिठाणाणं अणुकड्डी जाइ परिणिठं ॥ ८४ ॥
 तदुवरिम आइयासुं कमसो वीयाईयाण निष्ठाइ ।
 ठितिठाणाणणुकड्डी आउक्कस्सं ठिई जाव ॥ ८५ ॥
 उवघायाईणैवं एसा परघायमाइसु विसेसो ।
 उक्कोसठिईहिंतो हेट्टमुहं कीरइ असेसं ॥ ८६ ॥
 सप्पडिवक्खाणं पुण असायसायाईयाण पगईणं ।
 ठावेत्थ ठिईठाणा अन्तोकोडाइ नियनियगा ॥८७॥
 जा पडिवक्खक्कंता ठिईओ ताणं कमो इमो होई ।
 ताणन्नाणि य ठाणा सुद्धठिईणं तु पुव्वकमो ॥८८॥
 मोत्तूण नियमियराऽसुभाण जो जो जहन्नठितिवन्धो
 नियपडिवक्खसुभाणं ठावेयव्वो जहण्णयरो ॥८९

पडिवक्खजहन्नयरो तिरिदुगनीयाण सत्तममहीए ।
 सम्मत्ताईए तओ अणुकड्डी उभयवग्गोसु ॥ ९० ॥
 अट्टारस कोडीओ परघायकमेण तसच्चउक्के वि ।
 कंडं निवत्तणकंडगं च पल्लस्सऽसंखंसो ॥ ९१ ॥
 जा निवत्तणकंडं जहणणठितिपढमट्टाणगेहिं तो ।
 गच्छंति उवरिहुत्तं अणंतगुणणाए सेढीए ॥ ९२ ॥
 तत्तो पढमठितीए उक्कोसं ठाणगं अणंतगुणं ।
 तत्तो कंडग उवरिं आउक्कस्सं नए एवं ॥९३॥
 उक्कोसाणं कंडं अणन्तगुणणाए तन्नाए पच्छा ।
 उवघायमाइयाणं इयराणुक्कोसगाहिंतो ॥९४॥
 अस्सायजहणणट्टिइठाणेहिं तुल्लयाइं सव्वाणं ।
 आपडिवक्खक्कंतगठिईए ठाणाइं हीणाइं ॥९५॥
 तत्तो अणंतगुणणाए जंति कंडस्स संखिया भागा ॥
 तत्तो अणंतगुणियं जहणणठिति उक्कसं ठाणं ॥९६॥
 एवं उक्कस्साणं अणंतगुणणाए कंडगं वयइ ।
 एक्कं जहणणठाणं जाइ परक्कंतठाणाणं ॥ ९७ ॥
 उवरिं उवघावसमं सायस्स वि नवरि उक्कसट्टिईओ

अन्तेसुवधायसमं मज्झे नीयस्स सायसमं ॥९८॥
 संजयवायरसुहुमग पज अपज्जाण हीणमुक्कोसो ।
 एवं विगलाऽसन्निसु सज्जयउक्कोसगो वन्धो ॥ ९९ ॥
 देसदुगविरय चउरो सण्णीपञ्चेन्दियस्स चउरो य ।
 संखेज्ज गुणा कमसो सज्जयउक्कोसगाहितो ॥१००॥
 थोवा जहन्नवाहा उक्कोसा वाहठाण कंडाणि ।
 उक्कोसिया अवाहा नाण पएसन्तरा तत्तो ॥१०१॥
 एगं पएसविवरं अब्वाहाकण्डगस्स ठाणाणि ।
 हीणठिईं ठिइठाणा उक्कोसठिईं तयो अहिया १०२
 आउसु जहन्नवाहा जहन्नवन्धो अवाह ठाणाणि ।
 उक्कोसवाहणाणंतराणि एगन्तरं तत्तो ॥ १०३ ॥
 ठितिवन्धछाणाइं उक्कोसठिईं तयो वि अम्भहिआ ।
 सण्णिसु अप्पावहुयं देसठभेयं इमं भणियं ॥१०४॥
 ठिइठाणे ठिइठाणे अज्झवसाया असंखलोगसमा ।
 कमसो विसेस अहिया सत्तणहाउस्सऽसंखगुणा ॥१०५
 पल्लासंखसमायो गन्तुण ठिईइं हेति ते दुगुणा ।
 सत्तणहऽज्झवसाया गुणगारा ते असंखेज्जा ॥१०६॥

ठितिदीहयाए कमसो असंखगुणणाए हेति पगईणं
 अज्झवसाया आउग-नामठगदुविहमोहाणं ॥१०७॥
 सव्वजहन्नस्स रसो अणंतगुणित्थो य तस्स उक्कोसो
 ठितिवन्धे ठिइवन्धे अज्झवसाओ जहाकमसो ॥१०८
 धुवपगडीवन्धंता चउठाणाई सुभाण इयराणं ।
 दो ठाणगाइतिविहं सछाणजहन्नगाईसु ॥१०९॥
 चउदुट्टाणाइ सुभासुभाण वन्धे जहन्नधुवठिईसु ।
 थोवा विसेसअहियां पुहुत्तपरओ विसेसुणा ॥११०॥
 पच्छाऽसंखियमूला गन्तु दुगुणा हवन्ति अद्धा य ।
 नाणा गुणहाणीणं असंखगुणमेगगुणविवरं ॥ १११ ॥
 चउठाणाईजवमज्झ हेठउवरिं सुभाण ठितिवन्धा ॥
 संखेज्जगुणा ठिइठाणगाई असुभाण मीसाय ॥११२॥

॥ इति वन्धनकरणम् ॥



॥ अथ संक्रमकरणम् ॥

॥अथ संकमकरणम् ॥

वज्झंतियासु इयरा ताओ वि य संकमंति अन्नोन्नं ।
जा संतयाए चिच्छहि वंधाभावे वि दिट्ठीओ ॥१॥
संकमइ जासु दक्षियं ताओ उ पडिग्गहा समक्खाया ।
जा संकमआवलियं करणासज्झं भवे दलियं ॥२॥
नियनिय दिट्ठि न केइ दुइया तइजा न दंसणतिगंपि ।
मीसम्मि न सम्मत्तं दंसकत्ताया न अन्नोन्नं ॥३॥
संकांमति न आउं उवसंतं तहय मूलपगईथो ।
पगइठाणविभेया संकमणपडिग्गहा दुविहा ॥४॥
खय उवसमदिच्छीणं सेठीए न चरिमलोभसंकमणं ।
खवियट्ठगस्स इयराइ जं कमा होइ पंचणहं ॥५॥
मिच्छे खविए मीसस्स नत्थि उभए वि नत्थि सम्मस्सं ।
उवल्लिएसुं दोसुं पडिग्गहया नत्थि मिच्छस्स ॥६॥
दुसुं तिसुं आवलियासु समयविहीणासु आइमठिइए ।
सेत्तासु पुंसंजलणयाणं न भवे पडिग्गहया ॥७॥
धुवसंतीणं चउहेहसंकमो मिच्छणीयवेयणीए ।
साइअधुवो वंधोव होइ तह अधुवसंतीणं ॥८॥
साअणजसदुविहकत्तायसेसदोदंसणाजइपुठ्ठा ।

संकामगंत कमसो समुच्चाणं पढमदुइया ॥९॥
 चउहा पडिग्गहत्तं धुवबंधीणं विहाय मिच्छत्तं ।
 मिच्छाऽधुवबंधीणं साइ अधुवा पडिग्गहया ॥१०॥
 संतछाणसमाइं संकमठाणाइं दोणिण वीयस्स ।
 बंधसमा पडिग्गहया अछहिया दो वि मोहस्स ॥११॥
 पणरस सोलसत्तर अडचउवीसा य संकमे नत्थि ।
 अछदुवालस सोलस वीसा य पडिग्गहे नत्थि ॥१२॥
 संकमणपडिग्गहया पढमतइज्जत्तमाण चउभेया ।
 इगवीसो पडिग्गहगो पणवीसो संकमो मोहे ॥१३॥
 दंसणवरणे नवगो संकमणपडिग्गहो भवे एवं ।
 साई अधुवा सेसा संकमणपडिग्गहट्टाणा ॥ १४ ॥
 नवछक्कचउक्केसु नवगं संकमइ उवसमगयाणं ।
 खवगाण चउसु छक्कं दुइए मोहं अथो वोच्छं ॥१५॥
 लोभस्स असंकमणा उव्वलणा खवणतो च्छ सत्तपहं
 उवसंताणवि दिठ्ठीणं संकमा संकमा नेया ॥ १६ ॥
 आमीसं पणवीसो इगवीसो मीसगाथो जा पुव्वो ।
 मिच्छखवगे दुवीसो मिच्छे य तिसत्तच्छव्वीसा ॥१७॥

खवगस्त सवन्धच्चिय उवसमसेढीए सम्ममीसजुया
 मिच्छखवगे ससम्मा अट्टारस इय पडिग्गहया ॥१८॥
 दसगट्टारसगाई चउचउरो संकमंति पंचंमि ।
 सत्तठ चउ दसिगारस वारसट्टारा चउक्कम्मि ॥१९॥
 तिन्रि तिगाइसत्तठ नव य संकमिगारस तिगंमि ।
 दोसु ठगट्टदुपंच य इगि एक्कं दोणि तिण्णिपणा ॥
 पणवीसो संसारिसु इगुवीसे सत्तरसे य संकमइ ।
 तेरस चोइस छक्के वीसा छक्के य सत्तेय ॥ २१ ॥
 वावीसे गुणवीसे पन्नरसेक्कारसेसु छव्वीसा ।
 संकमइ सत्तवीसा मिच्छे तह अविरयाईणं ॥ २२ ॥
 वावीसेगुणवीसे पण्णरसेक्कारसे य सत्ते य ।
 तेवीसा संकमई मिच्छा विरयाइयाण कमा ॥ २३ ॥
 अट्टारसचोइसदससत्तगेषु वावीस खीणमिच्छाणं ।
 सत्तरस तेरनवसत्त-गेषु इगवीस संकमइ ॥ २४ ॥
 दसगाइ चउक्कं एक्कवीसखवगस्त संकमहिं पंचे
 दस चत्तारि चउक्के तिसु तिन्रि दु दोसु एक्केक्कं
 अट्टाराइ चउक्कं पंचे अट्टार वार एक्कारा ।

चउसु इगारस नव अड तिगे दुगे अछळप्पं च ॥२६॥
 पण तिणण दोणिण एक्के उवसमसेठीए खइयदिद्विस्स
 इयरस्स उ दो दोसु सत्तसु वासाइ चत्तारि ॥२७॥
 छसु वीस चोदतेरस तेरेक्कारस य दस य पंचम्मि ।
 दस अड सत्त चउक्के तिगम्मि सग पंच चउरो य
 गुणवीस पन्नरेक्कारसाइ तिति सम्मदेसविरयाणं ।
 सत्त पणाइ ठ पंच उ पडिग्गहा उभयसेठीसुं ॥२९॥
 पढमचउक्कं तिरथयर-वज्जियं अधुवसंततियजुत्तं ।
 तिगपण छवीसेसु संकमइ पडिग्गहेसु तिसु ॥३०॥
 पढमं संतचउक्कं इगतीसे अधुवतिगजुत्तं तु ।
 गुणतीसतीसएसु जसहीणा दो चउक्क जसे ॥३१॥
 पढमचउक्कं आइल्ल-वज्जियं दो अणिच्च आइल्ला ।
 संकमहि अठवीसे सामी जहसंभवं नेया ॥ ३२ ॥
 संकमइ नन्नपगइं पगईओ पगइसंकमे दलियं ।
 ठिति अणुभागा चेवं टंति तहत्था तयणुरूयं ॥३३॥
 दलियरसाणं जुत्तं मुत्तत्ता अन्नभावसंकमणं ।
 ठितिकालस्स न एवं उउसंकमणमिव अदुट्टं ॥३४॥

॥ इति प्रकृतिसङ्क्रमः ॥

उव्वट्टणं च श्रोवट्टणं च पगइंतरम्मि वा नयणं ।
 वंधे व अवन्धे वा जं संकामो इइ ठिईए ॥ ३५ ॥
 जात्ति वन्धनिमित्तो उक्कोसो वन्ध मूलपगईणं ।
 ता वन्धुक्कोसाओ सेसा पुण संकमुक्कोसा ॥ ३६ ॥
 वन्धुक्कोसाण ठिई मोत्तुं दो आवलीए संकमइ ।
 सेसा इयराणं पुण आवलियतिगं पमोत्तुणं ॥ ३७ ॥
 तित्थयराहाराणं संकमणे वन्धसंतएसुं पि ।
 अन्तो कोडाकोडी तहा वि ता संकमुक्कोसा ॥ ३८ ॥
 एवइय संतया जं सम्महिट्ठीण सव्वकम्मेसु ।
 आज्जणि वन्धउक्कोसगाणि जं नन्नसंकमणं ॥ ३९ ॥
 गंतुं सम्मो मिच्छं तस्सुक्कोसं ठिई च काज्जणं ।
 मिच्छियराणुक्कोसं करेति ठितिसंकमं सम्मो ॥ ४० ॥
 अंतोमुहुत्तहीणं आवलियदुहीण तेसु सट्ठाणे ।
 उक्कोससंकमपहू उक्कोसगवन्धगन्नासु ॥ ४१ ॥
 वन्धुक्कोसाणं आवलिए आवलिदुगेण इयराणं ।
 हीणा सव्वा वि ठिई सो जठिइ संकमो भणिओ ४२

सावाहा आउठिई आवलिगूणा उ जठिइ सट्टाणे ।
 एक्का ठिई जहन्नो अणुदइयाणं निहयसेसा ॥४३॥
 जो जो जाणं खवगो जहन्नठिइसंकमस्स सो सामी
 सेसाणं तु सजोगी अंतमुहुत्तं जओ तस्स ॥४४॥
 उदयावलिण्णो भो अन्नपगईण्णो जो उ अंतिमओ ।
 सो संकमो जहन्नो तस्स पमाणं इमं होइ ॥४५॥
 संजलणलोभनाणंतरायदंसणचउक्क आऊणं ।
 सम्मत्तस्स य समओ सगआवलियातिभागम्मि ॥४६॥
 खविऊण मिच्छमीसे मणुओ सम्मंमि खविय सेसम्मि ।
 चउगईओ वि उ होउ जहन्नठिति संकमस्सामी ॥४७॥
 निदादुगस्स साहिय आवलियदुगं तु साहिए तंसे ।
 हासाईणं संखेज्ज वच्छरा ते य कोहम्मि ॥ ४८ ॥
 पुंसंजलणेण ठिई जहणिया आवलिदुगेगूणा ।
 अंतो जोगंतीणं पलियासंखंसइयराणं ॥ ४९ ॥
 मूलठिईण अजहणो सत्तण्हतिहा चउव्विहो मोहे ।
 सेसविगप्पा साईअधुवा ठितिसंकमे हेअंति ॥ ५० ॥
 तिविहो धुवसंतीणं चउव्विहो तह चरित्तमोहाणं ।

अजहन्नो सेसासु दुविहा सेसा वि दुविगप्पा ॥५१॥

॥ इति स्थितिसंक्रमः ॥

ठितिसंकमोव्व तिविहो रसंमि उव्वट्टणांइ विन्नेओ ।

रसकारणाओ नेयं घाइत्तविसेसण भिहाणं ॥५२॥

देसघाइरसेणं पगईओ हेअंति देसघाईओ ।

इयरेणियरा एमेव ठाणसन्ना वि नेयव्वा ॥५३॥

सव्वघाई दुठाणो मीसायवमणुयतिरियआऊणं ।

इग्गदुठाणो सम्मम्मि तदियरो चासु जह हेठा ॥५४॥

दुठाणो चिय जाणं ताणं उक्कोसओ वि सो चेव ।

संकमइ वेयगे वि हु सेसासुक्कोसओ परमो ॥५५॥

एगघाणजहन्नं संकमइ पुरिससम्मसंजलणे ।

इयरासुं दोठाणिय जहन्न रससंकमे फइं ॥ ५६ ॥

वंधिय उक्कोसरसं आवलियाओ परेण संकामे ।

जावंतमुहू मिच्छो असुभाणं सव्वपयडीणं ॥५७॥

आयावुज्जोवोरालपढमसंघयणमणदुगाऊणं ।

मिच्छसम्मा य सामी सेसाणं जोगि सुभियाणं ॥५८॥

खवगस्संतरकरणे अकण घाईण जो उ अणुभागो ।

तस्स अणंतो भागो सुहुमेगिंदिय कए थोवो ॥५९॥
 सेसाणं असुभाणं केवलिणो जोउ होइ अणुभागो ।
 तस्स अणंतो भागो असण्णिपंचिंदिए होइ ॥६०॥
 सम्मदिठो न हणइ सुभाणुभागं दुवेवि दिट्ठीणं ।
 सम्मत्तमीसगाणं उक्कोसं हणइ खवगोवि ॥६१॥
 घाईणं जे खवगा जहणणरससंकमस्स ते सामी ।
 आऊण जहणणठिईवन्धाओ आवली सेसा ॥ ६२ ॥
 अणत्तिथुव्वलणाणं संभवणा आवलीइ परएणं ।
 सेसाणं इगि सुहुमो घाइयअणुभागकम्मंसो ॥६३॥
 साइयवज्जो अजहणणसंकमो पढमदुइयचरिमाणं ।
 मोहस्स चउविगप्पो आउस्सणुक्कोसओ चउहा ॥६४॥
 साइयवज्जो वेपणियनामगोयाण होइ अणुक्कोसो ।
 सव्वेसु सेसभेया साई अधुवा य अणुभागे ॥ ६५ ॥
 अजहन्नो चउभेओ पढमगसंजलणनोकसायाणं ।
 साइयवज्जो सोच्चिय जाणं खवगो खवियमोहो । ॥६६॥
 सुभधुवचउवीसाए होइ अणुक्कोस साइपरिवज्जो ।
 उज्जोयरिसभओरालियाण चउहा दुहा सेसा ॥६७ ॥

॥ इति रससंक्रमः ॥

विज्ञातव्वलणअहापवत्तगुणसव्वसंकमेहि अणू ।
जन्नेइ अपणपगइं पएससंकामणं एयं ॥ ६८ ॥
जाणं न वन्धो जायइ आसज्ज गुणं भव व पगइंणं ।
विज्ञात्थो ताणंगुलअसंखभागेण अन्नत्थ ॥ ६९ ॥
पलियस्सऽसंखभागं अंतमुहुत्तेण ठिईए उव्वलइ ।
एवं पलियासंखियभागेणं कुणइ निल्लेवं ॥ ७० ॥
पढमात्थो वीयखंडं विसेसहीणं ठिईए अवणेइ ।
एवं जाव दुचरिमं असंखगुणियं तु अंतिमयं ॥७१॥
खंडदलं सट्ठाणे समए समए असंखगुणणाए ।
सेढीए परठाणे विसेसहीणाए संतुभइ ॥७२॥
दुचरिमखंडस्स दलं चरिमे जं देइ सपरठाणम्मि ।
तम्माणेणस्स दलं पल्लंगुलऽसंखभागेहिं ॥ ७३ ॥
एवं उव्वलणासंकमेण णासेइ अविरत्थो हार ।
सम्भोऽणमिच्छमीसे छत्तीस नियट्ठि जा माया ॥७४॥
सम्ममीसाइं मिच्छो सुरदुगवेउव्विच्छक्कमेगिंदी ।
सुहुमतसुच्चमणुदुगं अंतमुहुत्तेण अनिच्चट्ठी ॥ ७५ ॥

संसारत्था जीवा सवन्धजोगाण तद्दलपमाणा ।
 संकामंतणुरूवं अहापवत्तीए तो नामं ॥ ७६ ॥
 असुभाण पएसग्गं वज्झंतीसु असंखगुणणाए ।
 सेढीए अपुव्वाइं छुभन्ति गुणसङ्कमो एसो ॥७७॥
 चरमठिईए रइयं पइसमयमसंखियं पएसग्गं ।
 ता छुभइ अन्नपगइं जावंते सब्बसंकामो ॥७८॥
 वाहिय अहापवत्तं सहेउणाहो गुणो व विज्झाओ ।
 उव्वलणसंकमस्सवि कसिणो चरमम्मि खंडम्मि ॥७९॥
 पिंडपगईण जा उदयसंगया तीए अणुदयगयाओ ।
 संकामिज्जण वेयइं जं एसो थिवुग्गसंकामो ॥८०॥
 गुणमाणेणं दलिअं हीरन्तं थोवएण निछाइ ।
 कालोऽसंखगुणेणं अहविज्झाउव्वलणगाणं ॥ ८१ ॥
 जं दुचरिमस्स चरिमे सपरछाणेसुं देइ समयम्मि ।
 ते भागे जहकमसो अहापवत्तुव्वलणमाणे ॥ ८२ ॥
 चउहा धुव छव्वीसगसयस्स अजहन्नसंकमो होइ ।
 अणुक्कोसो विहु वज्जिय उराल आवरणनवविग्घं ॥८३॥
 सेसं साईं अधुवं जहन्न सामी य खवियकम्मंसो ।

ओरालाइसु मिच्छो उक्कोसस्सा गुणियकम्मो ॥८४
 वायर तस कालूणं कम्मठिइ जो उ वायरपुढवीए ।
 पज्जत्तापज्जत्तगदीहेयरआउगो वसिउं ॥ ८५ ॥
 जोगकसा उक्कोसो बहुसो आउं जहन्न जोगेण ।
 वन्धिअ उवरिल्लासु ठिइसु निसेगं वहुं किच्चा ॥८६॥
 वायरतसकालमेवं वसित्तु अंते य सत्तमखिईए ।
 लहु पज्जत्तो बहुसो जोगकसायाहिओ होइ ॥८७॥
 जोगजवमज्झ उवरिं मुहुत्तमच्छित्तु जीविअवसाणे ।
 तिचरिमदुचरिमसमए पूरित्तु कसायमुक्कोसं ॥८८॥
 जोगुक्कोसं चरिमे दुचरिमसमए उ चरिमसमयम्मि ।
 संपुन्नगुणियकम्मो पगयं तेणेह सामित्ते ॥ ८९ ॥
 तत्तो तिरियागय आलिगोवरिं उरखएक्कवीसाए ।
 सायं अणंतर वन्धिऊण आलीपरमसाए ॥ ९० ॥
 कम्मचउक्के असुभाण वज्झमाणीणं सुहुमरागन्ते ।
 संठोभणम्मि नियगे चउवीसाए नियट्टिस्स ॥ ९१ ॥
 संठोभणाए दोण्हं मोहाणं वेयगस्स खणसेसे ।
 उप्पाइय संम्मत्तं मिच्छत्तगए तमंतमाए ॥ ९२ ॥

भिन्नमुहुत्ते सेसे जोगकसाउक्कसाइं-काऊण ।
 संजोअणा विसंजोयगस्स संछोभणा एसिं ॥९३॥
 ईसाणागयपुरिसस्स इत्थियाए व अठवासाए ।
 मासपुहुत्तवभहिए नपुंसगस्स चरिमछोभो ॥९४॥
 पूरित्तु भोगभूमीसु जीविय वासाणिसंखयाणि तओ
 हस्सठिइं देवागय लहुछोभे इत्थिवेयस्स ॥९५॥
 वरिसवरित्थि पूरिय सम्मत्तमसंखवासियं लभिय ।
 गन्तुं मिच्छत्तमओ जहन्नदेवठिइं भोच्चा ॥९६॥
 आगन्तु लहु पुरिसं संतुभमाणस्स पुरिसवेअस्स ।
 तस्सेव सगे कोहस्स माणमायाणमवि कसिणो ॥९७॥
 चउरुवसमित्तु खिप्पं-लोभजसाणं ससकमस्संते ।
 चउसमगो उच्चस्स खवगो नीया चरिमवन्धे ॥९८॥
 परघायसकलत्तसचउ सुसरादिति सासखगति चउरंसं
 सम्मधुवा रिसभजुया संकामइ विरचिया सम्मो ॥९९॥
 नरयदुगस्स विछोभे पुव्वकोडीपुहुत्तनिच्चियस्स ।
 धावरउज्जोपायवएगिंदीणं नपुंससमं ॥ १०० ॥
 तेत्तीसयरा पालिय-अंतमुहुत्तूणगाइं सम्मत्तं ।

वन्धित्तु सत्तमांश्रो निग्गम्म समए नरदुगस्स ॥१०१॥
 तिथयराहाराणं सुरगइनवगस्स थिरसुभाणं च ।
 सुभधुववन्धीण तथा-सगवन्धा आलिंगं गन्तुं ॥१०२॥
 सुहुमेसु निगोएसु कम्मठिति पलियऽसंखभागूणं ।
 वसितुं मंदकसाओ जहन्नजोगो उ जो एइ ॥१०३॥
 जोग्गोसु तो तसेसु सम्मत्तमसंखवार संपप्प ।
 देसविरइं च सव्वं अणउव्वलणं च अडवारा ॥१०४॥
 चउरुवसमित्तु मोहं लहुं खवेतो भवे खवियकम्मो ।
 पाएण तेण पंगयं पडुच्च काओ वि सविसेसं ॥१०५॥
 हासदुभयकुच्छाणं खीणंताणं च वन्धंचरिमम्मि ।
 ममए अहापवत्तेण ओहिजुगले अणोहिस्स ॥१०६॥
 धीणतिगइत्थिमिच्छाण पालिय वेच्छंसठि सम्मत्तं ।
 सगखवणाए जहन्नो अहापवत्तस्स चरमम्मि ॥१०७॥
 अरइ सोगठकसाय असुभधुववन्धिअधिरंतियगाणं ।
 अस्तायंसस य चरिमे अहापवत्तस्स लहु खवगे ॥१०८॥
 इस्सगुणद्धंपूरिय सम्मं मीसं च धरिय उक्कोसं ।
 कालं मिच्छत्तगए चिरउव्वलगस्स चरिमम्मि ॥१०९॥

संजोयणाए चउरुवसमित्तु संजोयइत्तु अप्पद्धं ।
 छावट्टिदुगं पालिय अहापवत्तस्स अंतम्मि ॥११०॥
 हस्सं कालं वंधिय विरओ आहारमविरइं गन्तुं ।
 चिरउव्वलणे थोवो तित्थं वन्धालिगापरओ ॥१११॥
 वेउव्विक्कारसगं उव्वलियं वन्धिऊण अप्पद्धं ।
 जेट्टिठित्तनारयाओ उव्वट्टित्ता अवन्धित्तु ॥११२॥
 थावरगसमुव्वलणे मणुदुगउच्चाण सुहुमवच्चाणं ।
 एमेव समुव्वलणे तेऊवाऊसुवगयस्स ॥ ११३ ॥
 अणुवसमित्ता मोहं सायस्स असायअंतिमे वन्धे ।
 पणतीसाए सुभाणं अपुव्वकरगालिगाअंते ॥११४॥
 तेवठ्ठं उदहिसयं गेविज्जाणुत्तरे अवन्धित्ता ।
 तिरिदुग उज्जोयाइं अहापवत्तस्स अन्तम्मि ॥११५॥
 इगिविगलायवथावरचउक्कमवन्धिऊण पणसीयं ।
 अयरसयं छट्ठीए वावीसयरे जहा पुव्वं ॥ ११६ ॥
 दुसराइत्तिन्ननायासुभखगइसंघयणसंठिअपुमाणं ।
 सम्मा जोगाणं सोलसण्हसरित्थिवेणं ॥११७॥
 समयाहि आवलीए आज्जण जहन्नजोगवट्ठाणं ।

उक्कोसाऊअते नरतिरिया उरलसत्तस्स ॥ ११८ ॥
 पुंसंजलणतिगाणं जहन्नजोगिस्स खवगसेठीए ।
 सगचरिमसमयवद्धं जं ह्नुभइ संगंतिमे समए ॥११९॥

॥ सङ्कमकरणं समाप्तम् ॥

॥ अथ उद्वर्त्तनाऽपवर्त्तनाकरणम् ॥

उदयावलिबज्झाणं ठिईए उव्वट्टणा उ ठितिविसया
 सोक्कोस अवाहाअथो जावावलि होइ अइत्थवणा ॥१॥
 इच्छियठितिठाणाओ आवलियं लंघिऊण तद्दलियं ।
 सव्वेसु विनिक्खिप्पइ ठितिठाणेषु उवरिमेसु ॥२॥
 आवलिअसंखभागासु जाव कम्मठितित्ति निकखेवो ।
 समउत्तरावलीए सावाहाए भवे ऊणो ॥३॥
 अवाहोवरिठाणगदलं पडुच्चेह परमनिकखेवो ।
 चरिमुव्वट्टणठाणं पडुच्च इह जायइ जहण्णो ॥४॥
 उक्कोसगठितिवन्धे धन्धावलिया अवाहमेत्तं च ।
 निकखेवं च जहन्नं मोत्तुं उव्वट्टए सेसं ॥५॥
 निव्वाघाए एवं वाघाअथो संतकम्महिगवन्धो ।

आवलिअसंखभागा जावावलि तत्थ अइत्थवणा ॥ ६ ॥
 आवलिदोसंखसा जति वड्डइ अहिणवो उ ठितिवन्धो
 उव्वट्ठति तो चरिमा एवं जावलियं अइत्थवणा ॥७॥
 अइत्थावणालियाए पुण्णाए वड्डइत्ति निक्खेवो ।
 ठित्तिउव्वट्ठणमेवं एत्तो ओव्वट्ठणं वोच्छं ॥८॥
 ओव्वट्ठंतो उ ठित्तिं उदयावलिवाहिरा ठिईठाणा ।
 निक्खिवति से तिभागे समयहिगे लंघिउं सेसं ॥९॥
 उदयावलि उवरित्था एमेवोवट्ठए ठित्तिठाणा ।
 जावावलित्तिभागो समयहिगो सेसठित्तिणं तु ॥१०॥
 इच्छोवट्ठणठिइठाणगाओ उल्लंघिऊण आवलियं ।
 तद्वलियं निक्खवइ अह ठित्तिठाणेषु सव्वेषु ॥११॥
 उदयावलिउवरित्थं ठाणं अहिकिच्च होइ अइहीणो ।
 निक्खेवो सव्वोवरि ठिइठाणवसा भवे परमो ॥१२॥
 समयार्हय अइत्थवणा वन्धावलिया य मोत्तु निक्खेवो
 कम्मठिई वन्धोदय आवलियं मोत्तु थोवट्ठे ॥ १३ ॥
 निव्वाघाए एवं ठित्तिवाओ एत्थ होइ वाघाओ ।
 वाघाए समऊणं कंडगमइत्थावणा होइ ॥ १४ ॥

उक्कोसं डायठिई किंचृणा कंडगं जहणं तु ।
 पल्लासंखंसं डायठिई जत्तो परमवन्धो ॥ १५ ॥
 चरमं नो वट्टिज्जइ जाय अणंताणि फड्ढाणि तओ ।
 उस्तक्खिय उवट्टइ उदया ओवट्टणा एव ॥ १६ ॥
 अइत्थावणाइयाओ सन्नाओ दुसु वि पुव्ववुत्ताओ ।
 किंतु अणंतभिलावेण फड्ढा तासु वत्तव्वा ॥ १७ ॥
 थोवं पएसगुणहाणि अंतरे दुसुवि हीणनिक्खेवो ।
 तुल्लो अणंतगुणिओ दुसुवि अइत्थावणा चेवं ॥ १८ ॥
 तत्तो वाघायणुभागकंडगं एक्कवग्गणाहीणं ।
 उक्कोसो निक्खेवो तुल्लो सविसेससंतं च ॥ १९ ॥
 आवन्धं उवट्टइ सब्बथोवट्टणा ठितिरसाणं ।
 किट्ठीवज्जे उभयं किट्टिसु ओवट्टणा एक्का ॥ २० ॥
 ॥ इति उद्वर्त्तनाऽपवर्त्तना ॥

॥ अद उदीरणा ॥

जं करणेणोकट्टिय विज्जइ उदए उदीरणा एसा ।
 पगइठिइमाइ चउहा मूलत्तरभेवओ दुविहा ॥ १ ॥

वेयणियमोहणीयाण होइ चउहा उदीरणाउस्स ।
 साई अधुवा सेसाण साइवजा भवे तिविहा ॥ २ ॥
 अधुवोदयाण दुविहा मिच्छस्स चउविहा तिहन्नासु ।
 मूलुत्तरपगईणं भणामि उदीरगा एत्तो ॥ ३ ॥
 घाईणं छउमत्था उदीरगा रागिणो उ मोहस्स ।
 वेयाऊण पमत्ता सजोगिणो नामगोयाणं ॥ ४ ॥
 उवपरघायसाहारणं च इयरं तणूए पज्जत्ता ।
 छउमत्था चउदंसणनाणा वरणंतरायाणं ॥ ५ ॥
 तसथावराइ तिगतिगआउगतिजातिदिट्ठिवेयाणं ।
 तन्नामा अणुपुवीणंपि किंतु ते अंतरगईए ॥ ६ ॥
 आहारी उत्तरतणु-नरतिरितव्वेयए पमोत्तूणं ।
 उदीरंती उरलं ते चेव तसा उवंगं से ॥ ७ ॥
 आहारी सुरनारगसन्नी इयरे निलो उ पज्जत्तो ।
 लद्धीए वायरोदीरगाओ वेउव्वियतणुस्स ॥ ८ ॥
 तदुवंगस्य वि तेच्चिय पवणं मोत्तूण केइ नरतिरिया ।
 आहारसत्तगस्स वि कुणइ पमत्तो विउव्वंतो ॥ ९ ॥
 सेत्तीसं नामधुवोदयाण उदीरगा सजोगीओ ।

लोभस्स य तणुकिट्टीण हेअंति तणुराणिणो जीवा ॥१०॥
पंचेदियपज्जत्ता नरतिरि चउरंस उसभपुव्वाणं ।
चउरंसमेव देवा उत्तरतणुभोगभूमी य ॥ ११ ॥
आइमसंघयणं चिय सेढीमारूढगा उदीरोति ।
इयरे हुंडं ठेवण्णं तु विगला अपज्जत्ता ॥ १२॥
वेउव्वियआहारगउदये न नरा वि हेअंति संघयणी ।
पज्जत्त वायरोच्चिय आयावुद्धीरगो भोमो ॥ १३ ॥
पुढवी आउवणस्सइ वायरपज्जत्तउत्तरतणू य ।
विगलपणिंदियतिरिआ उज्जोवुद्धीरगा भणिआ ॥१४॥
सगला सुगतिसराणं पज्जत्ताऽसंखवासदेवा य ।
इयराणं षेरइया नरतिरि सुसरस्स विगला य ॥१५॥
उस्सासस्स सरस्स य पज्जत्ता आणपाणभासासु ।
जा न निरुंभइ ते ताव हेअंति उदीरगा जोगी ॥१६॥
नेरईआ सुहुमतसा वज्जिय सुहुमाय तह अपज्जत्ता ।
जसकीत्तुदीरगाएज्जसुभगनामाण सणिणसुरा ॥१७॥
उच्चं चिय जइ अमरा केई मणुआ व नीयमेवण्णे ।
चउगईआ दुभगाई तित्थयरो केवली तित्थं ॥ १८ ॥

मोक्षुण खीणरागं इंदियपञ्जत्तगा उदीरेति ।
 निहा पयला सायासायाइं जे पमत्तत्ति ॥ १९ ॥
 अपत्ताई उत्तरतणू य अस्संखया उ वज्जित्ता ।
 सेसनिहाण सामी संबंधगता कसायाणं ॥ २० ॥
 हासरईसायाणं अन्तमुहुत्तं तु आइमं वेवा ।
 इयराणं नेरईया उहुं परियत्तणविहीए ॥२१॥
 हासाईछक्कस्स उ जाव अपुव्वो उदीरगा सव्वे ।
 उदउव्वुदीरणाए इव ओघेणं होइ नायव्वो ॥२२॥
 पगइठाणविगप्पा जे सामी हेति उदयमासज्ज ।
 तेच्चिय उदीरणाए नायव्वा घातिकम्माणं ॥२३॥
 मोक्षुं अजोगिठाणं सेसा नामस्स उदयवन्नेया ।
 गोयस्स य सेसाणं उदीरणा जा पमत्तोत्ति ॥२४॥

॥ अथ स्थिर्युदीरणा ॥

पत्तोदयाए इयरा सह वेयइ ठिइ उदीरणा पसा ।
 वेथ्यावलिया हीणा जावुक्कोसत्ति पाउग्गा ॥२५॥

वेयाणियाऊग दुहा चउव्विहा मोहणीय अजहण्णा
 पंचण्हं साइ वज्जा सेसा सव्वेसु दुव्विगप्पा ॥२६॥
 भिक्खत्तस्स चउद्धा धुव्वोदयाणं तिहा उ अजहण्णा ।
 सेसविगप्पा दुव्विहा सव्वविगप्पाउ सेसाणं ॥२७॥
 सामित्तद्धा ठेया इह ठिइसंकमेण तुल्लाओ ।
 वाहुल्लेण व्विसेसं जं जाणं ताण तं वोच्चं ॥२८॥
 अंतो मुहुत्तहीणा सम्मे मिस्संमि दोहि मिच्चस्स ।
 आवलिदुगेण हीणा वन्धुक्कोसाण परमठिई ॥२९॥
 मणुयाणुपुव्वि आहार देवदुगसुहुमविगलत्तियगाणं ।
 आयायस्स य परिवडणमंतमुहुहीणमुक्कोसा ॥३०॥
 हयसेसा तिस्थठिई पल्लासंखेज्जमेत्तिथा जाया ।
 तीसे सजोगिपढमे समए उदीरणुक्कोसा ॥ ३१ ॥
 भयकुच्च आयावुज्जोय सव्वघाई कसायनिद्दाणं ।
 अतिहीणसंतवन्धो जहण्णउदीरगो अतसो ॥३२॥
 एगिंदियजोगाणं पडिक्ख्वा धंधिऊण तव्वेई ॥३३॥
 वन्धालि चरमसमए तदागए सेसजाईणं ।
 दुमगाइणीयतिरिदुग अपढम संघयणनोकसायाणं ।

मणुपुव्वऽपज्जतइए सन्निस्सेवं इगागयगे ॥ ३४ ॥
 अमणागसस्स चिरठिइ अंते देवस्स नारयस्सा वा ।
 वेउव्वंगगईणं अणुपुव्वीणं तइयसमये ॥३५॥
 वेयत्तिगं दिठ्ठिदुगं संजलणाणं च पढमगठितीए ।
 समयहिगालियाए सेसाए उवसमे वि दुसु ॥३६॥
 एगिंदागय अइहीणसंत सण्णीसु मीस उदयंते ।
 पवणो सठिइजहणणग समसंत विउव्विच्छस्संते ॥३७
 चउरुवसमिज्जु मोहं मिच्छं खविउं सुरोत्तमो होउं ।
 उक्कोससंजमंते जहणणगाहारगदुगाणं ॥३८॥
 खीणंताणं खीणे मिच्छत्तकमेण चोइसण्हंपि ।
 सेसाण सजोगंते भिन्नमुहुत्तठिईगाणं ॥ ३९॥

॥ अथ रसोदीरणा ॥

अणुभागुदीरणाए घाईसण्णा य ठाणसण्णा य ।
 सुभया विवागहेऊ जोरथ विसेसो तयं वोच्छं ॥४०॥
 पुंसित्थिविग्घअचक्खु चक्खुसम्माणइगिदुटाणे वा

मणपञ्जनपुंसाणं वच्चासो सेसवन्धसमा ॥ ४१ ॥
 देसोवघाइयाणं उदए देसोव होइ सव्वो वा ।
 देसोवघायओ च्चिय अचक्खुसम्मत्तविग्घाणं ॥ ४२ ॥
 घाइं ठाण पडुच्चं सव्वघाईण होइ जह वन्धे ।
 अग्घाईणं ठाणं पडुच्च भणिमो विसेसोत्थ ॥ ४३ ॥
 थावरचउ आयवठरलसत्ततिरिगलमणुयतियगाणं ।
 नग्गोहाइ चउण्हं इग्गिदिउसभाइछण्हंपि ॥ ४४ ॥
 तिरिमणुपाओगाणं मीसगुरुय खरनरयदेवपुव्वीणं ।
 दुष्ठाणि उ च्चिय रसो उदए उदीरणाए च ॥ ४५ ॥
 सम्मत्तमीसगाणं असुभरसो सेसयाण वन्धुत्तं ।
 उक्कोसुदीरणा संतयंमि छ्छाणवडिए वि ॥ ४६ ॥
 मोहणियणाणवरणं केवलियं दंसणं विरयविग्घं ।
 संपुन्नजीवदव्वे न पञ्जवेसु कुणइ पाकं ॥ ४७ ॥
 गुरुलहुगाणंतपएसिएसु चक्खुस्त सेसविग्घाणं ।
 जोग्गोसु गहणधरणे ओहीणं रूविदव्वेसु ॥ ४८ ॥
 सेसाणं जह वन्धे होइ विवागोउ पच्चओ दुविहो ।
 भवपरिणामकच्चो वा निगुणसगुणाण परिणईओ ४९ ॥

उत्तरतणुपरिणामे अहिय अहोतावि हुंति सुसरजुषा
 मिउलहुपरघाउज्जोव खगइचउरंस पत्तेया ॥ ५० ॥
 सुभगाइ उच्चगोयं गुणपरिणामाउ देसमाइणं ।
 अइहीणफहृगाओऽणंतंसो नोकसायाणं ॥ ५१ ॥
 जा जम्मि भवे नियमा उदीरए ताओ भवनिमित्ताओ
 परिणामपच्चयाओ सेसाओ सई स सब्बत्थ ॥ ५२ ॥
 तित्थयरं घाईणि य आसज्ज गुणं पहाणभावेण ।
 भवपच्चइआ सव्वा तहेव परिणामपच्चइया ॥ ५३ ॥
 वेयणीएणुक्कोसा अजहण्णा मोहणीए चउभेया ।
 सेसघाईण तिविहा नामागोयाण एक्कोसा ॥ ५४ ॥
 सेसविगप्पा दुविहा सव्वे आउस्स होउमुवसंतो ।
 सब्बट्टगओ साए उक्कोसुदीरणं कुणइ ॥ ५५ ॥
 कक्खडगुरुमिच्छाणं अजहण्णा मिउलहुणएक्कोसा
 चउहा साइयवज्जा वीसाए धुवोदयसुभाणं ॥ ५६ ॥
 अजहण्णा असुभधुवोदयाण तिविहा भवे तिवीसाए
 साई अघुवा सेसा सव्वे अधुवोदयाणं तु ॥ ५७ ॥
 दाणाइ अचक्खूणं उक्कोसाइम्मिहीणलद्धिस्स ।

सुहुमस्त चक्खुणो पुणं तिइंदिए सव्वपज्जत्ते ॥५८॥

निदाणं पंचणहवि मज्झिमपरिणामसंकिलिट्टस्स ।

पण नोकसायऽसाए नरण जेठ्ठि ति सम्मत्तो ॥५९॥

सम्मत्तमीसगाणं से काले गहिहित्ति मिच्छत्तं ।

हासरईणं पज्जत्तगस्स सहस्सारदेवस्स ॥६०॥

पंचिंदी तसवायर पज्जत्तगसायसुस्सरगईणं ।

वेउव्वुस्सासस्स य देवो जेठ्ठि ति सम्मत्तो ॥६१॥

गइहुंडुवघायाणिट्टखगतिदुभगाइ(चउ)नीययोयाणं ।

णोरईओ जेठ्ठिइं मणुओ अंते अपज्जस्स ॥६२॥

कक्खड्युरुसंघयणथीपुंसंठाणतिरिगईणं च ।

पंचिदिओ तिरिक्खो अठमवासे षवासाऊ ॥६३॥

तिगपलियाऊ सम्मत्तो मणुअगतिउसभउरलसत्ताणं ।

(मणुओ मणुयगइउसभउरलाणं पाठांतर)

पज्जत्ता चउगईआ उक्कोससगाउयाणं तु ॥६४॥

हस्सठिइंपज्जत्ता तन्नामा विगलजाइसुहुमाणं ।

थावरनिगोअएग्गि-दिआणमिह वायरा नवरिं ॥६५॥

आहारत्तण पज्जत्तगो य चउरंसमउ य लहुयाणं ।

पत्तेयखगइपरघाय तइयमुत्तीण य विसुद्धो ॥६६॥
 उत्तरवेडविजई उज्जोवस्सायवस्त खरपुढवी ।
 नियगगईणं भणिया तइए समए णुपुढवीणं ॥६७॥
 जोगंते सेसाणं सुभाणमियराण चउसु वि गईसु ।
 पज्जत्तुक्कडमिच्छे सुलद्धिहीणेसु ओहीणं ॥६८॥
 सुयकेवलिणो मइसुयचक्खुअचक्खुणदीरणा मंदा ।
 विपुलपरमोहिगाणं मणनाणोहीदुगस्सावि ॥६९॥
 खवगम्मि विग्घकेवलसंजलगाणं सनोकसायाणं ।
 सगसगउदीरणंते निहापयलाणमुवसंते ॥७०॥
 निदानिदाईणं पमत्तविरए विसुज्झमाणम्मि ।
 वेयगसम्मत्तस्त उ सगखवणोदीरणा चरमे ॥७१॥
 सम्मपडिवत्तिकाले पंचणहवि संजमस्त चउचउसु ।
 सम्माभिमुहो मीसे आउण जहणणठितिगोत्ति ॥७२॥
 पोग्गलत्रिवागियाणं भवाइसमए विसेसमुरलस्त ।
 सुहुमापज्जो वाऊ वादरपज्जत्त वेउव्वे ॥ ७३ ॥
 अप्पाऊ वेइंढी उरलंगे नारओ तदियरंगे ।
 निल्लेवियवेउव्वा असण्णिणणो आगओ कूरो ७४॥

मिच्चोतरे किलिद्धो वीसाए धुवोदयाण सुभियाणं ।
 आहारजई आहारगस्त अविमुद्धपरिणामो ॥७५॥
 अप्पाउरिसभचउरंसगाण अमणो चिरठिइचउण्हं ।
 संठाणाण मणुओ संघयणाणं तु सुविमुद्धो ॥७६॥
 हुंडोवघायसाहरणाण सुहुसो सुदीहपज्जतो ।
 परघाए लहुपज्जो आयावुज्जोय तज्जोगो ॥ ७७ ॥
 ठेवष्ठस्त वेइंदी वारसवासाऊ मउयलहुआणं ।
 सण्णि विमुद्धो णाहारगो य पत्तेयमुरलसमं ॥७८॥
 कक्खडगुरूण मंथे विणियट्टे णाम असुहधुवियाणं ।
 जोगंतंमि नवण्हं तित्थस्ताउज्जियाइम्मि ॥ ७९ ॥
 सेसाणं वेयंतो मज्झिमपरिणामपरिणाओ कुणइ ।
 पच्चयसुभासुभावि य चिंतिय णेओ विवागीओ ॥८०॥

॥ अथ प्रदेशोदीरणा ॥

पंचणहणुकोसा तिहा चउद्धा य वेयमोहाणं ।
 सेसविगप्वा दुविहा सब्वविगप्पाओ आउस्त ॥८३॥

तिविहा ध्रुवोदयाणं मिच्छस्स चउव्विहा अणुक्कोसा ।
 सेसविगप्पा दुविहा सव्वविगप्पा य सेसाणं ॥८२॥
 अणुभागुदीरणाए हेअंति जहण्णाए सामिणो जे उ ।
 जेष्ठपएसुदीरणसामो ते घाइकम्माणं ॥ ८३ ॥
 वेयणियाण पमत्तो अपमत्तत्तं जया उ-पडिवज्जे ।
 संघयणपणगतणुदुगउज्जोवाणं तु अपमत्तो ॥ ८४ ॥
 तिरियगईए देसो अणुपुव्विगईण खाइओ सम्मो ।
 दुभगाई नीयाणं विरई अब्भुट्ठिओ सम्मो ॥८५॥
 देवनिरयाउयाणं जहन्नजेठ्ठिई गुरुअसाए ।
 इयरऊणं इयरा अट्टमवासे ठवासाऊ ॥८६॥
 एगंतेणं चिय जा तिरिक्खजोग्गाओ ताण ते चेव ।
 नियनियनामविसिद्धा अपज्जनामस्स मणु सुद्धो ॥८७
 जोगंतुदीरगाणं जोगंते दुसरसुसरसासाणं ।
 नियगंतकेवलीणं सव्वविसुद्धस्स सेसाणं ॥ ८८ ॥
 तप्पाओगकिलिष्ठा सव्वाणं हेअंति खवियकम्मं सा ।
 ओहीणं तव्वेई मंदाइ सुही य आऊणं ॥ ८९ ॥
 ॥ इति उदीरणा ॥

॥ अथ उपशमनाकरणम् ॥

देसुवसमणा सव्वाण होइ सव्वोवसामणा मोहे ।
 अपसत्थपसत्था जा करणुवसमणाए अहिगारो ॥१॥
 सव्वुवसमणा जोगो पज्जत्तपणिंदिसणिणसुभत्तेसो ।
 परियत्तमागसुभपगइ वन्धओतीव सुज्झंतो ॥२॥
 असुभसुभे अणुभागे अणंतयुगहाणिवुड्ढिपरिणामो ।
 अंतो कोडाकोडी ठिइओ आउं अवंधंतो ॥ ३ ॥
 वंधादुत्तरबंधं पलिओवमसंखभागऊणूं ।
 सागारे उवओगे वट्टंतो कुणइ करणाइं ॥४॥
 पढमं अहापवत्तं वायं तु नियट्ठि तइयमणियट्ठी ।
 अंतोमुहुत्तियाइं उवसमअच्छं च लहइ कमा ॥५॥
 आइल्लेसुं दोसुं जहणणउक्कोसिआ भवे सोही
 जं पइसमयं अज्झवसाया लोणा असंखेजा ॥६॥
 पइसमयमणंतयुणा सोही उड्ढामुही तिरिच्छाओ ।
 छट्ठाणा जीवाणं तइए उड्ढामुही एक्का ॥ ७ ॥
 गंतुं संखिज्जंसं अहापवत्तस्स हाण जा सोही ।

तीए पढमे समए अणंतगुणिआओ उक्कोसा ॥८॥
 एवं एकंतरिया हेह्वरिं जाव हीण पज्जत्ते ।
 तत्तो उक्कोसाओ उवरुवरिं होइ णंतगुणा ॥ ९ ॥
 जा उक्कोसा पढमे तीसे णंता जहन्निया वीए ।
 करणे तीए जेढ्ढा एवं जा सठ्वकरणंपि ॥ १० ॥
 अपुव्वकरणसमगं कुणइ अपुव्वे इमे उ चत्तारि ।
 ठितिघायं रसघायं गुणसेढी वंधगद्धा य ॥११॥
 उक्कोसेणं बहुसागराणि इयरेण पल्लऽसंखंसं ।
 ठितिअग्गाओ घायइ अंतमुहुत्तेण ठितिखंडं ॥१२॥
 असुभाणंतमुहुत्तेणं हणइ रसखंडगं अणंतंसं ।
 किरणे ठितिखंडाणं तम्मि उ रसकंडगसहस्सा ॥१३॥
 घाइयठिइओ दलियं घेत्तुं घेत्तुं असंखगुणणाए ।
 साहिअ दुकरणकात्ते उदयाओ रयइ गुणसेढिं ॥१४॥
 करणाइए अपुव्वो जो घन्धो सो न होइ जा अपणो ।
 वंधगअद्धा सा तुल्लिगा उ ठिइकंडगद्धाए ॥१५॥
 जा करणाइए ठिइं करणंते तीए होइ संखंसो ।
 अनियट्टीकरणमओ मुत्तावलिसंठियं कुणइ ॥१६॥

एवमणियट्टिकरणे ठितिघायांइणि हुंति चउरो वि ।
 संखेज्जंसे सेसे पढमठिइ अंतरं च भवे ॥ १७ ॥
 अंतमुहुत्तियमेत्ताइं दोवि निम्मवइ वन्धगद्धाए ।
 गुणसेहीसंखभागं अंतरकरणेण उक्किरइ ॥ १८ ॥
 अंतरकरणस्स विही घेतुं घेतुं ठिइओ मज्झाओ ।
 दलियं पढमठिइए विटुभइ तहा उवरिमाए ॥ १९ ॥
 इगदुग आवलिसेसाए णत्थि पढमाए दीरणागाला ।
 पढमठिइए उदीरण वीयाउ एइ आगालो ॥ २० ॥
 आवलिमेत्तं उदएण वेइउं ठाइ उवसमद्धाए ।
 उवसमियं तत्थ भवे सम्मत्तं सोक्खवीयं जं ॥ २१ ॥
 उवरिमठिइअणुभागं तिहा तओ कुणइ चरिममिच्छुदा
 देसघाएण सम्मं इयरेणं मिच्छमीसाइं ॥ २२ ॥
 सम्मे थोवो मीसे असंखओ तस्स असंखओ सम्मे ।
 पइसमयं इइ खेवो अंतमुहुत्ताउ विज्झाओ ॥ २३ ॥
 गुणसंमेण एसो संकमो होइ सम्ममीसेसु ।
 अंतरकरणम्मि ठिओ कुणइ जओ सपत्तत्थगुणो ॥ २४ ॥
 गुणसंकमेण समगं तिणिण वि थक्कंति आउवजाणं ।

मिच्छत्तस्स उ इगिदुगआवलिसेसाए पढमाए ॥२५॥
 उवसंतद्धा अंतं विहीए उक्कड्डियस्स दलियस्स ।
 अज्झवसाणविसेसा एककस्सुदथो भवे तिण्हं ॥२६॥
 ठावलिए सेसाए उवसमअद्धाए जाव इगिसमयं ।
 असुहपरिणामतो कोई जाइ इह सासणत्तंपि ॥२७॥
 सम्मत्तेणं समगं सव्वं देसं च कोई पडिवज्जे ।
 उवसंतदंसणी सो अंतरकरणठिओ जाव ॥ २८ ॥
 वेयगसम्मदिठी सोहीअद्धाए अजयमाईआ ।
 करणदुगेण उवसमं चरित्तमोहस्स चेठंति ॥ २९ ॥
 जाणण गहणणुपालण-विरओ विरईइ अविरउन्नेसिं
 आइमकरणदुगेणं पडिवज्जइ दोण्हमण्णयरं ॥३०॥
 उदयावलिए उप्पि गुणसेठिं कुणइ सह चरित्तेण ।
 अंतो असंखगुणणाए तत्तियं वड्डुए कालं ॥ ३१ ॥
 परिणामपच्चएणं गमागमं कुणइ करणरहिथो वि ।
 आभोगनठचरणो करणे काऊण पावेइ ॥ ३२ ॥
 परिणामपच्चएणं चउव्विहं हाइ वड्डुई वावि ।
 परिणामवठयाए गुणसेठिं तत्तियं रयइ ॥ ३३ ॥

सम्मुप्यायणविहीणा चउगइश्चा सम्मदिष्ठी पज्जत्ता ।
 संजोयणा विजोयंति न उण पढमठितिं करंति ॥३४॥
 उवरिमगे करणदुगे दलियं गुणसंकमेण तेसिं तु ।
 नासेइ तओ पच्छा अंतमुहुत्ता सभावत्थो ॥३५॥
 वंसणखवगस्सरिहो जिणकालीओ पुमठवासुवरिं ।
 अणणासकमा करणाइं करिञ्च गुणसंकमं तह य ॥३६॥
 अणुवकरणसमगं गुणउवलणं करेइ दोणहं पि ।
 तक्करणाइं जं तं ठितिसंतं संखभागोत्ते ॥३७॥
 एवं ठितिवंधो वि हु पविसइ अणियट्टिकरणसमयम्मि ।
 अपुब्बां गुणसेट्ठिं ठितिरसकंडाणि वन्धं च ॥३८॥
 वेसुवसमणनिकायण निहत्तिरहियं च होइ विठित्तिगं
 कमसो असण्णचउरिंदियाइ तुल्लं च ठिइसंतं ३९
 ठितिखंडसहस्साइं एक्केक्के अंतरंमि गच्छंति ।
 पल्लिओवमसंखंसे वंसणसंते तओ जाण ॥ ४० ॥
 संखेज्जा संखेज्जा भागा खंडेइ सहससो ते वि ।
 तो मिच्छस्स असंखा संखेज्जा सम्ममीसाणं ॥४१॥
 तत्तो बहुखंडंते खंडइ उदयावलीरहिअमिच्छं ।

ततो असंखभागा सम्मा मीसाण खंडेइ ॥ ४२ ॥
 बहुखंडंते मीसं उदयावलि वाहिरं खिवइ सम्मे ।
 अडवाससंतकम्मो दंसणमोहस्स सो खवगो ॥४३॥
 अंतमुहुत्तियखंडं ततो उक्किरइ उदयसमयाओ ।
 निखिवइ असंखगुणं जाव गुणसेढि परे हीणं ॥४४॥
 उक्किरइ असंखगुणं जाव दुचरिमंति अतिमे खंडे ।
 संखेज्जं सो खंडइ गुणसेढीए तथा वेइ ॥४५॥
 कयकरणो तक्काले कालंपि करेइ चउमुविगइसु ।
 वेइअसेसो सेढी अणणयरं वा समारुहइ ॥४६॥
 तइयचउत्थे तंमिव भवम्मि सिज्झंति दंसणे खीणे ।
 जं देवनिरयसंखाउ चरमवेहेसु ते हुंति ॥४७॥
 अहवा दंसणमोहं पढमं उवसामइत्तु सामणणे ।
 ठिच्चा अणुदइयाणं पढमठितिआवलीनियमा ॥४८॥
 पढमुवसमुव सेसं अंतमुहुत्ताओ तस्स विज्झाओ ।
 संकेसविसोहीओ पमत्तइयरत्तणं बहुसो ॥४९॥
 पुणरत्रि तिण्णिउ करणाइं करेइ तइयम्मि एत्थ पुण भेओ
 अंतो कोडाकोडी बंधं संतं च सत्तण्हं ॥५०॥

ठित्तिखंडं उक्कस्सं पि तस्स पडलस्स संखतमभागं ।
 ठित्तिखंडं बहुसहस्से सेक्केक्कं जं भणित्तामो ॥५१॥
 करणस्स संखंभागे सेसे असणिमाइयाण समो ।
 वन्धो कमेण पल्लं वीसगतीसाण उ दिवडुं ॥५२॥
 मोहस्स दोणि पल्ला संते वि हु एवमेव अप्पवहू ।
 पल्लियमित्तंमि वन्धे अणो संखेज्जगुणहीणो ॥५३॥
 एवं तीसाण पुणो पल्लं मोहस्स होइ उ दिवडुं ।
 एवं मोहे पल्लं सेसाणं पल्लसंखंसो ॥ ५४ ॥
 वीसगतीसगमोहाण संतयं जहकमेण संखगुणं ।
 पल्लअसंखेज्जंसो नामागोयाण तो वन्धा ॥५५॥
 एवं तीसाणंपि हु एक्कपहारेण मोहणीयस्स ।
 तीसगअसंखभागो ठित्तिवन्धो संतयं च भवे ॥५७॥
 वीसग असंखभागे मोहं पच्छाओ घाइ तइयस्स ।
 वीसाण तओ घाइ असंखभागम्मि वज्झंति ॥५७॥
 असंखसमपवच्चाणु-दीरणा होइ तम्मि कालम्मि ।
 देसे घाइरसंतो मणपज्जव अंतरायाणं ॥५८॥
 लाभोहीणं पच्छा भोगअचक्खुसुयाण तो चक्खू ।

परिभोगमर्द्धणं तो विरियस्स असेडिगा घाई ॥५९॥
 संजमघाईण तथो अंतरमुदओ उ जाण दोणहं तु ।
 वेयकसायणणयरे सोदयतुड्लाय पढमठिई ॥६०॥
 थीअपुमोदयकाला संखेज्जगुणो उ पुरिसवेयस्स ।
 तस्स वि विसेसअहिओ कोहे तत्तो वि जहकमसो ॥६१॥
 अंतकरणेण समं ठित्तिखंडगबंधगद्धनिप्फत्ती ।
 अंतरकरणणंतरसमये जायंति सत्तइमे ॥६२॥
 एगट्टाणणुभागो बंधो उदीरणा य संखसमा ।
 अणुपुव्वीसंकमणं लोहस्स असंकमो मोहे ॥६३॥
 वद्धं वद्धं छसु आवलीसु उवरेणुदीरणं एइ ।
 पंडगवेउवसमणा अंसंखगुणाए जावंतं ॥६४॥
 अंतरकरणपविट्ठो संखासंखस मोह इयराणं ।
 बंधादुत्तर बंधे एवं इत्थीए संखसे ॥६५॥
 उवसंते घाईणं संखेज्जसमा परेण संखसो ।
 वन्धो सत्तण्हेवं संखेज्जतमंमि उवसंते ॥६६॥
 नाम गोयाण संखा वन्धो वासा असंखियां तइए ।
 तो सव्वाण वि संखा तत्तो संखेज्जगुणहाणी ॥६७॥

जं समए उवसंतं छक्कं उदयठिई तथा सेसा ।
 पुरिसे समज्जणावलिदुगेण वद्धं अणुवसंतं ॥ ६८ ॥
 आगालेणं समगं पडिग्गहया फिडइ पुरिसवेयस्स ।
 सोलसवासियवन्धो चरमो चरमेण उदयेण ॥ ६९ ॥
 तावइ कालेणं चिय पुरिसं उवसामए अवेदो सो ।
 धन्धो धत्तीससमा संजलणियराण उ सहस्सं ॥ ७० ॥
 अठ्वेय पढमसया कोहतिगं आठवेइ उवसमिउं ।
 तिसु पडिग्गहया एक्काए उदओ य उदीरणा वन्धो ७१
 फिट्ठंति आवलीए सेसाए सेसयंतु पुरिससमं ।
 एवं सेसकसाया वेयइ थिदुगेण आवलिया ॥ ७२ ॥
 धरिसुदयम्मि जहण्णो वन्धो दुगुणो उ होइ उवसमगे ।
 तयणंतरपगईए चउग्गुणोन्नेसु संखगुणो ॥ ७३ ॥
 लोहस्स उ पढमठिइं वीयठिईओ उ कुणइ तिविभागं ।
 दोसु दलनिकखेवो तइओ पुण किट्ठिवेयद्धा ॥ ७४ ॥
 संताणि वउज्झमाणगसरूवओ फड्डगाणि जं कुणइ ।
 सा अस्सकण्णकरणद्ध मज्झिमा किट्ठिकरणद्धा ॥ ७५ ॥
 अपुव्वविसोहीए अणुभागोण्णविभयणं किट्ठी ।

पढमसमयम्मि रसफड्डवग्गणाणंतभागसमा ॥७६॥
 सव्वजहण्यगफहग अणंतगुणहीणियाउ ता रसओ
 पइसमयमसंखसो आइमसमयाउ जावंतो ॥७७॥
 अणुसमयमसंखगुणं दलियमणंतसओ उ अणुभागो
 सव्वेसु मंदरसमाइयाण दलियं वित्तेसूणं ॥७८॥
 आइमसमयकयाणं मंदाईणं रसो अणंतगुणो ।
 सव्वुक्कस्सरसा वि हु उवरिमसमयस्सणंतसे ॥७९॥
 किट्टीकरणद्दाए तिसु आवलियासु समयहीणासु ।
 न पडिग्गहया दोणहवि सछाणे उवसमिज्जंति ॥८०॥
 लोभस्स अणुवसंत किट्टी उदयावली य पुव्वुत्तं ।
 वायरगुणेणं समगं दोणह वि लोभा समुवसंता । ८१
 सेसद्धं तणुरागो ताओ आकड्डियाओ पढमठिई ।
 वज्जिय असंखभागं हेट्टुवरिमुदीरणं सेसा ॥ ८२ ॥
 गेणहंतो य मुयंतो असंखभागं तु चरिमसमयम्मि ।
 लवसामिय वीयठिई उवसंतं लभइ गुणठाणं ॥८३॥
 अन्तोमुहुत्तमेत्तं तस्स वि संखेज्जभागतुल्लाओ ।
 गुणसेढी सव्वद्धं तुल्ला य पएसकालेहिं ॥ ८४ ॥

करणाय नोवसंतं संकमणोवट्टणं तु दिट्ठित्तं ।
 मोत्तूण विलोमेणं परिवडइ जा पमत्तोत्ति ॥८६॥
 उक्कट्ठित्ता दलियं पढमठित्ति कुणइ वीयठित्तिहिंतो ।
 उदयाइ विसेसूणं आवलिउत्पि असंखगुणं ॥८७॥
 जावइया गुणसेढी उदयवई तासु हीणगं परच्चो ।
 उदयावलीमकाउं गुणसेढी कुणइ इयराणं ॥८८॥
 संकम उदीरणाणं णत्थि विसेसो उ एत्थ पुब्बुत्तो ।
 जं जत्थ उ वोच्चिण्णं जायं वा होइ तं तत्थ ॥८९॥
 वेइज्जमाणसंजलण कालओ अहिच्चमोहगुणसेढी ।
 पडिवत्ति कसाउदए तुल्ला सेसेहिं कम्मेहिं ॥९०॥
 खवगुवसामगपच्छागयाण दुगुणो तहिं वन्धो ।
 अणुभागोऽणंतगुणो असुभसुभाण विवरीच्चो ॥९१॥
 परिवाडीए पडिउं पमत्तइयरत्तणेण वहुं किच्चा ।
 देसजई संजमं वा सासणभावं च कोइ वयइ ॥९२॥
 उवसंसम्मत्तद्धा अंतो आउक्खया भवे देवो ।
 जेण तिसु आउएसुं वट्ठेसु न सेडिमारुहइ ॥९३॥
 सेढी पडिओ तम्हा छडावली सासणो वि देवेइ ॥

एगभवे दुक्खुत्तो चरिस्समोहं उवसमेजा ॥९४॥
 दुचरिमसमथे नियगोदयस्स इत्थी नपुंसगोश्चोन्नं ।
 समइत्तु सत्त पच्छा किंतु नपुंसोकमारद्धे ॥९५॥

॥ इति सर्वोपशमना ॥

॥ अथ देशोपशमना ॥

मूलुत्तरकम्माणं पगडीठितिमादि होइ चउभेया ।
 देसकरणेहिं देसं समेइ जं देससमणातो ॥९६॥
 उषट्टणओवट्टणसंकमकरणाइं हुंति नन्नाइं ।
 देसोवसामिश्चस्सा जा पुडवो सव्वकम्माणं ॥९७॥
 खवगो व सामगो वा पढमकसायाण दंसणतिगस्सा ।
 देसोवसामगो सो अपुव्वकरणंतगो जाव ॥९८॥
 साइयमाइ चउद्धा देसुव्वसमणा अणाइसंतीणं ।
 मूलुत्तरपगईणं साईअधुवाओ अधुवाओ ॥९९॥
 गोयाउयाण दोणहं चउत्थ छट्टाणं होइ छ सत्तणहं ।
 साइयमाइ चउद्धा सेसाणं एगठाणस्स ॥१००॥
 उवसामणा ठिईए उक्कोसा संकमेण तुद्लाश्चो ।

इयरावि किंतु अभयी उव्वलग अणुव्वकरणेसु ॥१०१॥
 अणुभागपएसाणं सुभाणं जा पुव्वमित्थ इयराणं ।
 उक्कोसियरं अभत्रिय एगिंदी देससमणाए ॥१०२॥
 ॥ इति उपशमनाकरणम् ॥ ३८ ॥

॥ अथ निद्धत्तिनिकाचनाकरणम् ॥

देसुवसामणतुल्ला होइ निहत्ती निकायणा नवरिं ।
 संकमणंपि निहत्तीए नत्थि सवाणि इयरीए ॥१॥
 गुणसेट्ठीपएसग्गं थोवं उवसामियं असंखगुणं ।
 एवं निहयनिकाइय अहापवत्तेण संकतं ॥२॥
 ठितिवंध उदीरण तिविहसंकमे हेअंतिऽसंखगुणकमसा ।
 अज्झवसाया एवं उवसामणमाइएसु कमो ॥३॥
 ॥ इत्यष्टौ करणानि ॥ समाप्तः कर्मप्रकृतिसङ्ग्रहः ॥

॥ अथ सप्ततिकासङ्ग्रहः ॥

मूलुत्तरपगईणं साइअणाईपरूवणाणुगयं ।
 भणियं वंधविहाणं अहुणा संवेहगं भणिमो ॥१॥

आउम्मि अट्ट मोहेठसत्त एक्कं व छाइ वा तइए ।
 वज्झंतयंमि वज्झंति सेसएसु छ सत्तठ ॥२॥
 मोहस्सुदये अठ वि सत्तय लब्भंति सेसयाणुदए ।
 संतोइपणाणि अघाइयाण अड सत्त चउरो य ॥३॥
 वंधइ ठ सत्त अठ य मोहुदए सेसयाण एक्कं च ।
 पत्तेयं संतेहिं वंधइ एगं छ सत्तठ ॥४॥
 सत्तठ्ठवंधेसु उदओ अट्टेण्ह होइ पयडीणं ।
 सत्तण्हं चउण्हं वा उदओ सायस्स वंधम्मि ॥५॥
 दो संतठाणाइं वंधे उदए य ठाणय एक्कं ।
 वेयणियाउयगोए एगं नाणंतराएसु ॥६॥
 नाणंतरायबंधो आसुहुमं उदयसंतया खीणं ।
 आइमदुगचउसत्तमनारयतिरिमणुसुराज्जणं ॥७॥
 नारयसुराउ उदओ चउ पंचम तिरिमणुस्स चोइसंमं ।
 आसम्मदेसजोगी उवसंता संतयाज्जणं ॥८॥
 अबंधे इगिसंतं दो दो वद्धाउ वज्झमाणाउ ।
 चउसु वि एक्कसुदओ पणनवनव पंच इइ भेया ॥९॥
 नव छच्चउहा वज्झइ दुगद्वदसमेसु दंसणावरणं ।

नव वापरंमि संतं छक्कं चउरो य खीणम्मि ॥१०॥
 नव भेए भंगतिथं वेच्छावट्टी-उ छविवहस्स ठिई ।
 चउ समयाथो अंतो अंतमुहुत्ताउ नवछक्के ॥११॥
 दंसणसनिद्धदंसणउदओ समकं तु होइ जा खीणो ।
 जाव पमत्तो नवणहं उदथो छसु चउसु जा खीणो ॥१२॥
 चउपण उदओ बंधेसु तिसु वि अवंधगेवि उवसंते ।
 नव संतं अट्टेवं उइण्णसंताइं चउ खीणे ॥१३॥
 खवगे सुहुमंमि चउबंधगम्मि अवंधगम्मि खीणम्मि ।
 छस्संतं चउरुदथो पंचपह वि केइ इच्छंति ॥१४॥
 वन्धो आदुगदसंगं उदओ पणचोदसं तु जा ठाणं ।
 निच्चुच्चगोत्तकम्माण संतया होइ सब्बेसु ॥१५॥
 वन्धइ उइण्णयं चियं इयरं वा दोविसंतं चउ भंगो ।
 नीएसु तिसु वि पढमो अवंधगे दोणिण उच्चुदए ॥१६॥
 तेरसमच्छएसु सायासायाण बंधवुत्तेओ ।
 संतउइण्णाइं पुण सायासायाइं सब्बेसु ॥१७॥
 बंधइ उइण्णयं चियं इयरं वा दोवि संतं चउ भंगा ।
 संतमुइण्णमबंधे दो दोणिण दुसंत इइ अट्ट ॥१८॥

दुगइगवीसासत्तर तेरस नवपंचचउ तिगदुगो ।
 बंधो इगिदुचउरथय पणछनवमेसु मोहस्स ॥१९॥
 हासरइअरइसोगाण बंधगा आनवं दुहा सव्वे ।
 वेयविभज्जंता पुण दुगइगवीसा छहा चउहा ॥२०॥
 मिच्छावन्धिगवीसो सत्तरतेरो नवो कसायाणं ।
 अरईदुगं पमत्ते ठाइ चउक्कं नियहिमि ॥२१॥
 देसूण पुव्वकोडी नवतेरे सत्तरे य तेत्तीसा ।
 वाधीसे भंगतिगं ठिति सेसेसु मुहुत्ततो ॥२२॥
 इगिदुगचउएगुत्तर आदसगं उवयमाहु मोहस्स ।
 संजलणवेयहासरइ भयदुगंछतिकसायविष्ठीए ॥२३॥
 दुगआइ दसंतुदया कसायभेया चउविहा ते उ ।
 वारसहा वेयवसा अदुगा पुण जुगलओ दुगुणा ॥२४॥
 अणसम्मभयदुगंछाण णोदओ संभवे वि वा जम्हा ।
 उदया चउवीसाविय पंक्केकगुणे अओ बहुहा ॥२५॥
 मिच्छे सगाइ चउरो सासणमीसे सगाइ तिण्णवया ।
 वप्पंचचउरपुव्वा चउ चउरो अकिरयाईणं ॥२६॥
 दसगाईसु चउवीसा एकाच्छेकारवससगचउकं ।

एकका य नवसयाइं सठाइं एवमुदयाणं ॥ २७ ॥
 वारस चउरोतिदुएककाओ पंचाइ वन्धगे उदया ।
 अवन्धगे वि एको तेसीया नवसया एवं ॥२८॥
 चउवन्धगे वि वारस दुगोदया जाण तेहि वूढेहि ।
 वन्धगभेषणें पंचणसहस्समुदयाणं ॥२९॥
 वारस दुगोदएहि भंगा चउरो य संपराएहि ।
 सेसा तेच्चिय भंगा नवसयछावत्तरा एव ॥३०॥
 मिच्छाइ अप्पमत्तं तयाण अठठ हुंति उदयाणं ।
 चउवीसाओ सासणमीसअपुवाण चउचउरो ॥३१॥
 चउवीस गुणा एए वापरसुहुमाण सत्तरसअन्ने ।
 सव्वेसु वि मोहुदया पण्णहा वारससयाओ ॥३२॥
 उदयविगप्पा जे जे उंदीरणाए वि हुंति ते ते उ ।
 श्रंतमुहुत्तिय उदया समयादारब्भ भंगा य ॥३३॥
 मिच्छत्तं श्रणमीसं चउरो चउरो कसाय वा सन्मं ।
 ठाइ अपुव्वे छकं वेयकसाया परे तओ लोभो ॥३४॥
 अठगसत्तगछकग चउतिगदुगएककाहिया वीसा ।
 तेरस वारेकारस संते पंचाइ जा एककं ॥३५॥

अणमिच्छंमीससम्माण श्रविरया अप्पमत्त जा खवगाः ।
 समकं अठकसाए नपुंस इरथीकमाछकं ॥३६॥
 पुंवेअं कोहाइ नियट्ठि नासेइ सुहुमतणुलोभं ।
 तिन्नेगति पण चउसु तिककारस चउ नि संताणि ॥३७॥
 छवीसणाइ मिच्छे उव्वलणा एव सम्ममीसाणं ।
 चउवीस श्रणविंजोए भावो भूओ वि मिच्छाओ ॥३८॥
 सम्ममीसाणं मिच्छो सम्मो पढमाण होइ उव्वलगो ।
 वन्धावखिआ उट्ठि उदओ संकतदलिअस्स ॥३९॥
 वावीसं वन्धते मिच्छे सत्तोदयमि अडवीसा ।
 संतं छ संत्तमीसा य होति सेसेसु उदपसु ॥४०॥
 सत्तरसवन्धगे छोदयेमि संतं इगट्ठचउवीसा ।
 सगतिदुवीसाय सगठगोदए णेरिगवीसा ॥४१॥
 वेसाइसु चरिमुदए इगवीसा वज्जियाइ संताइ ।
 सेसेसु होति पंचवि तिसु वि अपुव्वमि संततिगं ॥४२॥
 पंचाइ वन्धगेसु इगट्ठचउवीसेव्वन्धगेकं च ।
 तेरस वारेककारस य होति पण वन्धि खवगस्स ॥४३॥
 एगाहियां य वन्धा चउवन्धगेमाइआण संतंसा ।

वन्धोदयाण विरमे जं संतं तुभइ अण्णरथ ॥४४॥
 सत्तावीसे पछासंखंसो पोग्गलच्चव्वीसे ।
 वे छावही अइचउवीसिगवीसे उ तिचीसा ॥४५॥
 अंतमुहुत्ता उ ठिई तमेव दुहओविसेससंताणं ।
 होइ अणाइ अणंतं अणाइसंतं च छव्वीसा ॥४६॥
 अप्पज्जत्तं जाई पज्जत्तं गइहिं पेस्सिआ घहुसो ।
 वन्धं उदयं च उवेत्ति सेसपगइओ नामंस्त ॥४७॥
 उदयप्पत्ताणुओ पएसओ अणुवसंतपगइणं ।
 अणुभागोदय निच्चोदयाण सेसाण भइयव्वो ॥४८॥
 अधिरासुभचउरंसं परघाइदुगं तसाइधुववन्धी ।
 अजसपणिं शीवि उव्वं हारगसुखगइसुरंगइया ॥४९॥
 वन्धइ तिस्थनिमित्ता मणुउरलदुरिसभदेवजोगाओ ।
 नो सुहुमत्तिगेणजसं नो अजसधिरासुभाहारे ॥५०॥
 अप्पज्जत्तं गवन्धं दूसरपरघायसासपज्जत्तं ।
 तस अपसरथा खगइं वेउव्वं नरयतिगइहेज ॥५१॥
 हुंडोरात्तं धुववन्धिणीओ अधिराइ दूसरविहूणा ।
 गइआणुपुव्विजाई वापरपत्तेयअपज्जत्ते ॥५२॥

वन्धइ सुद्रुमं साहारणं च थावरं तसंगठेषठं ।
 पज्जत्ते उसभथिरसुभजसंसासुज्जोवपरघायं ॥५३॥
 आयावं ष्णिगिदिय अयसथविहूदूसरं च विगलेसु ।
 पंचिदिएसु सुतराइखगइसंघयणसंठाणा ॥५४॥
 तेवीसा पणवीसा छठवीसा अठवीसिगुणतीसा ।
 तीसेगतीस पगा वन्धट्टाणाइं नामेद्व ॥५५॥
 मणुअगइए सठवे तिरियगइए छ आइमा वन्धा ।
 नरएगुतीसतीसा पणछठवीसायदेवेषु ॥५६॥
 अठवीस नरयजोग्गा अठवीसाई सुराण चत्तारि ।
 तिगपणच्छठवीसेगिदियाण तिरिमणुअ वन्धतिगं ॥५७॥
 मिच्छंमिसासणाइसु तिअठवीसादिनामवन्धाओ ।
 छतिणिण दोति दोदो चउपण सेसेसु जसवन्धो ॥५८॥
 तग्गयणुपुषिजाई थावरमाई य दूसरविहूणा ।
 धुववन्धि हुंडविग्गह तेवीसाऽपज्जथावरए ॥५९॥
 पगइणं वच्चासो होइ गइइंदियाइं आसज्ज ।
 सपराघाऊसासा पणवीसछठवीस सायावा ॥६०॥
 तग्गइयाइ दुवीसा संघयणतसंगतिरियपणुवीसा ।

दूसरपरघाऊससास खगइगुणतीस तीसुज्जोवा ॥६१॥
 तिरि वन्धा मणुआणं तिरथयरं तीसमंति इइ भेओ ।
 संघयणूणिगुणतीसा अडवीसा नारए एक्का ॥६२॥
 तिरथयराहारगदो तिसंजुओ वन्धु नारयसुराणं ।
 अनियंटीसुहुमाणं जसकित्तीए स इगवन्धो ॥६३॥
 साहारणाइ मिच्छो सुहुमायवथावरं सनरयदुगं ।
 इगिविगलिंदियजाई हुंडगपज्जसठेवठं ॥६४॥
 सासायणो पंसस्था विहगगईदुसरदुभगुज्जोवं ।
 अणएज्जतिरियदुगं मज्झिमसंघयणसंठाणा ॥६५॥
 मीसो सम्मो उरलमणुयदुवयाइं आइसंघयणं ।
 घंघइ देसो विरओ अधिरासुभअजसपुव्वाणि ॥६६॥
 अपमत्तो सनियटी सुरदुववेउवजुगलधुववन्धी ।
 परघाऊसासखगई तसाईचउरंसपंचेदी ॥६७॥
 विरए आहारुदओ वन्धो पुण जा नियट्टि अपमत्ता ।
 तिरथस्स अविरयाओ जां सुहुमो ताव कित्तीए ॥६८॥
 उज्जोयआयवाणं उदओ पुर्व्विपि होइ पच्छावि ।
 ऊसाससरेहिंतो सुहुमतिगुज्जोयनायावं ॥६९॥

उज्जोवे नायावं सुहृमतिगेणं न षड्झण उभयं ।
 उज्जोव जसाणुदण जायइ साहारणस्सुदओ ॥७०॥
 दुभगईणं उवण वायरपज्जो विउव्वण पवणो ।
 वेवगईण उदअओ दुभगअणाएज्ज उदएवि ॥७१॥
 सुसरउदअओ विगलाण होइ विरयाण देसविरयाणं ।
 उज्जोवुदओ जायइ वेउव्व्राहारगद्धाए ॥७२॥
 अडनववीसिगवीसा चउवीसेगहिय जाव इगतीसा ।
 चउगईणसु वारस उदयठाणाई नामस्स ॥७३॥
 मणुएसु चउवासा वीसडनववज्जियाअओ तिरिएसु ।
 इगपण सगठ नववीस नारए सुरे सतीसा ते ॥७४॥
 इगिवीसाइ मिच्छे सगठ वीसाए सासण्ये हीणा ।
 चउवीसूणा सम्भे पंचवीसाए जोगिम्मि ॥७५॥
 पणवीसाई देसे छव्वीसूणा पमसि पुण पंच ।
 गुणतीसाई मीसे तोसुगतीसा य अपमत्ते ॥७६॥
 अओ नवो अजोगिस्स वीसअओ केवलीसमुग्घायः ।
 इगवीसो पुण उदअओ भवंतरे सठवजीवाणं ॥७७॥
 चउवीसाइचउरो उदया एगिंदिएसु तिरिमणुए ।

श्यडवीसाइछवीसा एक्केक्कूणा विउव्वंते ॥७८॥
 गइआणुपुविजाई थावरदुभगाई तिण्णिण धुवउदया ।
 एगिंदिय इगवीसा सेसाणवि पगइवच्चासो ॥७९॥
 सा आणुपुविहीणा अपज्ज एगिंदितिरियमणुआणं ।
 पत्तेउवघायसरीर हुंडसहिआ चउव्वीसा ॥८०॥
 परघाय सास आयवजुत्तापणछक्कसत्तवीसा सा ।
 संघयण थंगजुत्ता चउवीस छव्वीस मणुतिरिए ॥८१॥
 परघायखगइजुत्ता अडवीसा गूणतीस सासेणं ।
 तीसा मरेणं सुज्जोवतित्थ तिरिमणुअ इगतासा ॥८२॥
 तिरिउदयछवीसाइ संघयणविवज्जिआओ ते चेव ।
 उदया नरतिरियाणं विउव्विगाहारगजईणं ॥८३॥
 देवाणं सव्वे वि हुं त एव विगलोदया असंघयणा ।
 संघयणुज्जोवं विवज्जियाउ ते नारएसु पुणो ॥८४॥
 तसवायरपव्वज्जंतं सुभगाएज्ज पणिदिमणुयगई ।
 जसकित्ती तित्थयरं थजोगिजिणथ्र्छगं नवगं ॥८५॥
 निच्चोदयपगइजुयां चरिमुदया केवलासमुग्घाए ।
 संठाणेसु सव्वेसु हेअंति दुसरा वि केवलिणो ॥८६॥

पत्तेऽवघायउरालदुवयसंठाणपढमसंघयणे ।
 हूढे छसत्तवीसा पुव्वुत्ता सेसया उदया ॥८७॥
 तित्थयरे इगतीसा तीसा सामणगकेवलीणं तु ।
 खीणसरे गुणतीसा खीणुस्तासंमि अडवीसा ॥८८॥
 साहारणस्स मिच्छे सुहुमअपज्जत्तआयवाणुदओ ।
 सासायणम्मि थावरण्णिंदियविगलजाईणं ॥८९॥
 सम्मे विउट्ठिवच्छक्कस्स दुभग अणाएज्ज अजसपुव्वीणां ।
 विरयाविरए उदओ तिरिगइउज्जोवपुव्वाणं ॥९०॥
 विरयापमत्तएसुं अंततिसंघयणपुव्वगाणुदओ ।
 अपुव्वकरणमादिसु दुइयतइज्जाणखीणाओ ॥९१॥
 नामधुवोदयसूतर खगईओरालदुवयपत्तेयं ।
 उवघायतिसंठाणा उसभमजोगिम्मि पुव्वुत्ता ॥९२॥
 पिंडे तित्थगरूणे आहारूणे तहोभयविहूणे ।
 पढमचउक्कं तस्स उ तेरसगखए भवे वीयं ॥९३॥
 सुरदुगवेउव्वियगइ दुगे य उव्वट्ठिए चउत्थाओ ।
 मणुयदुगे य नवठय दुहा भवे संतयं एक्कं ॥९४॥
 थावरतिरिगइ दोदो आयावेग्गिंदिविगलसाहारं ।

नरयदुशुजोयाणि य दसाइमेगंततिरिजोग्गा ॥९५॥
 एगिंदिसु पढमदुगं वाऊतेऊसु तइयगमणिच्चं ।
 अहवा पणतिरिएसु तस्संतेगिंदियाएसु ॥९६॥
 पढमं पढमगहीणं नरए मिच्छम्मि अधुवतिगंजुत्तं ।
 देवे सा(आ)इचउक्कं तिरिएसु अतिरथमिच्छसंताणि ॥९७॥
 पढमचउषकं सम्मा वीयं खीणाओ वायरसुहुमे य ।
 सासणि मीसि वित्तिरथं पढममजोगिम्मि अट्ट नव ॥९८॥
 नवपंचोदयसंता तेवीसे पण्णवीसछव्वीसे ।
 अठ चउरठवीसे नवसत्तिगुतीसतीसे य ॥९९॥
 एक्केक्कं इगितीसे एक्के एक्कुदय अट्टसंतंसा ।
 उवरयबंधे वसदस नामोदयसंतंठाणाणि ॥१००॥
 वन्धोदयसंतेसुं पणपण पढमंतिमाण जा सुहुमो ।
 संतोइण्णाइं पुण उवसमखीणे परे नरिथ ॥१०१॥
 मिच्छा सासायणेसु नववन्धुवलक्खियाउ दो भंगा ।
 मीसाओ य नियट्ठी जा छव्वंधेण दो दो उ ॥१०२॥
 चउबंधे नवसंते दोणिण अपुव्वाउ सुहुमरागं जा ।
 अयवन्धे नवसंते उवसंते हुंति दो भंगा ॥१०३॥

चउवन्धे छस्संते वायरसुहुमाणमेगखवगाणं ।
 छसु चउसु व संतेसु दोणिण अवन्धम्मि खीणस्स ॥१०४॥
 चत्तारि जा पमत्तो दोणिण उ जा जोगि सायवन्धेणं
 सेत्तेसि अवन्धे चउ इगिसंते चरमसमए दो ॥१०५॥
 अट्टुछलाहियवीसा सोलसवीसं च वारस छ दोसु ।
 दो चउसु तीसु एक्कं मिच्छाइसु आउए भंगा ॥१०६॥
 नरतिरिउदए नारयवन्धविहूणा य सासणि ठवीसा ।
 वन्ध सम ऊण सोलस मीसे चउबंधजुअ सम्मे ॥१०७॥
 देसविरयम्मि वारस तिरिमणुभंगा छ वन्धपरिहीणा ।
 मणुभंग तिन्नधूणा दुसु सेसा उभयसेढीसु ॥१०८॥
 पंचादिमा उ मिच्छे आदिमहीणाउ सासणे चउरो ।
 उच्चवन्धेण दोन्निउ मीसाओ देसविरयं जां ॥१०९॥
 उच्चेणं वन्धुदए जा सुहुमो अवन्धिठट्टओ भंगो ।
 उवसंता जा जोगी दुचरिमं चरमम्मि सत्तमओ ॥११०॥
 अहम्मि मोहणीए बंधोदयसंतयाणि भणियाणि ।
 अहुणाऽवोग्गडगुणउदय पयसमूहं पवक्खामि ॥१११॥
 जा जम्मि चउवीसा गुणयाओ ताओ तेणं उदएण ।

मेलिया चउव्वासगुणा इयरपएहि च पयसंखा ॥११२॥
 उत्तसहस्ता सट्टीए वज्जिया अहव ते तिवण्णाए ।
 गुणतीसाए अहवा वंधगभेएण मोहणीए ॥११३॥
 अट्टही वत्तीसा वत्तीसा सठिमेव वावण्णा ।
 चोयाला चोयाला वीसा मिच्छाउ पयधुवगा ॥११४॥
 तिनिसया वावन्ना सिलिया चउवीस ताडिया एए ।
 वायर उदयपएहिय-सहियाओ गुणेषु पयसंखा ॥११५॥
 तेवीसूणा सत्तरस वज्जिया अहव सत्त अहियाइं ।
 पंचासीइ सयाइं उदयपयाइं तु मोहस्त ॥११६॥
 एवं जोयुवओगा लेसाइंभेयओ वहू भेया ।
 जा जस्त जम्मि उ-गुणे संखा सा तम्मि गुणागारो ॥११७॥
 उदयाणुवओगेसु सगसयरिसया तिउत्तरा हुंति ।
 पण्णासपयसहस्ता तिण्णिण-सया चेव पण्णारा ॥११८॥
 तिगहीणा तेवण्णा सया उ उदयाण हींति लेसाणं ।
 अडतीस सहस्ताइं पयाण सगदोयसगतीसा ॥११९॥
 चोवसउ सहस्ताइ-सयं च गुणहत्तरं उदयमाणं ।
 सत्तरसा सत्तसया पणनउइसहस्तपयसंखा ॥१२०॥

गइसु य अठ्वगडंमि वोच्छामि इंदियसु पुणो ॥१२९॥
 इगि विगले पण वंधा अडवीसूणाउ अट्ट इयरम्मि ।
 पंच ठ एक्कारुदया पण पण वारस उ संताणि ॥१३०॥
 नाणंतरायदंसण वन्धोदयसंतभंग जे मिच्छे ।
 ते तेरस ठाणेसुं सन्निम्मि गुणासिया सव्वे ॥१३१॥
 तेरससु वेयणीयस्स आइमा हुंति भंगया चउरो ।
 निच्चुदए तिणिण गोए सव्वे दोणहंपि सणिणस्स ॥१३२॥
 तिरिउदए नव भंगा जे ते सव्वे असणिणपज्जत्ते ।
 नारयसुरचउ भंगा-रहिधा इगविगलदुविहाणं ॥१३३॥
 असणिण अप्पज्जत्ते तिरिउदए पंच जह य तह मणुए ।
 मणपज्जत्ते सठवे इयरे पुण दस उ पुठ्वुत्ता ॥१३४॥
 वन्धोदयसंताइं पुण्णाइं सत्तिणो उ मोहस्स ।
 वायरविगलासणिणसु पज्जेसु दु आइमा वंधा ॥१३५॥
 अठसु वावीसोच्चिय वन्धो अट्टाइ उवय तिन्नेव ।
 सत्तगजुया उ पंचसु अडसत्तछडवीससंतम्मि ॥१३६॥
 सणिणमि अठ असणिणम्मि च्छाइमा तेऽठवीस परिहीणा
 पज्जत्तविगलवायर सुहुमेसु सहा अपज्जाणं ॥१३७॥

मीसदुगे कम्मइए अणउदयविवज्जियाउ मिच्छस्स ।
 चउवीसा ऊणचउरो तिगुणाओ तो रिणं ताओ ॥१२१॥
 वेउवियमीसम्मि नपुंसवेओ न सासणे होइ ।
 चउवीस चउक्काओ अओ तिभागो रिणं तस्स ॥१२२॥
 कम्मयविउट्ठिवमीसे इत्थीवेओ न होइ सम्मस्स ।
 अपुमित्थिउरलमीसे तच्चउवीसाण रिणमेयं ॥१२३॥
 आहारगमीसेसुं इत्थीवेओ न होइ उ पमत्तो ।
 दोणिण तिभागा उ रिणं अपमत्तजइस्स उ तिभागो ॥
 उदएसु चउवीसा धुवगाउ पदेसु जोगमाईहिं ।
 गुणिया मिलिया चउवीस ताडिया इयरसंजुत्ता ॥१२५॥
 अपमत्तसासणेसु अड सोल पमत्ते सम्मि वत्तीसा ।
 मिच्छम्मि छन्नउईं ठावेज्जा सोहणनिमित्तं ॥१२६॥
 जोगतिगेणं मिच्छे नियनियचउवीसगाहिं सेसाणं ।
 गुणिकुणं फेडेज्जा सेसा उदयाण परिसंखा ॥१२७॥
 चउवीसाए गुणेज्जा पयाणि अकिच्चा मिच्छ ठणणउईं ।
 सेसाणं धुवगेहिं एगीकिच्चा तओ सोहे ॥१२८॥
 चन्धोदयसंताइं गुणेषु कहियाइं नामकम्मस्स ।

गइसु य अन्वगडंमि वोच्छामि इंदिएसु पुणो ॥१२९॥
 इगि विगले पण वंधा अडवीसूणाउ अट्ट इयरम्मि ।
 पंच ठ एक्कारुदया पण पण वारस उ संताणि ॥१३०॥
 नाणंतरायदंसण वन्धोदयसंतभंग जे मिच्छे ।
 ते तेरस ठाणेषु सन्निम्मि गुणासिया सव्वे ॥१३१॥
 तेरससु वेयणीयस्स आइमा हुंति भंगया चउरो ।
 निच्चुदए तिणिण गोए सव्वे दोणहंपि सणिणस्स ॥१३२॥
 तिरिउदए नव भंगा जे ते सव्वे असणिणपज्जत्ते ।
 नारयसुरचउ भंगा-रहिया इगविगलदुविहाणं ॥१३३॥
 असणिण अप्पज्जत्ते तिरिउदए पंच जह य तह मणुए ।
 मणपज्जत्ते सव्वे इयरे पुण दस उ पुठ्वुत्ता ॥१३४॥
 वन्धोदयसंताइं पुण्णाइं सन्निणो उ मोहस्स ।
 वायरविगलासणिणसु पज्जेसु दु आइमा वंधा ॥१३५॥
 अठसु वावीसोच्चिय वन्धो अट्टाइ उवय तिन्नेव ।
 सत्तगजुया उ पंचसु अडसत्तछव्वीससंतम्मि ॥१३६॥
 सणिणमि अठ असणिणम्मि छ्छाइमा तेऽठवीस परिहीणा
 पज्जत्तविगलवायर सुहुमेसु सहा अपज्जाणं ॥१३७॥

इग्वीसाई दो चउ पणउंदयाऽपञ्जसुहुमवाराणं ।
 सण्णस्स अचउवीसा इगछडवीसाइसेसाणं ॥१३८॥
 तेरससु पंच संता तिण्ण धुवासीइ वाणउई ।
 सण्णस्स हेअंति वारस गुणठाणकमेण नामस्स ॥१३९॥
 वज्झंति सत्त अछ य नारयतिरिसुरगईसु कम्माई ।
 उहीरणा वि एवं संतोइण्णाइं अछ तिसु ॥१४०॥
 गुणभिहिंयं मणुएसु सगलतसाणं च तिरिय पडिवक्खा ।
 मणजोगी छउमा इव कायवई जहा सजोगीणं ॥१४१॥
 वेई नवगुणतुल्ला तिकसाइवि लोभे बसगुणसमाणं ।
 सेसाणिवि ठाणाइं एएण कमेण नेयाणि ॥१४२॥
 सत्तरसुत्तरमेयुत्तरं तु चोहत्तरी उ सगसयरी ।
 सत्तट्ठी तिगसट्ठी गुणसट्ठी अट्टवण्णा य ॥१४३॥
 निहादुगेछवण्णा छवीसा तीसयंधविरमम्मि ।
 द्वासरईभयकुच्छा विरमे वावीसपुव्वम्मि ॥ १४४ ॥
 पुंवेय कोहमाइसु अयवज्झमाणेसु पंच ठाणाणि ।
 वारे सुहुमे सत्तरस पगतिओ सायमियरेसु ॥१४५॥
 मिच्छो नरएसु सयं छन्नवई सासणो सयरिमीसो ।

वावत्तरिं तु सम्मो चउराइसु वंधति अतित्था ॥१४६॥
 मणुयदुगुच्चागोयं भवपच्चयओ न होइ चरिमाण ।
 गुणपच्चयं तु वज्झइ मणुआउ न सव्वहा तत्थ १४७॥
 सामणसुराजोग्गा आजोइसिया न वंधहिं सतित्था ।
 इगिथावरायवजुया सणंकुमारा न वंधति ॥१४८॥
 तिरितिगउज्जोवजुआ आणयदेवा अणुत्तरसुरा उ ।
 अणमिच्छणीयदुभग थीणतिगं अपुमधीवेयं ॥१४९॥
 संघयणा संठाणा पणपणअपसत्थविहगइ न तेसिं ।
 पज्जत्ता वन्धंति उ देवाउमसंखवासाऊ ॥१५०॥
 तित्थायवउज्जोव नारयतिरिविगलतिगतिगेग्गिदी ।
 आहारधावरचऊ आऊण असंखऽपज्जत्ता ॥१५१॥
 पज्जत्तिगया दुभगतिगणीयअपसत्थविह नपुंसाणं ।
 संघयणउरलमणुदुगपणसंठाणाण अबंधी ॥१५२॥
 किण्हाइतिगे असंजमे य वेउव्विजुगे न आहारं ।
 वन्धइ न उरलमासे नरयतिगं छट्टममराउं ॥१५३॥
 कम्मगजोगे अणहारगे य सहिया दुगाउ णेयाओ ।
 सगघण्णा तेवठी वन्धइ आहार उभयेसु ॥१५४॥

तेज्ज खेसाईया वंधंति न नरयविगलसुहुमतिंग ।
 सेगिदि थावरायव तिरियसिगुडजोय नव धार ॥१५५॥
 सुयदेवीपसायाओ पगरणमेयं समासओ भणियं ।
 समयाओ चंदरिसिणा समईविभवाणुसारेणं ॥१५६॥

॥ इति पंचसंग्रहः समाप्तः ॥

॥ अथ परिशिष्टम् ॥

चत्तारि वीस सोलस भंगा एगिदियाण चत्ताला ।
 एगट्ट अठ विगलिदियाण इगवणण तिण्हंपि ॥१॥
 गुणतीसे तीसेवि य भंगाणट्टाहियाच्छयालसया ।
 पंचिदियतिरिजोगे पणुवीसे घन्धभंगेकं ॥ २ ॥
 पणंधीसयम्मि एको छायालसया अहुत्तरिगुणतीसे ।
 मणुजोगट्ट उ सव्वे छायालसया सत्तरमा ॥३॥

अट्टट्ट एक्क एक्कग भंगा अट्टारदेवजोगेसु ।
 एक्को नारयजोगे एक्को जसकित्तिभंगाओ ॥ ४ ॥
 तेरस सहस्सनवसय पणयालभंगयाण वन्धम्मि ।
 नामस्स उदयसंखा पणयालत्तरिसयाओ ॥ ५ ॥
 एगिंदिय उदएसु पंच य एक्कार सत्ततेरसयं ।
 छक्कं कमसो भंगा वायाला हुंति सठवे वि ॥६॥
 तिगतिगदुगचउठच्चउ विगलाण च्छसठि होइ तिणहंपि
 अट्टट्टं सोलसोलस अठ वेउवित्तिरियस्स ॥७॥
 नव नव सीया दोसय पंचच्चावत्तरीय पणतिरिए ।
 ते दुगुणतिगुणदुगुणा गुणतीसाइसु उदएसु ॥८॥
 नवनव सीया दोसय च्छावत्तर पञ्चपञ्च उदयदुगे ।
 एक्कारस्स य वावन्न नराण उदएसु भंगसया ॥९॥
 अड अड नव नव एक्के वेउविवनराण होइ पणतीसा
 एक्केक्कदोदुगेक्के आहारजईण सत्तेव ॥ १० ॥
 अठट्ट अठ सोलस सोलट्टय वेवओ य भंगाओ ।
 नारयकेवल्लिउदएसु पञ्चघावठिभंगाओ ॥११॥